



भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1] नई दिल्ली, शनिवार, जनवरी 1—जनवरी 7, 2011 (पौष 11, 1932)
No. 1] NEW DELHI, SATURDAY, JANUARY 1—JANUARY 7, 2011 (PAUSA 11, 1932)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग I—खण्ड 4

[PART I—SECTION 4]

[रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों व छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं]
[Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence]

रक्षा मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 1 जनवरी 2011

रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन

सं. 703, दिनांक 23 नवम्बर 2010--राष्ट्रपति, सहर्ष निम्नलिखित अस्थाई वैज्ञानिकों को दर्शाये अनुसार एक वर्ष की परखावधि पर वैज्ञानिक 'डी' के पद पर अंगले पे बैंड रु. 15,600--39,100/- पीबी-3 व ग्रेड पे रु. 7,600/- के वेतनमान के रूप में रक्षा अनुसंधान एवं विकास सेवा में उनके नाम के आगे दर्शाये अनुसार व उसी स्थापना में पदोन्नति करते हैं:--

नाम, स्थापना व परखावधि की पूर्ण होने की दिनांक
डॉ सुदीप्त भट्टाचार्या, एसएसपीएल, दिल्ली, 03 दिसम्बर 2007
डॉ पवन कुमार अग्रवाल, आईएनएमएस, दिल्ली, 03 अप्रैल 2008
डॉ दामोदर गुप्ता, आईएनएमएस, दिल्ली, 09 मई 2008
डॉ कैलाश मोंण्डा, आईएनएमएस, दिल्ली, 16 जून 2008

नरसिंह साहू
संयुक्त निदेशक (कार्मिक)

थल सेना विभाग

सं. 704, दिनांक 23 नवम्बर 2010--राष्ट्रपति, निम्नलिखित भूतपूर्व जूनियर कमीशनड अफसरों को नौकरी पर बहाल करते हैं:--

नियमित सेना

रक्षा तथा सुरक्षा कोर

सूबेदार मेजर (जीडी) के रैंक में

सूबेदार मेजर श्री भगवान साहु (जेसी-369659एम), पहले सिग्नल, 22 दिसम्बर 2008

सूबेदार मेजर तिलक राज (जेसी-518527ए), पहले डोगरा रेजिमेंट, 13 जुलाई 2009

सूबेदार मेजर देविन्दर सिंह (जेसी-528191वाई), पहले गढ़वाल राईफल्स, 13 जुलाई 2009

सूबेदार (जीडी) के रैंक में

सूबेदार विजय सिंह (जेसी-256863एक्स), पहले आर्टी रेजिमेंट, 22 दिसम्बर 2008

सूबेदार सतीश कुमार शर्मा (जेसी-519363एफ), पहले डोगरा रेजिमेंट,
22 दिसम्बर 2008

सूबेदार ए. मुत्तू (जेसी-224176एन), पहले मद्रास रेजिमेंट,
25 अप्रैल 2009

सूबेदार हरि मोहन झा (जेसी-368189ए), पहले सिग्नल,
25 अप्रैल 2009

सूबेदार दलजीत सिंह (जेसी-449416पी), पहले ग्रेनेडियर रेजिमेंट,
25 अप्रैल 2009

सूबेदार दास ई. के. (जेसी-438912डब्ल्यू), पहले मद्रास रेजिमेंट,
26 अप्रैल 2009

सूबेदार मोहन सिंह डोगरा (जेसी-325196एच), पहले बी ई जी
(रूडकी), 13 जुलाई 2009

सूबेदार दुर्गा बहादुर गमल मगर (जेसी-220362एम), पहले
8 जीआर, 13 जुलाई 2009

सूबेदार कश्मीर सिंह (जेसी-428632पी), पहले पंजाब रेजिमेंट,
13 जुलाई 2009

सूबेदार अवतार सिंह (जेसी-403079एम), पहले गार्ड्स रेजिमेंट,
13 जुलाई 2009

सूबेदार ज्योतीष कुमार एस (जेसी-438448एक्स), पहले मद्रास
रेजिमेंट, 05 सितम्बर 2009

सूबेदार तिल बहादुर राय (जेसी-634396वाई), पहले 11 जीआर,
05 सितम्बर 2009

सूबेदार देवी दत्त मिश्रा (जेसी-261151वाई), पहले आर्टी रेजिमेंट,
07 सितम्बर 2009

नायब सूबेदार (जीडी) के रैंक में

नायब सूबेदार जुगराज सिंह (जेसी-508473डब्ल्यू), पहले सिख लाई
रेजिमेंट, 25 अप्रैल 2009

नायब सूबेदार नारायण सिंह (जेसी-449257एच), पहले ग्रेनेडियर
रेजिमेंट, 25 अप्रैल 2009

नायब सूबेदार तुलसी राम गुर्जर (जेसी-403088एन), पहले गार्ड्स
रेजिमेंट, 25 अप्रैल 2009

नायब सूबेदार ददन सिंह (जेसी-375505डब्ल्यू), पहले सिग्नल,
28 अप्रैल 2009

नायब सूबेदार मणी राम (जेसी-240052एच), पहले आर्म्ड कोर,
04 मई 2009

नायब सूबेदार भारगावन पिल्लै (जेसी-298458एफ), पहले आर्टी
रेजिमेंट, 13 जुलाई 2009

नायब सूबेदार सत्या पाल सिंह (जेसी-263323एफ), पहले आर्टी
रेजिमेंट, 07 सितम्बर 2009

प्रदीप कुमार
अवर सचिव

सेना शाखा

सं. 705, दिनांक 23 नवम्बर 2010--राष्ट्रपति, निम्नलिखित अधिकारियों
को सहर्ष पदोन्नत करने की अनुमति प्रदान करते हैं :--

प्रादेशिक सेना

प्रादेशिक कमीशन

लेफ्टि कर्नल बनाया जाता है

मेजर एस बी सिंह (टीए-42641) (इंफैन्ट्री), 13 जुलाई 2010

मेजर राजेश भारद्वाज (टीए-42684) (इंफैन्ट्री), 08 जुलाई 2010

मेजर एन आर देशपाण्डे (टीए-42269) (इंफैन्ट्री), 15 मई 2010

मेजर के. सरकार (टीए-42279) (इंफैन्ट्री), 08 जून 2010

जय राज
अवर सचिव

सेना शाखा

सं. 706, दिनांक 24 नवम्बर 2010--राष्ट्रपति, निम्नलिखित
अधिकारियों को उनके सामने देय तिथि से पदोन्नति करते हैं :--

नियमित सेना

स्थायी कमीशन

मेजर से लेफ्टि के पद पर

अरिन्दम घोष (एमआर-06924के), एएमसी, 01 अक्टूबर 2008

आर. एन. खान (एमआर-07102वाई), एएमसी, 20 जनवरी 2010

योगेन्द्र यादव (एमआर-08470ए), एएमसी, 08 नवम्बर 2008

टी. राजकमल (एमआर-07179एफ), एएमसी, 29 जून 2010

सल्लेन कुमार सिंह (एमआर-08258एच), एएमसी, 03 जुलाई 2010

रितेश कुलकर्णी (एमआर-07787एच), एएमसी, 09 जुलाई 2010

संग्राम केशरी शामिल (एमआर-08001एक्स), एएमसी, 09 जुलाई
2010

रिषी राज (एमआर-06984वाई), एएमसी, 06 जनवरी 2009

संदीपन दास शर्मा (एमआर-07931एम), एएमसी, 28 अक्टूबर
2009

जयचन्द्रन एन. बी (एमआर-08323एक्स), एएमसी, 20 जनवरी
2010

दर्शन सिंह ग्रेवाल (एमआर-07997एच), एएमसी, 04 फरवरी 2010

सर्जन लेफ्ट कमान्डर से सर्जन कमान्डर के पद पर

मधुरिक बैनर्जी (एमआर-07068के) (75652के), एएमसी, 20 जनवरी 2010

पी विन्नी विलसन (एमआर-07165एल) (75655टी), एएमसी, 29 जून 2010

यश पांडे
ब्रिगे

उप महानिदेशक स से चि से (मा सं)

सेना शाखा

सं. 707, दिनांक 24 नवम्बर 2010--राष्ट्रपति, निम्नलिखित अधिकारियों को सहर्ष पदोन्नत करने की अनुमति प्रदान करते हैं :--

प्रादेशिक सेना

प्रादेशिक कमीशन

मेजर बनाया जाता है

कैप्टन एम एफ खान (टीए-42527) (इंफैन्ट्री), 01 मई 2010

कैप्टन एच डी सिंह (टीए-42529) (इंफैन्ट्री), 11 मई 2010

कैप्टन अमित सागर (टीए-42531) (इंफैन्ट्री), 01 मई 2010

कैप्टन बी एस परीहार (टीए-42532) (इंफैन्ट्री), 12 जून 2010

कैप्टन एस एन सीमपी (टीए-42590) (इंफैन्ट्री), 31 मई 2010

जय राज
अवर सचिव

सेना शाखा

सं. 708, दिनांक 24 नवम्बर 2010--राष्ट्रपति, सहर्ष निम्नलिखित सेना चिकित्सा कोर अधिकारियों की सामने देय तिथि से पदोन्नति करते हैं :--

नियमित सेना

स्थायी कमीशन

मेजर के पद पर

केदार प्रदीप महादेव (एमएस-15385ए) (एमआर-08968ए), एएमसी, 22 सितम्बर 2008

भारत सरकार के राजपत्र के दिनांक 04 अप्रैल 2009 में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का सम्बन्ध जहां तक इस अधिकारी से है, रद्द किया जाता है।

आरती सावनी (एमआर-08710एम), एएमसी, 04 मार्च 2008

पंकज कुमार गोगोई (एमएस-15242ए) (एमआर-08769एम), एएमसी, 21 अक्टूबर 2006

भारत सरकार के राजपत्र के दिनांक 17 अप्रैल 2010 में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का सम्बन्ध जहां तक इस अधिकारी से है, रद्द किया जाता है।

कप्तान के पद पर (परख पर)

देवाशीश सौम्य रंजन दास (एमआर-08849के), एएमसी, 11 फरवरी 2010

श्री कृष्णा प्रसाद पान्डा (एमआर-08852के), एएमसी, 11 फरवरी 2010

मोहम्मद सचिजन इकबाल (एमआर-08859एन), एएमसी, 11 फरवरी 2010

सलोनी मित्तल (एमएस-15275एल) (एमआर-08980एफ), एएमसी, 20 फरवरी 2007,

इन्टर्नशिप पूरा होने के पश्चात्

भारत सरकार के राजपत्र के दिनांक 08 सितम्बर 2007 में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का सम्बन्ध जहां तक इस अधिकारी से है, रद्द किया जाता है।

धर्मेन्द्र कुमार (एमएस-15291एच) (एमआर-08978के), एएमसी, 20 फरवरी 2007

भारत सरकार के राजपत्र के दिनांक 08 सितम्बर 2007 में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का सम्बन्ध जहां तक इस अधिकारी से है, रद्द किया जाता है।

यश पांडे
ब्रिगे

उप महानिदेशक स से चि से (मा सं)

सेना शाखा

सं. 709, दिनांक 25 नवम्बर 2010--राष्ट्रपति, निम्नलिखित पदाधिकारियों को सहर्ष पदोन्नत करते हैं :--

नियमित सेना

अल्प-कालीन सेवा कमीशन (एसएससीडब्ल्यू)

ले से कप्तान

एसएस सं., नाम, आर्म, वरीयता तिथि, कोर्स, संशोधित वरीयता तिथि तथा कप्तान दिनांक से

(एसएस-43938) ज्योति खंडूरी, सिग्नल्स, 22 मार्च 2008, एसएससीडब्ल्यू 03(टी), 22 अप्रैल 2008, 22 अप्रैल 2010

(एसएस-43940) जिन्जी जोसफ, ईएमई, 22 मार्च 2008, एसएससीडब्ल्यू 03(टी), 22 अप्रैल 2008, 22 अप्रैल 2010

(एसएस-43941) निधि धानिया, ईएमई, 22 मार्च 2008, एसएससीडब्ल्यू 03(टी), 22 अप्रैल 2008, 22 अप्रैल 2010

(एसएस-43943) दिव्या पुरी, सिग्नल्स, 22 मार्च 2008, एसएससीडब्ल्यू 03(टी), 22 अप्रैल 2008, 22 अप्रैल 2010

(एसएस-43945) संध्या नायर, सिग्नल्स, 22 मार्च 2008, एसएससीडब्ल्यू 03(टी), 22 अप्रैल 2008, 22 अप्रैल 2010

अल्प-कालीन सेवा कमीशन (डब्ल्यूएसईएस)

ले से कप्तान

नाम, डब्ल्यूएस सं. तथा आम

खोट पूनम जयप्रकाश (डब्ल्यूएस-01020), एससी

अलिफा अकबर (डब्ल्यूएस-01038), जेएजी

--19 मार्च 2010

पी के शास्त्री

मेजर

एमएस-8बी

सेना शाखा

सं. 710, दिनांक 25 नवम्बर 2010--राष्ट्रपति, निम्नलिखित अधिकारियों को सहर्ष नियुक्त करते हैं:--

प्रादेशिक सेना

प्रादेशिक कमीशन

ले के पद पर

जितेन्द्र सिंह (टीए-42713), एससी (टीए), 24 अप्रैल 2008(एफएन)

जनार्दन पटेल (टीए-42723), इंजीनियर (टीए), 17 सितम्बर 2008(एफएन)

हेमन्त त्यागी (टीए-42725), इंजीनियर (टीए), 20 नवम्बर 2008(एफएन)

यतीश कुमार (टीए-42729), इंजीनियर (टीए), 27 फरवरी 2009(एफएन)

सुनील कुमार (टीए-42730), इंजीनियर (टीए), 27 फरवरी 2009(एफएन)

जीसी राजाशेकर (टीए-42734), एससी (टीए), 26 मई 2009(एफएन)

अमित मिश्रा (टीए-42749), इंजीनियर (टीए), 15 अक्टूबर 2009(एफएन)

सुशान्त एस मेशराम (टीए-42750), इंजीनियर (टीए), 15 अक्टूबर 2009(एफएन)

यादराम वगेल (टीए-42751), इंजीनियर (टीए), 15 अक्टूबर 2009(एफएन)

एम खाजा मोहीद्दीन (टीए-42754), एससी (टीए), 02 अगस्त 2009(एफएन)

पुष्कर आनंद (टीए-42755), एससी (टीए), 02 अगस्त 2009(एफएन)

विजय कुमार बरीवाल(टीए-42756), एससी(टीए), 02 अगस्त 2009(एफएन)

रोशन योगेश शाकरे (टीए-42757), एससी (टीए), 02 अगस्त 2009(एफएन)

सुधीर नन्दा (टीए-42758), एससी (टीए), 04 अगस्त 2009(एफएन)

अकाश दीप (टीए-42760), इंजीनियर (टीए), 01 फरवरी 2010(एफएन)

एजाज अहमद डार (टीए-42761), इन्फैन्ट्री, 05 जनवरी 2010(एफएन)

अमित नागरकर (टीए-42762), इन्फैन्ट्री, 05 अप्रैल 2010(एफएन)

सिद्धार्थ जेटली (टीए-42764), इन्फैन्ट्री, 28 अप्रैल 2010(एफएन)

चन्दन दोरगोयारी (टीए-42766), इन्फैन्ट्री, 29 अप्रैल 2010(एफएन)

अजय एलेक्स (टीए-42767), इन्फैन्ट्री, 30 अप्रैल 2010(एफएन)

क्षत्रपाल चौहान (टीए-42768), इन्फैन्ट्री, 08 मई 2010(एफएन)

प्रशांत (टीए-42769), इन्फैन्ट्री, 18 मई 2010(एफएन)

मनीष दत्ता (टीए-42770), इन्फैन्ट्री, 23 मई 2010(एफएन)

वरुण परमार (टीए-42771), इन्फैन्ट्री, 26 मई 2010(एफएन)

जय राज
अवर सचिव

थल सेना शाखा

सं. 711, दिनांक 25 नवम्बर 2010--राष्ट्रपति, निम्नलिखित पदोन्नतियां करते हैं:--

स्थायी थल सेना

सेना चिकित्सा कोर

स्थायी सूबेदार मेजर (एम्बुलेन्स अस्सिस्टेंट)

सूबेदार गवली शंकर भाई चिमन भाई (जेसी-694971वाई), 01 सितम्बर 2009

सूबेदार प्रकाश बहादुर राणा (जेसी-694969एफ), 01 सितम्बर 2009

सूबेदार दुलाल सिन्हा (जेसी-694982एल), 01 अक्टूबर 2009

सूबेदार दशरत घोष (जेसी-694884एल), 01 नवम्बर 2009

सूबेदार मोहम्मद हरून खान (जेसी-694955एफ), 01 दिसम्बर 2009

सूबेदार एस के शाहजहां (जेसी-6945007के), 01 दिसम्बर 2009

सूबेदार जय कुमार नायर डी (जेसी-695026पी), 01 दिसम्बर 2009

सूबेदार धरम पाल सिंह (जेसी-695044एक्स), 01 दिसम्बर 2009

सूबेदार भूसनर जगन नाथ मारूती (जेसी-695023एफ), 01 दिसम्बर 2009

सूबेदार कुलवन्त सिंह (जेसी-695046एच), 01 दिसम्बर 2009

सूबेदार नैन सिंह (जेसी-695052डब्ल्यू), 01 दिसम्बर 2009

सूबेदार सिद्धनाथ सिंह (जेसी-695172पी), 01 जनवरी 2010

सूबेदार बसन्त बहादुर थापा (जेसी-695113एच), 01 जनवरी 2010

सूबेदार ओम प्रकाश (जेसी-695117वाई), 01 जनवरी 2010

सूबेदार अजीत कुमार सिंह (जेसी-695101एन), 01 जनवरी 2010

सूबेदार मनोहरन के एन (जेसी-695144एच), 01 फरवरी 2010

सूबेदार बिरेन्द्र पाण्डेय (जेसी-695104पी), 01 मार्च 2010

कुलवन्त सिंह राणा
अवर सचिव

थल सेना विभाग (एमजीओ) ईएमई कार्मिक

सं. 712, दिनांक 26 नवम्बर 2010--राष्ट्रपति, सहर्ष निम्नलिखित पदोन्नतियां करते हैं :--

सूबेदार क्लर्क (एसडी) के रैंक में

रवीनन्द सिंह (जेसी-760008एच), 01 मई 2010

सूबेदार मास्टर टेक एएफवी (इलेक्ट)

नवीन कुमार झा (जेसी-758978एम), 03 जून 2010/13 मई 2010*

सूबेदार ऑटो टेक बी व्हीकल

कनक चन्द्र नाथ (जेसी-762597एच), 14 जून 2010/01 मई 2010*

श्रीनिवासन आर (जेसी-763344ए), 01 जून 2010

ललित कुमार झा (जेसी-763345एच), 01 जून 2010

सूबेदार मास्टर टेक गन के रैंक में

राजबीर (जेसी-759226पी), 01 मई 2010

रोहतास (जेसी-759225एफ), 01 मई 2010

सी देवराजूलु चेत्ती (जेसी-759657एफ), 08 जून 2010/01 जून 2010*

ओम प्रकाश सिंह (जेसी-759232एच), 01 जून 2010

2—394 GI/2010

सूबेदार डीडब्ल्यू के रैंक में

केवल कृष्ण (जेसी-762156एम), 01 मई 2010

शिव शंकर प्रसाद (जेसी-762463के), 01 जून 2010

बृज कांत तिवारी (जेसी-762467ए), 01 जुलाई 2010

प्रकाश सिंह (जेसी-762166डब्ल्यू), 01 जुलाई 2010

सूबेदार मास्टर टेक बी व्हीकल के रैंक में

सुभाष सिंह कुशवाहा (जेसी-759293ए), 01 जून 2010

शादी खान (जेसी-759295एल), 14 जून 2010/01 जून 2010*

विनोद कुमार (जेसी-759286के), 01 जून 2010

हगगजुद्दीन शेख (जेसी-759292एक्स), 14 जून 2010/01 जून 2010*

डोडप्पा हंजी (जेसी-759290एम), 01 जून 2010

जयन सी बी (जेसी-759294एच), 20 जून 2010/01 जून 2010*

के कालीस्वरन (जेसी-759322के), 01 जुलाई 2010

रंजन कुमार साहू (जेसी-759303वाई), 01 जुलाई 2010

मुरली धरन नायर बी (जेसी-759305के), 01 जुलाई 2010

हेमंत कुमार दास (जेसी-759313एच), 01 जुलाई 2010

सतीश कुमार (जेसी-759215एच), 01 मई 2010

गोविन्द नारायण प्रसाद (जेसी-759519ए), 28 जून 2010/01 जून 2010*

राधा मोहन पत्रो (जेसी-759302डब्ल्यू), 01 जुलाई 2010

सूबेदार ए बी एन टेक (एवोनिक्स)

समीर कुमार मैटी (जेसी-762789ए), 01 जुलाई 2010

सूबेदार एस के टी के रैंक में

भैरव शर्मा (जेसी-761793डब्ल्यू), 01 जुलाई 2010

सतबीर सिंह (जेसी-762227एच), 01 जुलाई 2010

सूबेदार कारपेन्टर और ज्वानर

सतय लाल गुप्ता (जेसी-760939एम), 03 जुलाई 2010/01 जुलाई 2010*

उदयबीर सिंह (जेसी-762925एल), 01 जुलाई 2010

सूबेदार मास्टर टेक कम्प्यूनिकेशन के रैंक में

मदन लाल (जेसी-763309एक्स), 01 जुलाई 2010

गुलाब सिंह (जेसी-762816वाई), 01 जून 2010/01 मई 2010*

सूबेदार मास्टर टेक ए व्हीकल के रैंक में

राजेश कुमार (जेसी-759190एफ), 01 अप्रैल 2010

सूबेदार एवीएन टेक (आईएन)

महेन्द्र सिंह (जेसी-762659एक्स), 01 जुलाई 2010

सूबेदार मास्टर टेक एवीएफ (आई)

राकेश बाबू यादव (जेसी-760057एल), 01 जुलाई 2010

*पिछली तारीख से वरीयता दी जाती है।

सूबेदार क्लर्क (एसडी)

अजय कुमार मिश्रा (जेसी-759895एन), 01 अप्रैल 2010

सुरेन्द्र पाल सिंह (जेसी-760145एफ), 01 जुलाई 2010

सी गणेशन (जेसी-760147एम), 07 जुलाई 2010/01 जुलाई 2010*

निरंजन सिंह (जेसी-760182पी), 01 जुलाई 2010

सूबेदार मास्टर टेक एवीएन (आईएन)

पाटील भाऊसाहेब लक्ष्मण (जेसी-759966के), 03 मई 2010/01 मई 2010*

सूबेदार एसकेटी के रैंक में

रघुबीर सिंह (जेसी-761689एच), 20 अप्रैल 2010/01 अप्रैल 2010*

गिरीश चन्द्र उपाध्याय (जेसी-762226ए), 01 जुलाई 2010

प्रभास चन्द्र डोरा (जेसी-762228एल), 01 जुलाई 2010

सूबेदार मास्टर टेक गन के रैंक में

श्याम लाल (जेसी-759223एफ), 01 मई 2010

चन्द्रेश कुमार शुक्ला (जेसी-759231ए), 24 जून 2010/01 जून 2010*

सूबेदार मास्टर टेक बी.वेहीकल के रैंक में

दिव्येन्दु चक्रवर्ती (जेसी-759202एल), 01 जून 2010/01 अप्रैल 2010*

ब्रह्मानंद झा (जेसी-759278एल), 04 जून 2010/01 जून 2010*

चन्द्र राम कोछवा (जेसी-759321एफ), 01 जुलाई 2010

सुरेश गिरी (जेसी-759311एक्स), 01 जुलाई 2010

शलैन्द्र सिंह (जेसी-759319के), 01 जुलाई 2010

माली शंकर बापू (जेसी-763315एल), 01 जुलाई 2010

सिस्तू पोलय्या (जेसी-759342एक्स), 19 जुलाई 2010/01 जुलाई 2010*

एस सत्या राव (जेसी-759340एन), 01 जुलाई 2010

अरुण कुमार राय (जेसी-759308एक्स), 05 जुलाई 2010/01 जुलाई 2010*

बहादुर सिंह रावत (जेसी-759309ए), 01 जुलाई 2010

देशमुख बापू वामन (जेसी-759338पी), 02 जुलाई 2010/01 जुलाई 2010*

मिहीर पौल (जेसी-763302एन), 05 जुलाई 2010/01 जुलाई 2010*

रोहितशवा (जेसी-759314एल), 01 जुलाई 2010/01 जुलाई 2010*

अशोक कुमार सिंह (जेसी-759307पी), 01 जुलाई 2010

संतोष सिंह सोलंकी (जेसी-759312ए), 01 जुलाई 2010

पलानी एस (जेसी-759316डब्ल्यू), 01 जुलाई 2010

जॉर्ज एम के (जेसी-759520पी), 03 जुलाई 2010/01 जुलाई 2010*

सूबेदार डी डब्ल्यू के रैंक में

होशियार सिंह (जेसी-762163एच), 01 जून 2010

बाल चन्द यादव (जेसी-762469एल), 09 जुलाई 2010/01 जुलाई 2010*

अनोखे लाल (जेसी-762466एक्स), 06 जुलाई 2010/01 जुलाई 2010*

कृष्णा गोपाल पाण्डेय (जेसी-762468एच), 06 जुलाई 2010/01 जुलाई 2010*

सुब्रमणियन वी (जेसी-762165एन), 01 जुलाई 2010

एस एंटोनी मौन पातेन (जेसी-762465पी), 01 जुलाई 2010

सूबेदार आर टी (पंडित)

साधु सिंह (जेसी-754515ए), 01 जून 2010

विनोद कुमार द्विवेदी (जेसी-753874एफ), 01 अप्रैल 2010

मोहन जी पान्डेय (जेसी-754514एक्स), 03 जुलाई 2010/01 जुलाई 2010*

सूबेदार अटो टेक ए.वेहीकल के रैंक में

अभिमन्यु सिंह (जेसी-762761ए), 03 जुलाई 2010/01 मई 2010*

सूबेदार मास्टर टेक (इलैक्ट)

महेश चन्द्र शर्मा (जेसी-760268एन), 06 जुलाई 2010/01 जुलाई 2010*

सूबेदार अटो टेक बी.वेहीकल के रैंक में

निरंजन लेका (जेसी-763446डब्ल्यू), 12 जुलाई 2010/01 जून 2010*

उपेन्द्र प्रसाद यादव (जेसी-763447वाई), 20 जुलाई 2010/01 जुलाई 2010*

सूबेदार टेक (एवीएन/एवोनिक्स)

संधा कुमार डी (जेसी-762790पी), 01 जुलाई 2010

सूबेदार मास्टर टेक एसए के रैंक में

विनोद बिहारी (जेसी-760368वाई), 01 जुलाई 2010

सूबेदार अपरेटर और ड्राईवर (रीकवरी) के रैंक में

कल्याण चंद (जेसी-755916एफ), 01 जुलाई 2010

विजय कुमार सिंह (जेसी-755914डब्ल्यू), 01 जुलाई 2010

हवलदार से नायब सूबेदार एसकेटी

संजीव कुमार दुबे (सं. 14613890एक्स अब जेसी-765010के),
01 जुलाई 2010

सुधीर कुमार सामल (सं. 14613891ए अब जेसी-765011एम),
21 जुलाई 2010/01 जुलाई 2010*

भरत चन्द्र खतुआ (सं. 14613562के अब जेसी-765168एम),
01 अगस्त 2010

एस के ईसरूल हक (सं. 14613668डब्ल्यू अब जेसी-765169पी),
02 अगस्त 2010/01 अगस्त 2010*

सत्य प्रकाश सिंह (सं. 14610587एल अब जेसी-765172पी),
01 अगस्त 2010

एम डी अलीमुद्दीन (सं. 14610007एल अब जेसी-765173एक्स),
01 अगस्त 2010

हवलदार से नायब सूबेदार मास्टर टेक बी व्हीकल के रैंक में
आलोक कुमार (सं. 14610206वाई अब जेसी-765035डब्ल्यू),
01 जुलाई 2010

टी मरीयप्पन (सं. 14611572पी अब जेसी-765081एल), 01 जुलाई
2010

राजेन्द्र कुमार (सं. 14618792एफ अब जेसी-765093ए), 04 जुलाई
2010/01 जुलाई 2010*

दीपक कुमार (सं. 14621392ए अब जेसी-765176एल), 29 जुलाई
2010/23 मई 2010*

अशोक कुमार (सं. 14618780एम अब जेसी-765181डब्ल्यू),
04 अगस्त 2010/01 अगस्त 2010*

मुक्तिकान्त मिश्र (सं. 14619255एच अब जेसी-765182वाई),
01 अगस्त 2010

मनोहर लाल (सं. 14619322एन अब जेसी-765183एफ),
03 अगस्त 2010/01 अगस्त 2010*

हवलदार से नायब सूबेदार मास्टर टेक कम्यूनिकेशन के रैंक में
गीते रोजश दत्तात्रेय (सं. 14618993ए अब जेसी-765041के),
22 जुलाई 2010/01 जुलाई 2010*

सिकन्दर सिंह (सं. 14620376डब्ल्यू अब जेसी-765043पी),
01 जुलाई 2010

जयासुधन सी (सं. 14622565वाई अब जेसी-765121एफ),
02 जुलाई 2010/01 जुलाई 2010*

दामोदर सिंह पनवर (सं. 14622915ए अब जेसी-765128एल),
05 जुलाई 2010/01 जुलाई 2010*

हवलदार से नायब सूबेदार मास्टर टेक एवीएन (एएफ) के रैंक में

सुधीर सिंह सुमन (सं. 14627739एक्स अब जेसी-765048एन),
14 जुलाई 2010/01 जुलाई 2010*

कृष्ण मूर्थी (सं. 14629144वाई अब जेसी-765149एफ), 01 जुलाई
2010

हवलदार से नायब सूबेदार एवीएन टेक (एवीएन)

नागेन्द्र सिंह यादव (सं. 14618526एच अब जेसी-765052डब्ल्यू),
03 जुलाई 2010/01 जुलाई 2010*

हवलदार से नायब सूबेदार ड्राईवर (एमटी) के रैंक में

जयन के (सं. 14584744एम अब जेसी-765057पी), 01 जुलाई
2010

जनमेद सिंह (सं. 14584756एफ अब जेसी-765058एक्स),
01 जुलाई 2010

हवलदार से नायब सूबेदार अटो टेक बी व्हीकल के रैंक में

देवेन्द्र सिंह (सं. 14569955एक्स अब जेसी-765075एक्स),
01 जुलाई 2010

हवलदार से नायब सूबेदार मास्टर टेक नेट वर्किंग के रैंक में

यशवंत सिंह (सं. 14616157एक्स अब जेसी-765104एफ),
01 जुलाई 2010

रंजन कुमार सिंह (सं. 14616845डब्ल्यू अब जेसी-765105के),
21 जुलाई 2010/01 जुलाई 2010*

हवलदार से नायब सूबेदार मास्टर टेक ईलेक्ट के रैंक में

अर्जुन सिंह (सं. 14620279वाई अब जेसी-765140एम), 24 जुलाई
2010/25 अप्रैल 2010*

श्रीनिवास एस (सं. 14620337एक्स अब जेसी-765142एक्स),
17 जुलाई 2010/23मई 2010*

हवलदार से नायब सूबेदार मास्टर टेक अप्टो ईलेक्ट के रैंक में

उमाकान्त गोगोइ (सं. 14603957एक्स अब जेसी-765148वाई),
16 जुलाई 2010/01 जुलाई 2010*

हवलदार से नायब सूबेदार मास्टर टेक एवीएन (ईलेक्ट)

भागीरथ सिंह (सं. 14608307एन अब जेसी-765150डब्ल्यू),
02 अगस्त 2010/01 अगस्त 2010*

हवलदार से नायब सूबेदार एवीएन टेक (ईई)

लछी राम (सं. 14625849एन अब जेसी-765151वाई), 19 जुलाई
2010/01 जुलाई 2010*

हवलदार से नायब सूबेदार टेक एस ए के रैंक में
करतार सिंह (सं. 14581999एफ अब जेसी-765162एल),
01 अगस्त 2010

प्रताप चन्द्र मोहंती (सं. 14585489एक्स अब जेसी-765163एन),
01 अगस्त 2010

पूरण चन्द्र सिंह हीत (सं. 14594856ए अब जेसी-765164डब्ल्यू),
01 अगस्त 2010

हवलदार से नायब सूबेदार क्लर्क (एसडी) के रैंक में
बलवंत सिंह (सं. 14587250एन अब जेसी-765175एच),
02 अगस्त 2010/01 अगस्त 2010*

सनेन ब्रह्मा (सं. 14589807एन अब जेसी-765248के), 02 अगस्त
2010/01 अगस्त 2010*

हवलदार से नायब सूबेदार मास्टर टेक गन के रैंक में
लाडे बदरी नारायण (सं. 14622131वाई अब जेसी 765187एक्स),
01 अगस्त 2010

*पिछली तारीख से वरीयता दी जाती है।

एन के कश्मीरा
अवर सचिव

थल सेना विभाग

सं. 713, दिनांक 26 नवम्बर 2010--राष्ट्रपति, निम्नलिखित पदोन्नतियां
करते हैं :--

नियमित सेना

इन्फैन्ट्री

मैकानाइज्ड इन्फैन्ट्री रेजिमेन्ट

सूबेदार मेजर के रैंक में

सूबेदार साजी टी जी (जेसी-419569के), 01 मार्च 2010

सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार सुमेर सिंह (जेसी-420526एफ), 01 अप्रैल 2010

नायब सूबेदार बाबु राम (जेसी-421131एम), 15 अगस्त 2010*

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 अप्रैल 2010 से दी जाती है)

नायब सूबेदार एस आर कुमार (जेसी-421158के), 09 अगस्त
2010*

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 अप्रैल 2010 से दी जाती है)

नायब सूबेदार करतार सिंह (जेसी-420623वाई), 03 अगस्त 2010*

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 जून 2010 से दी जाती है)

नायब सूबेदार दिलीप सिंह (जेसी-420628एक्स), 05 जुलाई 2010*

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 जून 2010 से दी जाती है)

नायब सूबेदार मोहन दास पलातुमन्नील (जेसी-420653डब्ल्यू),
26 जुलाई 2010*

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 जून 2010 से दी जाती है)

नायब सूबेदार मदन सिंह (जेसी-420672एफ), 02 जून 2010*

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 जून 2010 से दी जाती है)

नायब सूबेदार मुन्ना सिंह (जेसी-420783वाई), 01 जून 2010

नायब सूबेदार शिव चंद महतो (जेसी-420834एफ), 04 जुलाई
2010*

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 जून 2010 से दी जाती है)

नायब सूबेदार हरीओम सिंह (जेसी-420470ए), 19 जुलाई 2010*

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 जुलाई 2010 से दी जाती है)

नायब सूबेदार चंद्र भान मिश्रा (जेसी-420538डब्ल्यू), 07 अगस्त
2010*

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 जुलाई 2010 से दी जाती है)

नायब सूबेदार राज कुमार सिंह (जेसी-420639के), 21 जुलाई
2010*

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 जुलाई 2010 से दी जाती है)

नायब सूबेदार अमर सिंह (जेसी-420694ए), 27 जुलाई 2010*

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 जुलाई 2010 से दी जाती है)

नायब सूबेदार अशोक कुमार (जेसी-421164एक्स), 07 अगस्त
2010*

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
11 जुलाई 2010 से दी जाती है)

नायब सूबेदार मन्मथ प्रसाद राव (जेसी-420436ए), 04 अगस्त
2010*

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 अगस्त 2010 से दी जाती है)

नायब सूबेदार बुध्दी बहदुर गुरुंग (जेसी-420568एन), 10 अगस्त 2010*

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2010 से दी जाती है)

नायब सूबेदार गनपत सिंह (जेसी-420585एन), 07 अगस्त 2010*

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2010 से दी जाती है)

नायब सूबेदार मदन सिंह (जेसी-420635एन), 23 अगस्त 2010*

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2010 से दी जाती है)

नायब सूबेदार खिव सिंह (जेसी-420698डब्ल्यू), 07 अगस्त 2010*

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2010 से दी जाती है)

नायब सूबेदार लक्ष्मन सिंह (जेसी-420699वाई), 07 अगस्त 2010*

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2010 से दी जाती है)

नायब सूबेदार मोहीते जगन्नाथ राजाराम (जेसी-420824एक्स), 16 अगस्त 2010*

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2010 से दी जाती है)

मैकानाइज्ड इन्फैन्ट्री रेजिमेन्ट

सूबेदार मेजर (लिपिक) के रैंक में

सूबेदार (लिपिक) प्रताप सिंह पराशर (जेसी-419028एच), 01 जुलाई 2010

सूबेदार (लिपिक) के रैंक में

नायब सूबेदार (लिपिक) संतोष कुमार बेहरा (जेसी-420593एम), 01 जुलाई 2010

नायब सूबेदार (लिपिक) राज कुमार (जेसी-420615ए), 12 जुलाई 2010

*[सूबेदार (लिपिक) के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2010 से दी जाती है]

सूबेदार मेजर (धर्मशिक्षक) के रैंक में

सूबेदार (धर्मशिक्षक) अशोक कुमार (जेसी-143082डब्ल्यू), 01 जुलाई 2010

सूबेदार (धर्मशिक्षक) मुरली मनोहर लखेरा (जेसी-143080एल), 02 अगस्त 2010*

*(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2010 से दी जाती है)

सूबेदार (धर्मशिक्षक) दयाधर भरतोला (जेसी-143083वाई), 02 अगस्त 2010*

*(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2010 से दी जाती है)

सूबेदार (धर्मशिक्षक) गजानंद शर्मा (जेसी-143086एम), 01 अगस्त 2010

सूबेदार (धर्मशिक्षक) कमलापती (जेसी-143084एफ), 02 अगस्त 2010*

*(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2010 से दी जाती है)

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार सुनील कुमार (सं. 14918296वाई अब जेसी-421601एम), 19 जुलाई 2010*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2010 से दी जाती है)

हवलदार अश्वनी कुमार (सं. 14917560पी अब जेसी-421602पी), 14 मई 2010*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2010 से दी जाती है)

हवलदार राजी कुमारन सी (सं. 14916311के अब जेसी-421603एक्स), 03 जुलाई 2010*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2010 से दी जाती है)

हवलदार विजय कुमार चौधरी (सं. 14914292एल अब जेसी-421604ए), 21 जून 2010*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2010 से दी जाती है)

हवलदार विद्या सागर यादव (सं. 14915080एम अब जेसी-421605एच), 30 जून 2010*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 08 मई 2010 से दी जाती है)

हवलदार क्रिशन सिंह (सं. 14915134एच अब जेसी-421606एल), 15 जून 2010*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 08 मई 2010 से दी जाती है)

हवलदार चौगुले तारकेश्वर बिरुदेव (सं. 14917427एम अब जेसी-421607एन), 20 मई 2010*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 15 मई 2010 से दी जाती है)

हवलदार राजेश कुमार (सं. 14917129डब्ल्यू अब जेसी-421608डब्ल्यू), 24 जून 2010*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 20 मई 2010 से दी जाती है)

हवलदार अलसुरी टाटा बाबु (सं. 14915202एल अब जेसी-421609वाई), 08 जून 2010*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 22 मई 2010 से दी जाती है)

हवलदार सुबास चंद्र पाल (सं. 14915558वाई अब जेसी-421610एन), 10 जुलाई 2010*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 22 मई 2010 से दी जाती है)

हवलदार गुरु प्रसाद मेढी (सं. 14914155एम अब जेसी-421611डब्ल्यू), 08 जून 2010*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2010 से दी जाती है)

हवलदार सत्य पाल सिंह (सं. 14914582एच अब जेसी-421612वाई), 24 जून 2010*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2010 से दी जाती है)

हवलदार ओंकार सिंह (सं. 14915707एफ अब जेसी-421613एफ), 01 जून 2010

हवलदार रामाक्रिष्णा रेड्डी (सं. 14915201एच अब जेसी-421614के), 24 जून 2010*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2010 से दी जाती है)

हवलदार ईष्ट देव सिंह (सं. 14918051एच अब जेसी-421615एम), 01 जून 2010

हवलदार बलबीर सिंह (सं. 14918080एक्स अब जेसी-421616पी), 02 जून 2010*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2010 से दी जाती है)

हवलदार प्रवीन कुमार मनकोटीया (सं. 14917730एन अब जेसी-421617एक्स), 07 जून 2010*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2010 से दी जाती है)

हवलदार योगेंद्र सिंह (सं. 14918026के अब जेसी-421618ए), 01 जून 2010

हवलदार राम रतन (सं. 14916637ए अब जेसी-421619एच), 28 जून 2010*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2010 से दी जाती है)

हवलदार शिव नायक सिंह (सं. 14916338एफ अब जेसी-421620एक्स), 24 जुलाई 2010*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 06 जून 2010 से दी जाती है)

हवलदार गोकुल चंद गुर्जर (सं. 2986096एक्स अब जेसी-421621ए), 08 जुलाई 2010*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2010 से दी जाती है)

हवलदार बीनो पी चेरीयन (सं. 14915620ए अब जेसी-421622एच), 01 जुलाई 2010

हवलदार ध्रुव सिंह (सं. 14915691एफ अब जेसी-421623एफ), 01 जुलाई 2010

हवलदार पांडरांगी नारायणप्पाडु (सं. 14915569एल अब जेसी-421624एन), 01 जुलाई 2010

हवलदार पी राजा पांडीयन (सं. 14916429एल अब जेसी-421625डब्ल्यू), 01 जुलाई 2010

हवलदार दर्शन लाल (सं. 14915475एन अब जेसी-421626वाई), 01 जुलाई 2010

हवलदार सुनील हरीहर (सं. 14918188पी अब जेसी-421627एफ), 01 जुलाई 2010

हवलदार सुभाष चंद (सं. 14919222डब्ल्यू अब जेसी-421628के), 01 जुलाई 2010

हवलदार सनसारी साहु (सं. 14919116एक्स अब जेसी-421629एम), 01 जुलाई 2010

हवलदार राज पाल (सं. 14914420एक्स अब जेसी-421199एन), 01 जनवरी 2008

हवलदार अरून कुमार गुप्ता (सं. 14915631एम अब जेसी-421630एफ), 01 जून 2010

हवलदार अशोक कुमार सिंह (सं. 14915003एक्स अब जेसी-421631के), 12 अगस्त 2010*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2010 से दी जाती है)

हवलदार रामकरन सिंह बघेल (सं. 14918593एम अब जेसी-421632एम), 30 जुलाई 2010*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 04 जुलाई 2010 से दी जाती है)

हवलदार सतेंद्र कुमार (सं. 14918554एन अब जेसी-421633पी), 02 अगस्त 2010*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 11 जुलाई 2010 से दी जाती है)

हवलदार कमलेश कुमार (सं. 14915347डब्ल्यू अब जेसी-421634एक्स), 25 अगस्त 2010*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 13 जुलाई 2010 से दी जाती है)

हवलदार प्यारे लाल जंगीर (सं. 14915978वाई अब जेसी-421635ए),
01 अगस्त 2010

हवलदार महेश कुमार (सं. 14916214एम अब जेसी-421636एच),
13 अगस्त 2010*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 अगस्त 2010 से दी जाती है)

हवलदार रामायन प्रसाद तिवारी (सं. 14914466ए अब जेसी-
421637एल), 02 अगस्त 2010*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 अगस्त 2010 से दी जाती है)

हवलदार बुध्दा देव ससमल (सं. 14918093पी अब जेसी-421638एन),
01 अगस्त 2010

हवलदार सुनील कुमार (सं. 14915730पी अब जेसी-421639डब्ल्यू),
06 अगस्त 2010*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 अगस्त 2010 से दी जाती है)

हवलदार अनु के (सं. 14918018एल अब जेसी-421640एल),
05 अगस्त 2010*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 अगस्त 2010 से दी जाती है)

हवलदार विक्रम सिंह (सं. 14918066एल अब जेसी-421641एन),
05 अगस्त 2010*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 अगस्त 2010 से दी जाती है)

हवलदार नंदा बल्लभ भट (सं. 14918068डब्ल्यू अब जेसी-
421642डब्ल्यू), 05 अगस्त 2010*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 अगस्त 2010 से दी जाती है)

हवलदार एस राधा क्रिशनन (सं. 14914129एल अब जेसी-421643वाई),
16 अगस्त 2010*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 12 अगस्त 2010 से दी जाती है)

जे राय चौधरी
अवर सचिव

सं. 714, दिनांक 26 नवम्बर 2010--राष्ट्रपति, सहर्ष निम्नलिखित
नियुक्तियां/पदोन्नतियां करते हैं :--

नियमित सेना
सेना आयुद्ध कोर
पक्के सूबेदार मेजर के रैंक में

सूबेदार मेजर अम्युनिशन तकनीशियन हरीश चंद्र भंडारी (जेसी-723681एम),
01 सितम्बर 2009

सूबेदार मेजर अम्युनिशन तकनीशियन भरत पाल (जेसी-723682पी),
16 सितम्बर 2009*

*(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2009 से दी जाएगी)

सूबेदार मेजर अम्युनिशन तकनीशियन अनिल कुमार पी (जेसी-
723277एक्स), 01 जनवरी 2010

सूबेदार मेजर अम्युनिशन तकनीशियन अशोक महादेव केदार
(जेसी-723576डब्ल्यू), 01 अप्रैल 2010

सूबेदार मेजर लिपिक (एसडी) चरन सिंह वर्मा (जेसी-723909एक्स),
01 मई 2009

सूबेदार मेजर लिपिक (एसडी) बूडा गीता राव (जेसी-724037एम),
14 मई 2009*

*(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 मई 2009 से दी जाएगी)

सूबेदार मेजर लिपिक (एसडी) अनिल कुमार पनवर (जेसी-723942पी),
10 फरवरी 2009*

*(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2008 से दी जाएगी)

सूबेदार मेजर लिपिक (एसडी) हीरा राम प्रधान (जेसी-723970एफ),
01 जून 2009

सूबेदार मेजर लिपिक (एसडी) बिजय कुमार प्रधान (जेसी-724026ए),
01 जून 2009

सूबेदार मेजर लिपिक (एसडी) विभिसन यादव (जेसी-724081डब्ल्यू),
01 अगस्त 2009

सूबेदार मेजर लिपिक (एसडी) भानु प्रताप सिंह वर्मा (जेसी-724112एल),
01 अगस्त 2009

सूबेदार मेजर लिपिक (एसडी) रतन सिंह (जेसी-724116एफ),
03 अगस्त 2009*

*(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 जुलाई 2009 से दी जाएगी)

सूबेदार मेजर लिपिक (एसडी) के डेविड (जेसी-724142एच), 01 अगस्त
2009

सूबेदार मेजर लिपिक (एसडी) सथिन ओचोली (जेसी-724019के),
01 जुलाई 2009

सूबेदार मेजर लिपिक (एसडी) मदन मोहन साहू (जेसी-723996डब्ल्यू),
05 अगस्त 2009 *

*(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 जून 2009 से दी जाएगी)

सूबेदार मेजर लिपिक (एसडी) बिम्बधर पण्डा (जेसी-724082वाई),
01 अक्टूबर 2009

सूबेदार मेजर लिपिक (एसडी) वेण्कटेशन के (जेसी-724113एन),
01 अक्टूबर 2009

सूबेदार मेजर लिपिक (एसडी) बिजय कुमार दाश (जेसी-724386डब्ल्यू),
05 नवम्बर 2009 *

*(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2009 से दी जाएगी)

सूबेदार मेजर लिपिक (एसडी) मोहम्मद आलम आनसारी
(जेसी-724582डब्ल्यू), 03 जनवरी 2010 *

*(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 जनवरी 2010 से दी जाएगी)

सूबेदार मेजर लिपिक (एसडी) जोहन पाउल एफ (जेसी-724613एल),
01 अप्रैल 2010

सूबेदार मेजर लिपिक (आईएम) ज़ोजार सिंह (जेसी-723907एम),
01 दिसम्बर 2008

सूबेदार मेजर लिपिक (आईएम) प्रताप सिंह बिष्ट (जेसी-724111एच),
01 अगस्त 2009

सूबेदार मेजर लिपिक (आईएम) अरुमुघम आर (जेसी-724084के),
21 जुलाई 2009 *

*(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 जुलाई 2009 से दी जाएगी)

सूबेदार मेजर (एसकेटी) अम्युनिशन ताजवर सिंह (जेसी-723825के),
01 मई 2009

सूबेदार मेजर (एसकेटी) अम्युनिशन सुदर्शन जेना (जेसी-723926एक्स),
01 अक्टूबर 2009

सूबेदार मेजर (एसकेटी) अम्युनिशन मर्त्युज्य हाबेरिमठ (जेसी-723915एल),
01 सितम्बर 2009

सूबेदार मेजर (एसकेटी) अम्युनिशन राम किशोर शुक्ला (जेसी-724068एम),
01 फरवरी 2010

सूबेदार मेजर (एसकेटी/एमटी) अशोक कुमार दास (जेसी-723925पी),
01 अक्टूबर 2009

सूबेदार मेजर (एसकेटी/एमटी) किशन सिंह (जेसी-723917डब्ल्यू),
12 सितम्बर 2009 *

*(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2009 से दी जाएगी)

सूबेदार मेजर (एसकेटी/एमटी) भोसले श्रीराम महादेव (जेसी-723975ए),
01 दिसम्बर 2009

सूबेदार मेजर (एसकेटी/एमटी) देवेंद्र सिंह सेंगर (जेसी-723885वाई),
07 जनवरी 2010 *

*(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 जनवरी 2010 से दी जाएगी)

सूबेदार मेजर (एसकेटी/एमटी) जीवन किशोर (जेसी-724088ए),
01 जनवरी 2010

सूबेदार मेजर (एसकेटी/सिग्नल) आर वी बालासुब्रामनियम
(जेसी-723873के), 01 जून 2009

सूबेदार मेजर ड्राईवर एमटी राजबीर सिंह (जेसी-726579पी), 13 मार्च
2009

सूबेदार मेजर ड्राईवर स्पेशल हरबंश सिंह (जेसी-726535एक्स),
01 मई 2009

सूबेदार मेजर एसएच (जीडी) भवानी सिंह (जेसी-726582पी), 01 अक्टूबर
2009

सूबेदार मेजर एसएच (जीडी) बनवारी लाल (जेसी-726721एन),
01 दिसम्बर 2009

सूबेदार मेजर एसएच (जीडी) बनारसी दास (जेसी-726517पी),
01 अप्रैल 2009

सूबेदार मेजर एसएच (जीडी) राजवीर सिंह (जेसी-726467पी), 23 मार्च
2009

*(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 13 मार्च 2009 से दी जाएगी)

सूबेदार मेजर एसएच (जीडी) राम निवास (जेसी-726553ए), 11 मई
2009

*(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 मई 2009 से दी जाएगी)

सूबेदार मेजर आर्टिसन (डब्ल्यू डब्ल्यू) सतवीर सिंह (जेसी-724482एल),
01 अक्टूबर 2009

सूबेदार मेजर आर्टिसन (डब्ल्यू डब्ल्यू) मुना लाल साह (जेसी-725403एक्स),
01 मई 2009

सूबेदार मेजर आर्टिसन (डब्ल्यू डब्ल्यू) बारे लाल सिंह (जेसी-724420एल),
01 मई 2009

पक्के सूबेदार के रैंक में

सूबेदार अम्युनिशन तकनीशियन दीपक कुमार राउत (जेसी-725740एम),
03 जनवरी 2009 *

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 जनवरी 2009 से दी जाएगी)

सूबेदार अम्युनिशन तकनीशियन भोमा राम पटेल (जेसी-725841ए),
01 अप्रैल 2009

सूबेदार अम्युनिशन तकनीशियन मंजनाह शंकारीलिंग (जेसी-725840एक्स),
01 अप्रैल 2009

सूबेदार अम्युनिशन तकनीशियन आर शिवा प्रकाश (जेसी-725839एच),
01 अप्रैल 2009

सूबेदार अम्युनिशन तकनीशियन राज किशोर पात्रा (जेसी-725956एन),
10 अप्रैल 2009 *

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 अप्रैल 2009 से दी जाएगी)

सूबेदार अम्युनिशन तकनीशियन प्रफुला कुमार महापात्रा (जेसी-
726056डब्ल्यू), 01 जून 2009

सूबेदार अम्युनिशन तकनीशियन शिबा प्रसाद दास (जेसी-725991डब्ल्यू),
01 जून 2009

सूबेदार अम्युनिशन तकनीशियन सूरज भान यादव (जेसी-726244एक्स),
01 नवम्बर 2009

सूबेदार अम्युनिशन तकनीशियन मोहम्मद सम्पुज्जामान (जेसी-726239के),
01 अक्टूबर 2009

सूबेदार अम्युनिशन तकनीशियन जसबीर सिंह (जेसी-726114पी),
01 सितम्बर 2009

सूबेदार अम्युनिशन तकनीशियन खिरोदो चंद्रा जैना (जेसी-725742एक्स),
01 सितम्बर 2009

सूबेदार अम्युनिशन तकनीशियन मुंशी राम (जेसी-726113एम), 01 सितम्बर
2009

सूबेदार अम्युनिशन तकनीशियन प्रबुधा कुमार नायक (जेसी-726060वाई),
01 सितम्बर 2009

सूबेदार अम्युनिशन तकनीशियन प्रमोद कुमार (जेसी-726061एफ),
01 सितम्बर 2009

सूबेदार अम्युनिशन तकनीशियन प्रताप सिंह (जेसी-726100पी),
01 सितम्बर 2009

सूबेदार अम्युनिशन तकनीशियन राज कुमार पाठक (जेसी-725955एल),
01 सितम्बर 2009

सूबेदार अम्युनिशन तकनीशियन रजनी कांत बोरा (जेसी-726064पी),
01 सितम्बर 2009

सूबेदार अम्युनिशन तकनीशियन राम अछीबेर पाण्डेय (जेसी-725959एफ),
01 सितम्बर 2009

सूबेदार अम्युनिशन तकनीशियन एस सुंदरा राजन (जेसी-726055एन),
01 सितम्बर 2009

सूबेदार अम्युनिशन तकनीशियन रहीम अहमद (जेसी-726063एम),
05 सितम्बर 2009 *

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 सितम्बर 2009 से दी जाएगी)

सूबेदार अम्युनिशन तकनीशियन अरून कुमार ठाकुर (जेसी-725958वाई),
06 सितम्बर 2009 *

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 सितम्बर 2009 से दी जाएगी)

सूबेदार अम्युनिशन तकनीशियन रजन कुमार पोल (जेसी-726282ए),
14 जनवरी 2010 *

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 जनवरी 2009 से दी जाएगी)

सूबेदार अम्युनिशन तकनीशियन भूप सिंह (जेसी-726062के), 17 सितम्बर
2009 *

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 सितम्बर 2009 से दी जाएगी)

सूबेदार अम्युनिशन तकनीशियन कनवर सिंह (जेसी-725711एक्स),
01 अप्रैल 2009 *

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 जनवरी 2009 से दी जाएगी)

सूबेदार अम्युनिशन तकनीशियन फूल कुमार (जेसी-725957डब्ल्यू),
23 जून 2009 *

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 जून 2009 से दी जाएगी)

सूबेदार अम्युनिशन तकनीशियन नंद राम (जेसी-726274पी), 01 जनवरी
2010

सूबेदार लिपिक (आईएम) लाल सिंह (जेसी-726566एक्स), 01 जनवरी
2009

सूबेदार लिपिक (आईएम) संतोश कुमार जेना (जेसी-726278एल),
28 जनवरी 2009 *

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 सितम्बर 2008 से दी जाएगी)

सूबेदार लिपिक (आईएम) मनोहर पाठक (जेसी-726567ए), 05 फरवरी
2009 *

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 फरवरी 2009 से दी जाएगी)

सूबेदार लिपिक (आईएम) माल सिंह शेखावत (जेसी-726627के),
01 मार्च 2009

सूबेदार लिपिक (आईएम) दिनेश कुमार (जेसी-726648ए), 01 अप्रैल
2009

सूबेदार लिपिक (आईएम) नामदेव हरि वाडले (जेसी-726638डब्ल्यू),
01 अप्रैल 2009

सूबेदार लिपिक (आईएम) नजर मोहम्मद (जेसी-726640एन), 01 अप्रैल
2009

सूबेदार लिपिक (आईएम) चन्दगी राम (जेसी-727235एच), 01 अप्रैल
2010

सूबेदार लिपिक (आईएम) छतर पाल सिंह (जेसी-727177के), 01 अप्रैल
2010

सूबेदार लिपिक (आईएम) दिनेश चंदर (जेसी-727170ए), 01 अप्रैल
2010

सूबेदार लिपिक (आईएम) नरेंद्र सिंह (जेसी-727162एफ), 01 अप्रैल
2010

सूबेदार लिपिक (आईएम) रविंद्र नाथ गनेश (जेसी-727226एफ),
01 अप्रैल 2010

सूबेदार लिपिक (आईएम) रतिंदर नाथ महांता (जेसी-727227के),
01 अप्रैल 2010

सूबेदार लिपिक (आईएम) रेशन लाल (जेसी-727159एफ), 01 अप्रैल
2010

सूबेदार लिपिक (आईएम) सरत चंदर महालिक (जेसी-727173एन),
01 अप्रैल 2010

सूबेदार लिपिक (आईएम) संखेस्वर रोय (जेसी-727245एम), 01 अप्रैल
2010

सूबेदार लिपिक (आईएम) खिरामप्पा हिरेकुदि (जेसी-727678एक्स),
26 अप्रैल 2009 *

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 अप्रैल 2009 से दी जाएगी)

सूबेदार लिपिक (आईएम) भिर्गु नाथ यादव (जेसी-726660एफ),
01 मई 2009

सूबेदार लिपिक (आईएम) चंदर शेखर सिंह (जेसी-726675के),
01 मई 2009

सूबेदार लिपिक (आईएम) देव प्रसाद डे (जेसी-726674एफ),
01 मई 2009

सूबेदार लिपिक (आईएम) देव राज (जेसी-726682ए), 01 मई
2009

सूबेदार लिपिक (आईएम) काली चरन (जेसी-726673वाई), 03 मई
2009 *

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 मई 2009 से दी जाएगी)

सूबेदार लिपिक (आईएम) गंगा सरन सिंह (जेसी-726683एच), 06 मई
2009 *

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 मई 2009 से दी जाएगी)

सूबेदार लिपिक (आईएम) राज बहादुर यादव (जेसी-726681एक्स),
16 मई 2009 *

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 अप्रैल 2009 से दी जाएगी)

सूबेदार लिपिक (आईएम) अशोक कुमार (जेसी-726706वाई), 01 जून
2009

सूबेदार लिपिक (आईएम) अवधेश कुमार गिरि (जेसी-726763ए),
01 जून 2009

सूबेदार लिपिक (आईएम) बालाक्रिशनन पिल्लै सी (जेसी-726711के),
01 जून 2009

सूबेदार लिपिक (आईएम) देवेंदर कुमार सिंह (जेसी-726782एल),
01 जून 2009

सूबेदार लिपिक (आईएम) करमबीर (जेसी-726709एम), 01 जून
2009

सूबेदार लिपिक (आईएम) मोहिंदर सिंह (जेसी-726713पी), 01 जून
2009

सूबेदार लिपिक (आईएम) नज़ीर एम (जेसी-726732ए), 01 जून
2009

सूबेदार लिपिक (आईएम) प्रेसन्ना कुमार आर (जेसी-726704एन),
01 जून 2009

सूबेदार लिपिक (आईएम) राम विलास यादव (जेसी-726752एन),
01 जून 2009

सूबेदार लिपिक (आईएम) रूप सिंह (जेसी-726714एक्स), 01 जून
2009

सूबेदार लिपिक (आईएम) सोमन नायर जी (जेसी-726716एच),
01 जून 2009

सूबेदार लिपिक (आईएम) सुर्या बहादुर शुक्ला (जेसी-726708के),
01 जून 2009

सूबेदार लिपिक (आईएम) श्याम बरन रज़ाक (जेसी-726712एम),
10 जून 2009 *

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 जून 2009 से दी जाएगी)

सूबेदार लिपिक (आईएम) अनिल कुमार पाण्डे (जेसी-726821वाई),
01 जुलाई 2009

सूबेदार लिपिक (आईएम) बलवान सिंह (जेसी-726791एम),
01 जुलाई 2009

सूबेदार लिपिक (आईएम) दुलार राम (जेसी-726398के), 01 जुलाई 2009

सूबेदार लिपिक (आईएम) किशोरि लाल (जेसी-726659एम), 01 जुलाई 2009

सूबेदार लिपिक (आईएम) कुलवंत सिंह (जेसी-726596पी), 01 जुलाई 2009

सूबेदार लिपिक (आईएम) मनार (जेसी-726800एच), 01 जुलाई 2009

सूबेदार लिपिक (आईएम) ओम प्रकाश वर्मा (जेसी-726839पी), 01 जुलाई 2009

सूबेदार लिपिक (आईएम) ओमकार सिंह (जेसी-726801वाई), 01 जुलाई 2009

सूबेदार लिपिक (आईएम) प्रदीप कुमार सिंह (जेसी-726705डब्ल्यू), 01 जुलाई 2009

सूबेदार लिपिक (आईएम) राजबीर सिंह (जेसी-726802एन), 01 जुलाई 2009

सूबेदार लिपिक (आईएम) उमेद सिंह (जेसी-726783एन), 01 जुलाई 2009

सूबेदार लिपिक (आईएम) विजय प्रताप सिंह (जेसी-726749एन), 02 जुलाई 2009 *

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2009 से दी जाएगी)

सूबेदार लिपिक (आईएम) करनेल सिंह (जेसी-726745एक्स), 20 जुलाई 2009 *

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2009 से दी जाएगी)

सूबेदार लिपिक (आईएम) बदन पाल सिंह (जेसी-726914एन), 01 अगस्त 2009

सूबेदार लिपिक (आईएम) बिशुन कुमार सिंह (जेसी-726824एम), 01 अगस्त 2009

सूबेदार लिपिक (आईएम) चमन लाल (जेसी-726850एन), 01 अगस्त 2009

सूबेदार लिपिक (आईएम) धुर्ब कुमार राय (जेसी-726874एक्स), 01 अगस्त 2009

सूबेदार लिपिक (आईएम) गिरिश कुमार (जेसी-726848डब्ल्यू), 01 अगस्त 2009

सूबेदार लिपिक (आईएम) जितेंद्र कुमार सिंह (जेसी-726893एच), 01 अगस्त 2009

सूबेदार लिपिक (आईएम) महेंद्र सिंह (जेसी-726851डब्ल्यू), 01 अगस्त 2009

सूबेदार लिपिक (आईएम) नसीब सिंह (जेसी-726868के), 01 अगस्त 2009

सूबेदार लिपिक (आईएम) ओम प्रकाश मिश्रा (जेसी-726804वाई), 01 अगस्त 2009

सूबेदार लिपिक (आईएम) पतित कुमार दास (जेसी-726870एफ), 01 अगस्त 2009

सूबेदार लिपिक (आईएम) राम शंकर सिंह (जेसी-726823के), 01 अगस्त 2009

सूबेदार लिपिक (आईएम) समीर कुमार मंडल (जेसी-726912एच), 01 अगस्त 2009

सूबेदार लिपिक (आईएम) टर्सी यादव (जेसी-726891एक्स), 01 अगस्त 2009

सूबेदार लिपिक (आईएम) विनोद कुमार (जेसी-726825पी), 01 अगस्त 2009

सूबेदार लिपिक (आईएम) मूंसी राम यादव (जेसी-726898एफ), 01 सितम्बर 2009

सूबेदार लिपिक (आईएम) नरेंद्र कुमार सिंह (जेसी-726894एल), 01 सितम्बर 2009

सूबेदार लिपिक (आईएम) राजेंद्रन सी वी (जेसी-726917एफ), 01 सितम्बर 2009

सूबेदार लिपिक (आईएम) समशेर सिंह (जेसी-726897वाई), 01 सितम्बर 2009

सूबेदार लिपिक (आईएम) बीर सिंह (जेसी-726895एन), 01 सितम्बर 2009

सूबेदार लिपिक (आईएम) झम्मन सिंह यादव (जेसी-726896डब्ल्यू), 03 सितम्बर 2009 *

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2009 से दी जाएगी)

सूबेदार लिपिक (आईएम) क्रिशन मुरारी तिवारी (जेसी-726277एच), 28 सितम्बर 2009 *

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2009 से दी जाएगी)

सूबेदार लिपिक (आईएम) धरमबीर सिंह (जेसी-726954पी), 01 अक्टूबर 2009

सूबेदार लिपिक (आईएम) नागेंद्र प्रताप सिंह (जेसी-726899के), 01 अक्टूबर 2009

सूबेदार लिपिक (आईएम) प्रकाश चंद (जेसी-726920एफ), 01 अक्टूबर 2009

सूबेदार लिपिक (आईएम) समशेर सिंह (जेसी-726951एफ), 01 अक्टूबर 2009

सूबेदार लिपिक (आईएम) सतवीर सिंह (जेसी-726876एच),
01 अक्टूबर 2009

सूबेदार लिपिक (आईएम) विरेंद्र सिंह (जेसी-726923पी), 01 अक्टूबर
2009

सूबेदार अम्युनिशन तकनीशियन मदन किशोर सिंह (जेसी-
726924एक्स), 15 अक्टूबर 2009 *

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 अक्टूबर 2009 से दी जाएगी)

सूबेदार लिपिक (आईएम) अनिल कुमार जैसवाल (जेसी-726925ए),
20 अक्टूबर 2009 *

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 अक्टूबर 2009 से दी जाएगी)

सूबेदार लिपिक (आईएम) बिक्रम सिंह (जेसी-727054एक्स),
01 नवम्बर 2009

सूबेदार लिपिक (आईएम) हजारी प्रसाद यादव (जेसी-726928एन),
01 नवम्बर 2009

सूबेदार लिपिक (आईएम) मोहन लाल (जेसी-726956ए), 01 नवम्बर
2009

सूबेदार लिपिक (आईएम) रमेश कुमार (जेसी-726926एच),
01 नवम्बर 2009

सूबेदार लिपिक (आईएम) सुभाष चंद्रा पाल (जेसी-726984एम),
01 नवम्बर 2009

सूबेदार लिपिक (आईएम) जगन नाथ राम यादव (जेसी-727052एम),
01 नवम्बर 2009

सूबेदार लिपिक (आईएम) राजा मोनि टी (जेसी-726922एम),
11 नवम्बर 2009 *

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 अक्टूबर 2009 से दी जाएगी)

सूबेदार लिपिक (आईएम) पंचु गोपाल मंडल (जेसी-726985पी),
01 दिसम्बर 2009

सूबेदार लिपिक (आईएम) रघुमनी नायक (जेसी-726992एल),
01 दिसम्बर 2009

सूबेदार लिपिक (आईएम) राजबीर सिंह (जेसी-727055ए),
01 दिसम्बर 2009

सूबेदार लिपिक (आईएम) रामाशीश शर्मा (जेसी-727056एच),
01 दिसम्बर 2009

सूबेदार लिपिक (आईएम) समीम अहमद खान (जेसी-726986एक्स),
01 दिसम्बर 2009

सूबेदार लिपिक (आईएम) श्रिकान्त कुमार राउत (जेसी-726995वाई),
01 दिसम्बर 2009

सूबेदार लिपिक (आईएम) विजयी राम (जेसी-726996एफ),
01 दिसम्बर 2009

सूबेदार लिपिक (आईएम) विरेंद्र सिंह तलान (जेसी-727050एफ),
01 दिसम्बर 2009

सूबेदार लिपिक (आईएम) ब्रिजेश कुमार तिवारी (जेसी-726999पी),
01 दिसम्बर 2009

सूबेदार लिपिक (आईएम) आजाद सिंह (जेसी-726991एच),
13 दिसम्बर 2009 *

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 दिसम्बर 2009 से दी जाएगी)

सूबेदार लिपिक (आईएम) दया नंद (जेसी-726988एच), 24 दिसम्बर
2009 *

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 दिसम्बर 2009 से दी जाएगी)

सूबेदार लिपिक (आईएम) अतिश दिपानकर आश (जेसी-726952के),
01 जनवरी 2010

सूबेदार लिपिक (आईएम) देश राज (जेसी-727074एल), 01 जनवरी
2010

सूबेदार लिपिक (आईएम) गोविंद चंद (जेसी-727066एम),
01 जनवरी 2010

सूबेदार लिपिक (आईएम) ईश्वर सिंह (जेसी-727062डब्ल्यू),
01 जनवरी 2010

सूबेदार लिपिक (आईएम) जय प्रकाश यादव (जेसी-727067पी),
01 जनवरी 2010

सूबेदार लिपिक (आईएम) राधे श्याम सिंह (जेसी-727065के),
01 जनवरी 2010

सूबेदार लिपिक (आईएम) राम मिलन प्रसाद (जेसी-726498पी),
01 जनवरी 2010

सूबेदार लिपिक (आईएम) राम इक्वल ठाकुर (जेसी-727000डब्ल्यू),
01 जनवरी 2010

सूबेदार लिपिक (आईएम) राम रतन प्रसाद यादव (जेसी-727057एल),
01 जनवरी 2010

सूबेदार लिपिक (आईएम) रामजी राम बेरे (जेसी-727059डब्ल्यू),
01 जनवरी 2010

सूबेदार लिपिक (आईएम) रामविलाश पंडित (जेसी-727071एक्स),
01 जनवरी 2010

सूबेदार लिपिक (आईएम) सुरेश कुमार (जेसी-727063वाई),
01 जनवरी 2010

सूबेदार लिपिक (आईएम) सुरेंद्र सिंह (जेसी-727002एल), 01 जनवरी
2010

सूबेदार लिपिक (आईएम) तपस कुमार दत्त (जेसी-726927एल),
01 जनवरी 2010

सूबेदार लिपिक (आईएम) शिव पाल सिंह चौहान (जेसी-727051के),
06 जनवरी 2010 *

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 नवम्बर 2009 से दी जाएगी)

सूबेदार लिपिक (आईएम) वेदमंत्र सजवाल (जेसी-726987ए),
16 जनवरी 2010 *

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 जनवरी 2010 से दी जाएगी)

सूबेदार लिपिक (आईएम) मदन लाल (जेसी-727073एच),
19 जनवरी 2010 *

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 जनवरी 2010 से दी जाएगी)

सूबेदार लिपिक (आईएम) अक्षय कुमार मोहंती (जेसी-727096के),
01 फरवरी 2010

सूबेदार लिपिक (आईएम) जय प्रकाश पाण्डे (जेसी-727090एक्स),
01 फरवरी 2010

सूबेदार लिपिक (आईएम) महेंद्र कुमार महापात्रा (जेसी-727098पी),
01 फरवरी 2010

सूबेदार लिपिक (आईएम) मोहन मराडी (जेसी-727100एफ),
01 फरवरी 2010

सूबेदार लिपिक (आईएम) सर्वेश्वर राउत (जेसी-727097एम),
01 फरवरी 2010

सूबेदार लिपिक (एसडी) बनवारी लाल (जेसी-727117पी), 01 मार्च
2010

सूबेदार लिपिक (आईएम) बीरपाल सिंह (जेसी-727109के), 01 मार्च
2010

सूबेदार लिपिक (आईएम) देसाई अजिता राव दत्तात्रे (जेसी-727115के),
01 मार्च 2010

सूबेदार लिपिक (आईएम) जयपाल (जेसी-727105ए), 01 मार्च 2010

सूबेदार लिपिक (आईएम) नाना साहिब नदाफ (जेसी-727108एन),
01 मार्च 2010

सूबेदार लिपिक (आईएम) राधे श्याम (जेसी-727166एक्स), 01 मार्च
2010

सूबेदार लिपिक (आईएम) सतीश चंद्रा उपाध्याय (जेसी-727163के),
01 मार्च 2010

सूबेदार लिपिक (आईएम) शंकर पाटिल (जेसी-727107ए), 01 मार्च
2010

सूबेदार लिपिक (आईएम) तरुन कांति घोष (जेसी-727094वाई),
01 मार्च 2010

सूबेदार लिपिक (आईएम) विषराम सिंह (जेसी-727165पी), 01 मार्च
2010

सूबेदार लिपिक (आईएम) पुष्कर दत्त शर्मा (जेसी-726753डब्ल्यू),
15 मार्च 2010 *

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 जनवरी 2010 से दी जाएगी)

सूबेदार लिपिक (एसडी) संजीव कुमार मिश्रा (जेसी-726307के),
03 नवम्बर 2008 *

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 नवम्बर 2008 से दी जाएगी)

सूबेदार लिपिक (एसडी) मदन सिंह बिजार्निया (जेसी-726892ए),
01 अगस्त 2009

सूबेदार लिपिक (एसडी) मोहम्मद हसीन नवाज प्रधान (जेसी-726872एम),
01 अगस्त 2009

सूबेदार लिपिक (एसडी) रविंद्र कुमार ठाकुर (जेसी-726852वाई),
01 अगस्त 2009

सूबेदार लिपिक (एसडी) विष्वा कुमार के (जेसी-726853एफ),
01 अगस्त 2009

सूबेदार लिपिक (एसकेटी/एमटी) परमेश्वर माहांता (जेसी-726419पी),
01 नवम्बर 2009

सूबेदार लिपिक (एसडी) ए गोविंदा सामी (जेसी-726997के),
01 दिसम्बर 2009

सूबेदार लिपिक (एसडी) पुष्कर चंद्रा स्वैन (जेसी-726957एच),
01 दिसम्बर 2009

सूबेदार लिपिक (एसडी) अशोक कुमार जेना (जेसी-727001वाई),
01 जनवरी 2010

सूबेदार लिपिक (एसडी) करम सिंह कश्यप (जेसी-727058एन),
01 जनवरी 2010

सूबेदार लिपिक (एसडी) पीतम सिंह (जेसी-727004एम), 01 जनवरी
2010

सूबेदार लिपिक (एसडी) राजेन्द्र कुमार (जेसी-727069ए), 01 जनवरी
2010

सूबेदार लिपिक (एसडी) श्रीधरन कुरुप जी (जेसी-727005एम),
01 जनवरी 2010

सूबेदार लिपिक (एसडी) वी शिवा प्रकाशन (जेसी-727060एल),
01 जनवरी 2010

सूबेदार लिपिक (एसडी) बिजेन्द्र कुमार द्विवेदी (जेसी-727064एफ),
01 जनवरी 2010

सूबेदार लिपिक (एसडी) विश्वानाथ बी (जेसी-727061एन), 01 जनवरी 2010	सूबेदार लिपिक (एसडी) राम कुमार (जेसी-727164एम), 01 मार्च 2010
सूबेदार लिपिक (एसडी) ओम प्रकाश सेवदा (जेसी-727078एफ), 01 फरवरी 2010	सूबेदार लिपिक (एसडी) सन्तोश कुमार सिंह (जेसी-727104एक्स), 01 मार्च 2010
सूबेदार लिपिक (एसडी) प्रकाश चंद (जेसी-727075एन), 01 फरवरी 2010	सूबेदार लिपिक (एसडी) सरोज कुमार चोउधुरी (जेसी-727114एफ), 01 मार्च 2010
सूबेदार लिपिक (एसडी) राकेश कुमार सिंह (जेसी-727077वाई), 01 फरवरी 2010	सूबेदार लिपिक (एसडी) सत्य पाल सिंह (जेसी-727111एन), 01 मार्च 2010
सूबेदार लिपिक (एसडी) राम नारायण यादव (जेसी-727072ए), 01 फरवरी 2010	सूबेदार लिपिक (एसडी) सशिकान्त राई (जेसी-727110एल), 01 मार्च 2010
सूबेदार लिपिक (एसडी) रंधीर सिंह यादव (जेसी-727079के), 01 फरवरी 2010	सूबेदार लिपिक (एसडी) शिशू पाल सिंह (जेसी-727112डब्ल्यू), 02 मार्च 2010 *
सूबेदार लिपिक (एसडी) कपिल देव यादव (जेसी-727252एच), 01 अप्रैल 2010	*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2010 से दी जाएगी)
सूबेदार लिपिक (एसडी) नारायण राउल (जेसी-727174डब्ल्यू), 01 अप्रैल 2010	सूबेदार (एसकेटी) अम्युनिशन ईन्दर सिंह भाकुनी (जेसी-725613एक्स), 01 मई 2008
सूबेदार लिपिक (एसडी) ओम प्रकाश (जेसी-727119ए), 01 अप्रैल 2010	सूबेदार (एसकेटी) अम्युनिशन यादराम सिंह (जेसी-726132एक्स), 01 मार्च 2009
सूबेदार लिपिक (एसडी) शेखर चन्द्रा आर्य (जेसी-727175वाई), 01 अप्रैल 2010	सूबेदार (एसकेटी) अम्युनिशन देवेन्द्र सिंह (जेसी-726295एल), 01 अप्रैल 2009
सूबेदार लिपिक (एसडी) विनोद कुमार मिश्रा (जेसी-727180के), 01 अप्रैल 2010	सूबेदार (एसकेटी) अम्युनिशन रामावतार सिंह (जेसी-726095पी), 22 अप्रैल 2009 *
सूबेदार लिपिक (एसडी) अब्दुल हनन (जेसी-727087एच), 01 मार्च 2010	*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2009 से दी जाएगी)
सूबेदार लिपिक (एसडी) अमर सिंह (जेसी-727101के), 01 मार्च 2010	सूबेदार (एसकेटी) अम्युनिशन के कन्हैया (जेसी-726308एक्स), 01 अगस्त 2009
सूबेदार लिपिक (एसडी) बलवन्त सिंह (जेसी-727146के), 01 मार्च 2010	सूबेदार (एसकेटी) अम्युनिशन विनसेंट दोनबोस्को एम (जेसी-726358एच), 17 अगस्त 2009 *
सूबेदार लिपिक (एसडी) दिनेश चन्द्र सारस्वत (जेसी-727118एक्स), 01 मार्च 2010	*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2009 से दी जाएगी)
सूबेदार लिपिक (एसडी) नैनु सिंह (जेसी-727113वाई), 01 मार्च 2010	सूबेदार (एसकेटी) अम्युनिशन राजेन्द्र सिंह (जेसी-726380एन), 01 सितम्बर 2009
सूबेदार लिपिक (एसडी) नरबेश्वर पाण्डे (जेसी-727161वाई), 01 मार्च 2010	सूबेदार (एसकेटी) अम्युनिशन श्री प्रकाश सिंह (जेसी-726339एक्स), 01 सितम्बर 2009
सूबेदार लिपिक (एसडी) ओम प्रकाश (जेसी-727116एम), 01 मार्च 2010	सूबेदार (एसकेटी) अम्युनिशन सुरेश कुमार सैनि (जेसी-726394एन), 01 सितम्बर 2009
सूबेदार लिपिक (एसडी) पान सिंह अधिकारी (जेसी-727167ए), 01 मार्च 2010	सूबेदार (एसकेटी) अम्युनिशन सत्यवीर सिंह नेहरा (जेसी-726356एक्स), 07 सितम्बर 2009 *
	*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2009 से दी जाएगी)

सूबेदार (एसकेटी) अम्युनिशन बलविन्दर सिंह (जेसी-726381डब्ल्यू),
14 सितम्बर 2009 *

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 सितम्बर 2009 से दी जाएगी)

सूबेदार (एसकेटी) अम्युनिशन बलवान सिंह (जेसी-726387एक्स),
01 अक्टूबर 2009

सूबेदार (एसकेटी) अम्युनिशन रनधीर सिंह (जेसी-726388ए),
01 अक्टूबर 2009

सूबेदार (एसकेटी) एवीएन प्रशान्त कुमार दाश (जेसी-726210के),
08 अप्रैल 2009 *

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 अप्रैल 2009 से दी जाएगी)

सूबेदार (एसकेटी) अम्युनिशन रामधर कुशवहा (जेसी-726662एम),
01 अप्रैल 2009

सूबेदार (एसकेटी) इंजीनियर मधुकर सिंह (जेसी-726019एच),
01 मार्च 2009

सूबेदार (एसकेटी) इंजीनियर प्रकाश सिंह (जेसी-725965पी),
01 मार्च 2009

सूबेदार (एसकेटी) इंजीनियर राम चरन सिंह वर्मा (जेसी-727008एच),
01 मई 2009

सूबेदार (एसकेटी) जीएस एण्ड सी प्रेम शंकर (जेसी-726204डब्ल्यू),
01 अप्रैल 2009

सूबेदार (एसकेटी) जीएस एण्ड सी राम बचन चौधुरी (जेसी-
726179एच), 01 अप्रैल 2009

सूबेदार (एसकेटी) जीएस एण्ड सी एक्स विओर वी (जेसी-726209पी),
01 अप्रैल 2009

सूबेदार (एसकेटी) जीएस एण्ड सी भंवर लाल जाट (जेसी-
726237एफ), 13 अप्रैल 2009 *

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 अप्रैल 2009 से दी जाएगी)

सूबेदार (एसकेटी) जीएस एण्ड सी शशिधरन नायर के (जेसी-
726310पी), 09 मई 2009 *

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 मई 2009 से दी जाएगी)

सूबेदार (एसकेटी) जीएस एण्ड सी नारद सिंह यादवा (जेसी-726301एन),
01 अगस्त 2009

सूबेदार (एसकेटी) जीएस एण्ड सी राम नीवाश रवलदिआ (जेसी-
726338पी), 01 अगस्त 2009

सूबेदार (एसकेटी) जीएस एण्ड सी सुभाश चन्द्र साहु (जेसी-
726382वाई), 01 अगस्त 2009

सूबेदार (एसकेटी) जीएस एण्ड सी सुखवीर सिंह (जेसी-726309ए),
01 अगस्त 2009

सूबेदार (एसकेटी) जीएस एण्ड सी श्याम सिंह (जेसी-726307पी),
01 अगस्त 2009 *

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 जुलाई 2009 से दी जाएगी)

सूबेदार (एसकेटी) जीएस एण्ड सी बिरेन्द्र कुमार सागर (जेसी-
726351वाई), 01 जून 2009

सूबेदार (एसकेटी) जीएस एण्ड सी क्रिष्णानन्द कापरी (जेसी-726336के),
01 जून 2009

सूबेदार (एसकेटी) जीएस एण्ड सी प्रह्लाद तिवारी (जेसी-726337एम),
19 जून 2009 *

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 जून 2009 से दी जाएगी)

सूबेदार (एसकेटी) जीएस एण्ड सी भुपेंद्र सिंह (जेसी-726206एफ),
01 जुलाई 2009

सूबेदार (एसकेटी) जीएस एण्ड सी वधमोदे सदाशिव नानदेओ
(जेसी-726306एम), 01 जुलाई 2009

सूबेदार (एसकेटी) जीएस एण्ड सी गवडे बाबा साहेब (जेसी-726303वाई),
21 जुलाई 2009 *

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 जून 2009 से दी जाएगी)

सूबेदार (एसकेटी) जीएस एण्ड सी तुकाराम मधु काले (जेसी-726304एफ),
17 अगस्त 2009 *

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 जून 2009 से दी जाएगी)

सूबेदार (एसकेटी) जीएस एण्ड सी चमन लाल (जेसी-726359एल),
01 सितम्बर 2009

सूबेदार (एसकेटी) जीएस एण्ड सी भगवान सिंह धामी (जेसी-
726375एच), 01 अक्टूबर 2009

सूबेदार (एसकेटी) जीएस एण्ड सी शिव कुमार (जेसी-726363एन),
01 अक्टूबर 2009

सूबेदार (एसकेटी) जीएस एण्ड सी अलोक कुमार धर (जेसी-726425एच),
01 दिसम्बर 2009

सूबेदार (एसकेटी) जीएस एण्ड सी मोहम्मद निज़मुद्दीन (जेसी-726469ए),
01 दिसम्बर 2009

सूबेदार (एसकेटी) जीएस एण्ड सी निखिल चंद्रा बिस्वास (जेसी-
726499एक्स), 01 दिसम्बर 2009

सूबेदार (एसकेटी) जीएस एण्ड सी महीपाल सिंह (जेसी-726537एच),
01 जनवरी 2010

- सूबेदार (एसकेटी) जीएस एण्ड सी ओम प्रकाश असत (जेसी-726465के),
01 जनवरी 2010
- सूबेदार (एसकेटी) जीएस एण्ड सी पी बिरेन्द्र सिंघा (जेसी-726501के),
01 जनवरी 2010
- सूबेदार (एसकेटी) जीएस एण्ड सी समरेन्द्र डे (जेसी-726466एन),
01 जनवरी 2010
- सूबेदार (एसकेटी) जीएस एण्ड सी चंचल सिंह कर्की (जेसी-726515के),
18 जनवरी 2010 *
- *(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 जनवरी 2010 से दी जाएगी)
- सूबेदार (एसकेटी) जीएस एण्ड सी रमेश चंदेर (जेसी-726546एल),
01 फरवरी 2010
- सूबेदार (एसकेटी) जीएस एण्ड सी सुरेश चंद (जेसी-726529के),
01 फरवरी 2010
- सूबेदार (एसकेटी) जीएस एण्ड सी सूर्य नाथ यादव (जेसी-726505एफ),
01 फरवरी 2010
- सूबेदार (एसकेटी) जीएस एण्ड सी आदर्श कुमार (जेसी-726609एफ),
01 मार्च 2010
- सूबेदार (एसकेटी) जीएस एण्ड सी छोटु राम (जेसी-726607डब्ल्यू),
01 मार्च 2010
- सूबेदार (एसकेटी) जीएस एण्ड सी हरिपाल सिंह (जेसी-726651ए),
01 मार्च 2010
- सूबेदार (एसकेटी) जीएस एण्ड सी इंदेर सिंह पठानिया (जेसी-
726610डब्ल्यू), 01 मार्च 2010
- सूबेदार (एसकेटी) जीएस एण्ड सी प्रनब दास (जेसी-726816एन),
01 मार्च 2010
- सूबेदार (एसकेटी) जीएस एण्ड सी राम निवास (जेसी-726657एफ),
01 मार्च 2010
- सूबेदार (एसकेटी) जीएस एण्ड सी राम पाल (जेसी-726630के),
01 मार्च 2010
- सूबेदार (एसकेटी) जीएस एण्ड सी विजय सिंह नेगी (जेसी-726632पी),
01 मार्च 2010
- सूबेदार (एसकेटी) जीएस एण्ड सी हेम करन सिंह (जेसी-726685एन),
15 मार्च 2010 *
- *(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 मार्च 2010 से दी जाएगी)
- सूबेदार (एसकेटी) जीएस एण्ड सी गनेश दत्त (जेसी-726661के),
01 अप्रैल 2010
- सूबेदार (एसकेटी) जीएस एण्ड सी राकेश कुमार पाण्डे (जेसी-
726643एफ), 01 अप्रैल 2010
- सूबेदार (एसकेटी) जीएस एण्ड सी राम शबद यादव (जेसी-726701ए),
01 अप्रैल 2010
- सूबेदार (एसकेटी) जीएस एण्ड सी रोहताश सिंह (जेसी-726644के),
01 अप्रैल 2010
- सूबेदार (एसकेटी) जीएस एण्ड सी टर्सेम लाल (जेसी-726693एम),
01 अप्रैल 2010
- सूबेदार (एसकेटी/एमटी) राजेन्द्रा सिंह (जेसी-725902एम), 26 फरवरी
2009 *
- *(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 फरवरी 2009 से दी जाएगी)
- सूबेदार (एसकेटी/एमटी) अमर नाथ सिंह (जेसी-727213के), 05 मार्च
2009 *
- *(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 अक्टूबर 2008 से दी जाएगी)
- सूबेदार (एसकेटी/एमटी) दवेन्द्र सिंह (जेसी-726318एफ), 01 अप्रैल
2009
- सूबेदार (एसकेटी/एमटी) ज्ञानेन्द्र शर्मा (जेसी-726266एम), 08 अप्रैल
2009 *
- *(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 अप्रैल 2009 से दी जाएगी)
- सूबेदार (एसकेटी/एमटी) जय प्रकाश (जेसी-726205वाई), 24 अप्रैल
2009 *
- *(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 अप्रैल 2009 से दी जाएगी)
- सूबेदार (एसकेटी/एमटी) प्रह्लाद लेण्का (जेसी-726045के), 25 अप्रैल
2009 *
- *(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 फरवरी 2009 से दी जाएगी)
- सूबेदार (एसकेटी/एमटी) रवि शंकर प्रसाद सिंह (जेसी-726238के),
01 मई 2009
- सूबेदार (एसकेटी/एमटी) शेर सिंह (जेसी-726297डब्ल्यू), 16 मई
2009 *
- *(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 मई 2009 से दी जाएगी)
- सूबेदार (एसकेटी/एमटी) सुभाश चंद शर्मा (जेसी-726298वाई),
18 मई 2009 *
- *(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 मई 2009 से दी जाएगी)
- सूबेदार (एसकेटी/एमटी) जे राजा सेखरन नायर (जेसी-726302डब्ल्यू),
18 जुलाई 2009 *
- *(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 जून 2009 से दी जाएगी)

सूबेदार (एसकेटी/एमटी) बिजय बीर सिंह (जेसी-726352एफ),
01 अगस्त 2009

सूबेदार (एसकेटी/एमटी) दिनेश चंद्रा (जेसी-726379वाई), 01 अगस्त
2009

सूबेदार (एसकेटी/एमटी) अरुण कुमार पाल (जेसी-726390एक्स),
01 अक्टूबर 2009

सूबेदार (एसकेटी/एमटी) राजीव शंकर अवस्थी (जेसी-726362एल),
01 अक्टूबर 2009

सूबेदार (एसकेटी/एमटी) बिजय कुमार गिरी (जेसी-726404एम),
01 नवम्बर 2009

सूबेदार (एसकेटी/एमटी) दलबीर सिंह (जेसी-726402एफ), 01 नवम्बर
2009

सूबेदार (एसकेटी/एमटी) योगेंद्र सिंह (जेसी-726403के), 03 नवम्बर
2009 *

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 नवम्बर 2009 से दी जाएगी)

सूबेदार (एसकेटी/एमटी) मनोहर लाल बिशनोई (जेसी-726405पी),
01 दिसम्बर 2009

सूबेदार (एसकेटी/एमटी) नबी हसन अनसारी (जेसी-726455ए),
01 दिसम्बर 2009

सूबेदार (एसकेटी/एमटी) सुनील चटर्जी (जेसी-726423एक्स),
01 दिसम्बर 2009

सूबेदार (एसकेटी/एमटी) नीलेंद्र कुमार महाराज (जेसी-726420के),
07 दिसम्बर 2009 *

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 दिसम्बर 2009 से दी जाएगी)

सूबेदार (एसकेटी/एमटी) नरसिंह पाल यादव (जेसी-726508एन),
01 जनवरी 2010

सूबेदार (एसकेटी/एमटी) राज कुमार (जेसी-726512डब्ल्यू), 10 जनवरी
2010 *

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 जनवरी 2010 से दी जाएगी)

सूबेदार (एसकेटी/एमटी) दिलीप कुमार पाल (जेसी-726421एम),
04 जनवरी 2010 *

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 दिसम्बर 2009 से दी जाएगी)

सूबेदार (एसकेटी/एमटी) रतन चंद (जेसी-726482के), 16 जनवरी
2010 *

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 जनवरी 2010 से दी जाएगी)

सूबेदार (एसकेटी/एमटी) अशोक कुमार (जेसी-726483एम),
01 फरवरी 2010

सूबेदार (एसकेटी/एमटी) बलवीर सिंह (जेसी-726573एन), 01 फरवरी
2010

सूबेदार (एसकेटी/एमटी) मुरलीधर पाण्डे (जेसी-726502एम),
01 फरवरी 2010

सूबेदार (एसकेटी/एमटी) फोअप सिंह (जेसी-726568एच), 01 फरवरी
2010

सूबेदार (एसकेटी/एमटी) राम नारायण कुरील (जेसी-726572एल),
01 फरवरी 2010

सूबेदार (एसकेटी/एमटी) रवींद्र पाल सिंह (जेसी-726516एम),
01 फरवरी 2010

सूबेदार (एसकेटी/एमटी) सुभाश चंद्र (जेसी-726530वाई), 01 फरवरी
2010

सूबेदार (एसकेटी/एमटी) बीजयन भी (जेसी-726531एफ), 01 फरवरी
2010

सूबेदार (एसकेटी/एमटी) अनील कुमार टी (जेसी-726611वाई),
01 मार्च 2010

सूबेदार (एसकेटी/एमटी) भुपेन्द्र सिंह (जेसी-726608वाई), 01 मार्च
2010

सूबेदार (एसकेटी/एमटी) श्याम बिहारी मिश्रा (जेसी-726641डब्ल्यू),
01 मार्च 2010

सूबेदार (एसकेटी/एमटी) नानी गोपाल सिंघा (जेसी-726571एच),
30 मार्च 2010 *

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 फरवरी 2010 से दी जाएगी)

सूबेदार (एसकेटी/एमटी) मदन सिंह तनवर (जेसी-726694पी),
01 अप्रैल 2010

सूबेदार (एसकेटी/सिग्नल) हिम बहादुर भंडारी (जेसी-726014के),
01 मार्च 2009

सूबेदार (एसकेटी/सिग्नल) सुरेश शर्मा (जेसी-726021ए), 30 मार्च
2009 *

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 मार्च 2009 से दी जाएगी)

सूबेदार (एसकेटी/सिग्नल) मोहम्मद अमन (जेसी-726319के), 01 अप्रैल
2009

सूबेदार (एसकेटी/सिग्नल) सुंदर सिंह सत्यपाल (जेसी-726155वाई),
02 अप्रैल 2009 *

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 मार्च 2009 से दी जाएगी)

सूबेदार (एसकेटी/सिग्नल) सुख चरन (जेसी-726050पी), 04 अप्रैल 2009*

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2009 से दी जाएगी)

सूबेदार (एसकेटी/सिग्नल) सुमा सागर बी (जेसी-726300एल), 01 मई 2009

सूबेदार (एसकेटी/सिग्नल) अशोक कुमार (जेसी-725932के), 25 जुलाई 2009*

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2009 से दी जाएगी)

सूबेदार (एसकेटी/सिग्नल) सुरेश सिंह मेहरा (जेसी-726013एफ), 01 अगस्त 2009

सूबेदार (एसकेटी/सिग्नल) सुरेन्द्र सिंह (जेसी-726386पी), 05 सितम्बर 2009*

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2009 से दी जाएगी)

सूबेदार (एसकेटी/सिग्नल) छोटू सिंह पुंडीर (जेसी-726401वाई), 01 अक्टूबर 2009

सूबेदार (एसकेटी/सिग्नल) पाउल एम जे (जेसी-726395डब्ल्यू), 01 अक्टूबर 2009

सूबेदार (एसकेटी/सिग्नल) राज कुमार (जेसी-726376एल), 01 अक्टूबर 2009

सूबेदार (एसकेटी/सिग्नल) सुबाश चंद (जेसी-726361एच), 01 अक्टूबर 2009

सूबेदार (एसकेटी/वेपन) आरम सिंह (जेसी-725827एन), 01 जनवरी 2009*

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2008 से दी जाएगी)

सूबेदार (एसकेटी/वेपन) महेश चंद्र दूबे (जेसी-725799एम), 01 जनवरी 2009*

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2008 से दी जाएगी)

सूबेदार (एसकेटी/वेपन) बसन्त कुमार जेना (जेसी-726037एल), 01 फरवरी 2009

सूबेदार (एसकेटी/वेपन) फूल चन्द यादव (जेसी-726086एन), 01 मार्च 2009

सूबेदार (एसकेटी/वेपन) राम प्यारे सिंह यादव (जेसी-726104एल), 01 मार्च 2009

सूबेदार (एसकेटी/वेपन) अनूप सिंह (जेसी-726092एफ), 08 मार्च 2009*

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2009 से दी जाएगी)

सूबेदार (एसकेटी/वेपन) मोहिंद्रा नाथ बेहेरा (जेसी-725903पी), 30 मार्च 2009*

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2009 से दी जाएगी)

सूबेदार (एसकेटी/वेपन) रामराज पाल (जेसी-725885एक्स), 02 अप्रैल 2009*

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2009 से दी जाएगी)

सूबेदार (एसकेटी/वेपन) अशोक कुमार (जेसी-726360ए), 01 सितम्बर 2009

सूबेदार (एसकेटी/वेपन) घनश्याम मलकानि (जेसी-726353के), 24 सितम्बर 2009*

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2009 से दी जाएगी)

सूबेदार (एसकेटी/वेपन) सुबे सिंह (जेसी-726389एच), 01 अक्टूबर 2009

सूबेदार (एसकेटी/वेपन) फानिभूसन सिंघा (जेसी-726513वाई), 01 जनवरी 2010

सूबेदार (एसकेटी/वेपन) मोहम्मद साहजाहन (जेसी-726684एल), 01 मार्च 2010

सूबेदार (एसकेटी/वेपन) नरेन्द्र सिंह (जेसी-726500एफ), 01 जनवरी 2010

सूबेदार (एसकेटी/वेपन) शमसेर सिंह (जेसी-726629पी), 01 मार्च 2010

सूबेदार (ड्राईवर स्पेशल) अजित कुमार चौबे (जेसी-727456पी), 01 जून 2009

सूबेदार (ड्राईवर स्पेशल) हिमांशु देब (जेसी-727519एम), 01 जून 2009

सूबेदार (ड्राईवर स्पेशल) निलेन्दु जेना (जेसी-727331एक्स), 01 जून 2009

सूबेदार (ड्राईवर/स्पेशल) राजेन्द्र सिंह (जेसी-727455एम), 01 जून 2009

सूबेदार (ड्राईवर/स्पेशल) रमेशन ए (जेसी-727332ए), 01 जून 2009

सूबेदार (ड्राईवर/स्पेशल) रमेश चन्दर (जेसी-727457एक्स), 01 जून 2009

सूबेदार (ड्राईवर/स्पेशल) सुभाश चन्द्र रोय (जेसी-727458ए), 01 जून 2009

सूबेदार (ड्राईवर/स्पेशल) हरबंस सिंह (जेसी-727430ए), 04 जून 2009*

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2009 से दी जाएगी)

सूबेदार (ड्राईवर स्पेशल) इन्द्र सिंह घटनी (जेसी-727499के),
21 जून 2009 *

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 जून 2009 से दी जाएगी)

सूबेदार (ड्राईवर स्पेशल) शिव कुमार (जेसी-727520एफ),
01 अगस्त 2009

सूबेदार (ड्राईवर स्पेशल) विस्वनाथ विश्वकर्मा (जेसी-727518के),
01 अगस्त 2009

सूबेदार (एसएचटी) देवेंद्रा राम त्रिपाठी (जेसी-727324के), 01 जून
2009

सूबेदार (एसएचटी) जन्मजय मुदुली (जेसी-727267एल), 01 मई
2009

सूबेदार (एसएचटी) मोहर सिंह (जेसी-727209एफ), 01 मई 2009

सूबेदार (एसएचटी) शिव शंकर सिंह कुशवाहा (जेसी-727466वाई),
01 सितम्बर 2009

सूबेदार एसएच (जीडी) झक बहादुर पून (जेसी-727433एन),
01 जून 2009

सूबेदार एसएच (जीडी) कनिया लाल (जेसी-727414एच), 01 जून
2009

सूबेदार एसएच (जीडी) क्रिष्णा कुमार सिंह (जेसी-727379एल),
01 जून 2009

सूबेदार एसएच (जीडी) नंदु साव (जेसी-727413ए), 01 जून 2009

सूबेदार एसएच (जीडी) राम नारयण सिंह (जेसी-727460एक्स),
01 जून 2009

सूबेदार एसएच (जीडी) रामाकब्ले परित (जेसी-727412एक्स), 01
जून 2009

सूबेदार एसएच (जीडी) सुनील कुमार (जेसी-727478एन), 03 जून
2009 *

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 जून 2009 से दी जाएगी)

सूबेदार एसएच (जीडी) पंचानन सिंह (जेसी-727137एच),
01 जुलाई 2009

सूबेदार एसएच (जीडी) अकाडी वेण्कप्पा भिमाप्पा (जेसी-
727459एच), 23 जून 2009 *

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 जून 2009 से दी जाएगी)

सूबेदार एसएच (जीडी) श्रीनिवास भारद्वाज (जेसी-727500एन),
24 जुलाई 2009'

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 जुलाई 2009 से दी जाएगी)

सूबेदार एसएच (जीडी) अजमेरी खान (जेसी-727463एल),
01 सितम्बर 2009

सूबेदार एसएच (जीडी) जगत बहादुर राना (जेसी-727462एच),
01 सितम्बर 2009

सूबेदार एसएच (जीडी) मूला राम (जेसी-727464एन), 01 सितम्बर
2009

सूबेदार एसएच (जीडी) ईश्वर चन्द सिंह (जेसी-727432एल),
26 सितम्बर 2009 *

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 जुलाई 2009 से दी जाएगी)

सूबेदार एसएच (जीडी) कैलाश कुमार (जेसी-727465डब्ल्यू),
01 अक्टूबर 2009

सूबेदार एसएच (जीडी) ओम प्रकाश (जेसी-727461ए), 01 अक्टूबर
2009

सूबेदार एसएच (जीडी) चन्द्र बहादुर थापा (जेसी-727505एम),
01 दिसम्बर 2009

सूबेदार एसएच (जीडी) सनप वनंत आप्पाराव (जेसी-727479डब्ल्यू),
01 दिसम्बर 2009

सूबेदार एसएच (जीडी) सचीदानन्द प्रसाद सिंह (जेसी-727480एल),
20 दिसम्बर 2009 *

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 दिसम्बर 2009 से दी जाएगी)

सूबेदार एसएच (जीडी) अशीम करमाकर (जेसी-727501डब्ल्यू),
01 जनवरी 2010

सूबेदार एसएच (जीडी) सुरेश कुमार राई (जेसी-727481एन),
01 जनवरी 2010

सूबेदार एसएच (जीडी) असित बिस्वास (जेसी-727482डब्ल्यू),
15 जनवरी 2010 *

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 जनवरी 2010 से दी जाएगी)

सूबेदार एसएच (जीडी) राम भरोसे लाल (जेसी-727477एल),
01 फरवरी 2010

सूबेदार एसएच (जीडी) बाबाजी सेथी (जेसी-727506पी), 01 अप्रैल
2010

सूबेदार एसएच (जीडी) सुरत सिंह (जेसी-727474एक्स), 01 अप्रैल
2010

सूबेदार टेलर (यू) बदन सिंह पाल (जेसी-727593एन), 03 जुलाई
2009 *

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 अक्टूबर 2007 से दी जाएगी)

सूबेदार स्पोर्ट स्टाफ (ईआर) भानू प्रताप (जेसी-727086ए), 01 अप्रैल
2009

सूबेदार पैटर एण्ड डेकोरेटर सुरेंद्र प्रसाद सिंह (जेसी-727327पी),
01 मई 2009

सूबेदार पैटर एण्ड डेकोरेटर एस नरसिंघ राव (जेसी-727141एल),
01 मार्च 2009

सूबेदार आर्टिसन (डब्ल्यूडब्ल्यू) बालु सिंह (जेसी-726731एक्स),
01 जनवरी 2010

सूबेदार आर्टिसन (डब्ल्यूडब्ल्यू) फतिक चन्द्र दास (जेसी-726634ए),
01 मई 2009

नन्द किशोर कश्मीरा
अवर सचिव

थल सेना विभाग

सं. 715, दिनांक 29 नवम्बर 2010--राष्ट्रपति, निम्नलिखित पदोन्नतियां करते हैं :--

नियमित सेना

रक्षा तथा सुरक्षा कोर

नायब सूबेदार (जीडी) के रैंक में

हवलदार ब्रिज लाल पटेल (सं. 10389336एच अब जेसी-842742एच),
24 जून 2010 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 13 मार्च 2010)

हवलदार पी अन्डीयाप्पन (सं. 10451645डब्ल्यू अब जेसी-
842757एल), 10 मई 2010 **

हवलदार राम किशन (सं. 4174126एच अब जेसी-842769ए),
03 मई 2010 **

**(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 मई 2010)

हवलदार बी सोमासेखरन नायर (सं. 10327636एफ अब
जेसी-842782के), 01 जून 2010 ***

हवलदार पंकज नायक (सं. 10258970पी अब जेसी-842783एम),
03 जून 2010 ***

हवलदार शिव नाथ डे (सं. 10212169एच अब जेसी-842785एक्स),
15 जून 2010 ***

*** (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 जून 2010)

हवलदार टेक चन्द (सं. 2875237एम अब जेसी-842789एन),
01 जुलाई 2010 ****

हवलदार देवाप्पा जयराम देवमाने (सं. 10358106एन अब
जेसी-842790एच), 01 जुलाई 2010 ****

**** (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 जुलाई 2010)

हवलदार हम्बी राव माहादिक (सं. 10149641एच अब जेसी-
842792एन), 01 जुलाई 2010 *****

हवलदार एल अम्ब्रोसे (सं. 10165461के अब जेसी-842794वाई),
01 जुलाई 2010 *****

हवलदार अवसान सिंह (सं. 10227095डब्ल्यू अब जेसी-842795एफ),
12 जुलाई 2010 *****

हवलदार बलदेव सिंह (सं. 3974246एम अब जेसी-842796के),
01 जुलाई 2010 *****

हवलदार रामजी सिंह (सं. 10258879वाई अब जेसी-842798पी),
07 जुलाई 2010 *****

हवलदार के वेटरिकन (सं. 10165324एल अब जेसी-842799एक्स),
01 जुलाई 2010 *****

***** (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 जुलाई 2010)

नायब सूबेदार (लिपिक) के रैंक में

हवलदार लाल मोहन त्रिपाठी (सं. 8824083एन अब
जेसी-842787एच), 01 जुलाई 2010 *****

***** (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले
बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2010)

प्रदीप कुमार
अवर सचिव

सेना शाखा

सं. 716, दिनांक 29 नवम्बर 2010--राष्ट्रपति, निम्नलिखित पदोन्नतियां करते हैं :--

नियमित सेना

आसूचना कोर

नायब सूबेदार इन्ट (जीडी) के पद पर

रैंक, नाम, आर्मी सं., जेसी सं. व तारीख

हवलदार/इन्ट (जीडी) रदादिया दिनेश कुमार मकान भाई (सं. 7430964वाई
अब जेसी-811115पी), 05 अक्टूबर 2007

(नायब सूबेदार के पद में बिना वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले वरिष्ठता
11 सितम्बर 2007 से दी जाती है)

हवलदार/इन्ट (जीडी) पी सुरेश कुमार (सं. 7430966के अब
जेसी-811116एक्स), 01 अक्टूबर 2007

(नायब सूबेदार के पद में बिना वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले वरिष्ठता
12 सितम्बर 2007 से दी जाती है)

हवलदार/इन्ट (जीडी) दिवान सिंह खोलिया (सं. 4179332डब्ल्यू अब
जेसी-811117ए), 26 अक्टूबर 2007

हवलदार/इन्ट (जीडी) देवेन्द्र सिंह (सं. 7430968पी अब
जेसी-811118एच), 26 अक्टूबर 2007

हवलदार/इन्ट (जीडी) सुरेश कुमार (सं. 7430969एक्स अब जेसी-811119एल), 26 अक्टूबर 2007

हवलदार/इन्ट (जीडी) बिरबल सिंह (सं. 15352588एम अब जेसी-811120ए), 26 नवम्बर 2007

(नायब सूबेदार के पद में बिना वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले वरिष्ठता 01 अक्टूबर 2007 से दी जाती है)

हवलदार/इन्ट (जीडी) हरविन्द्र सिंह सुदान (सं. 2478966एम अब जेसी-811124डब्ल्यू), 17 नवम्बर 2007

हवलदार/इन्ट (जीडी) सुरेश एच आर (सं. 14397262वाई अब जेसी-811125वाई), 01 नवम्बर 2007

हवलदार/इन्ट (जीडी) विरेन्द्र बहादुर सिंह (सं. 2987352एन अब जेसी-811126एफ), 16 दिसम्बर 2007

हवलदार/इन्ट (जीडी) चन्दन सिंह (सं. 4068743ए अब जेसी-811127के), 03 दिसम्बर 2007

हवलदार/इन्ट (जीडी) विनोद कुमार (सं. 3987845एल अब जेसी-811128एम), 28 नवम्बर 2007

हवलदार/इन्ट (जीडी) शशि कुमार के बी (सं. 7430972एक्स अब जेसी-811129पी), 12 नवम्बर 2007

हवलदार/इन्ट (जीडी) दयानन्द पाण्डे (सं. 7430975एल अब जेसी-811130के), 13 नवम्बर 2007

(नायब सूबेदार के पद में बिना वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले वरिष्ठता 01 नवम्बर 2007 से दी जाती है)

हवलदार/इन्ट (जीडी) कृष्णा कुमार तिवारी (सं. 7430817डब्ल्यू अब जेसी-811132पी), 28 जनवरी 2008

(नायब सूबेदार के पद में बिना वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले वरिष्ठता 01 मार्च 2006 से दी जाती है)

हवलदार/इन्ट (जीडी) विजय पाल सिंह (सं. 7430977डब्ल्यू अब जेसी-811133एक्स), 20 दिसम्बर 2007

हवलदार/इन्ट (जीडी) नरेन्द्र सिंह (सं. 7430976एन अब जेसी-811134ए), 03 दिसम्बर 2007

हवलदार/इन्ट (जीडी) उमेश चन्द्र बमोला (सं. 7430986एक्स अब जेसी-811135एच), 15 दिसम्बर 2007

(नायब सूबेदार के पद में बिना वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले वरिष्ठता 01 दिसम्बर 2007 से दी जाती है)

हवलदार/इन्ट (जीडी) मल्लाप्पा हल्की (सं. 7430991एच अब जेसी-811136एल), 01 दिसम्बर 2007

हवलदार/इन्ट (जीडी) सुनिल कुमार सिंह (सं. 7430992एल अब जेसी-811138एन), 01 जनवरी 2008

हवलदार/इन्ट (जीडी) मनोज कुमार (सं. 7430996एफ अब जेसी-811139वाई), 01 जनवरी 2008

हवलदार/इन्ट (जीडी) भुवान चन्द्र (सं. 14701086वाई अब जेसी-811140एन), 07 फरवरी 2008

हवलदार/इन्ट (जीडी) विनोद कुमार सुरन (सं. 7430502एम अब जेसी-811141डब्ल्यू), 07 फरवरी 2008

हवलदार/इन्ट (जीडी) उमेश चन्द्रा श्रीवास्तव (सं. 7430731एक्स अब जेसी-811142वाई), 02 फरवरी 2008

हवलदार/इन्ट (जीडी) रजनीकान्त उपाध्याय (सं. 7430850एन अब जेसी-811143एफ), 08 फरवरी 2008

हवलदार/इन्ट (जीडी) बोजा श्रीनिवासुलु (सं. 7430856पी अब जेसी-811144के), 03 फरवरी 2008

हवलदार/इन्ट (जीडी) कुन्ना राम (सं. 7430869एम अब जेसी-811145एम), 29 फरवरी 2008

हवलदार/इन्ट (जीडी) विजोय कुमार मन्दल (सं. 7430925ए अब जेसी-811146पी), 09 फरवरी 2008

हवलदार/इन्ट (जीडी) रोशन सिंह (सं. 7430941एक्स अब जेसी-811147एक्स), 09 फरवरी 2008

हवलदार/इन्ट (जीडी) गजेन्द्र सिंह सहारिया (सं. 7430956ए अब जेसी-811148ए), 24 मार्च 2008

हवलदार/इन्ट (जीडी) सी एच माधवा (सं. 7430854एक्स अब जेसी-811149एच), 24 मार्च 2008

हवलदार/इन्ट (जीडी) दरोगा सिंह (सं. 7430940पी अब जेसी-811150एक्स), 09 फरवरी 2008

हवलदार/इन्ट (जीडी) सुम्पेता सम्माद साहिब (सं. 7430960एच अब जेसी-811151ए), 29 मार्च 2008

हवलदार/इन्ट (जीडी) सतेन्दर कुमार (सं. 2882239ए अब जेसी-811152एच), 13 फरवरी 2008

(नायब सूबेदार के पद में बिना वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले वरिष्ठता 01 फरवरी 2008 से दी जाती है)

हवलदार/इन्ट (जीडी) सुनिल दत्त (सं. 15106054वाई अब जेसी-811153एल), 19 मार्च 2008

हवलदार/इन्ट (जीडी) सतवीर सिंह (सं. 14913998एन अब जेसी-811154एन), 17 अप्रैल 2008

हवलदार/इन्ट (जीडी) आनन्द राणा (सं. 5345802के अब जेसी-811155डब्ल्यू), 21 मार्च 2008

हवलदार/इन्ट (जीडी) दिलबाग सिंह (सं. 2884527एल अब जेसी-811156वाई), 21 मार्च 2008

हवलदार/इन्ट (जीडी) मनबार सिंह (सं. 4068125पी अब जेसी-811157एफ), 18 मार्च 2008

हवलदार/इन्ट (जीडी) अत्तर सिंह (सं. 2986267वाई अब जेसी-811158के), 19 मार्च 2008

(नायब सूबेदार के पद में बिना वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले वरिष्ठता 01 मार्च 2008 से दी जाती है)

हवलदार/इन्ट (जीडी) सत्यभूषण मिश्रा (सं. 7430832एल अब जेसी-811160एफ), 01 अप्रैल 2008

हवलदार/इन्ट (जीडी) संसार चन्द (सं. 2678252एच अब जेसी-811161के), 01 अप्रैल 2008

हवलदार/इन्ट (जीडी) अशोक कुमार (सं. 13615863डब्ल्यू अब जेसी-811162एम), 01 अप्रैल 2008

हवलदार/इन्ट (जीडी) विजेन्द्रा सिंह (सं. 15108406के अब जेसी-811163पी), 01 अप्रैल 2008

हवलदार/इन्ट (जीडी) झुरे सुखदेव ज्योति (सं. 7430891एक्स अब जेसी-811164एक्स), 01 अप्रैल 2008

हवलदार/इन्ट (जीडी) टजित कुमार के पी (सं. 7430974एच अब जेसी-811165ए), 29 अप्रैल 2008@

@(नायब सूबेदार के पद में बिना वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले वरिष्ठता 20 अप्रैल 2008 से दी जाती है)

हवलदार/इन्ट (जीडी) हरि शंकर शहा (सं. 7430998एम अब जेसी-811166एच), 01 मई 2008

हवलदार/इन्ट (जीडी) रॉय फिलिप (सं. 7431000डब्ल्यू अब जेसी-811167एल), 01 मई 2008

हवलदार/इन्ट (जीडी) राजेन्द्रा प्रसाद (सं. 4066932एल अब जेसी-811168एन), 08 मई 2008@

हवलदार/इन्ट (जीडी) विजय कुमार थापा (सं. 14701660एम अब जेसी-811169डब्ल्यू), 05 मई 2008@

@(नायब सूबेदार के पद में बिना वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले वरिष्ठता 01 मई 2008 से दी जाती है)

हवलदार/इन्ट (जीडी) रोशन लाल (सं. 13749300एक्स अब जेसी-811170एल), 01 मई 2008

हवलदार/इन्ट (जीडी) रबिन्द्रा कुमार देबनाथ (सं. 4555747ए अब जेसी-811171एन), 01 मई 2008

हवलदार/इन्ट (जीडी) संतोष कुमार (सं. 2679008पी अब जेसी-811172डब्ल्यू), 01 मई 2008

हवलदार/इन्ट (जीडी) चरण सिंह (सं. 14381226एक्स अब जेसी-811173वाई), 01 मई 2008

हवलदार/इन्ट (जीडी) राजेश कुमार शर्मा (सं. 7430613के अब जेसी-811174एफ), 05 मई 2008@

@(नायब सूबेदार के पद में बिना वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले वरिष्ठता 01 मई 2008 से दी जाती है)

हवलदार/इन्ट (जीडी) यशपाल सिंह (सं. 13749924के अब जेसी-811179ए), 02 जून 2008@

@(नायब सूबेदार के पद में बिना वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले वरिष्ठता 01 जून 2008 से दी जाती है)

हवलदार/इन्ट (जीडी) कृष्णपाल सिंह (सं. 4067267ए अब जेसी-811180पी), 01 जून 2008

हवलदार/इन्ट (जीडी) ज्योतिष चंद्र रॉय (सं. 1080018एक्स अब जेसी-811181एक्स), 01 जून 2008

हवलदार/इन्ट (जीडी) मोहन सिंह (सं. 14701256एक्स अब जेसी-811182ए), 01 जून 2008

हवलदार/इन्ट (जीडी) राजेन्द्रा सिंह (सं. 2984597वाई अब जेसी-811183एच), 01 जून 2008

हवलदार/इन्ट (जीडी) प्रेम सिंह (सं. 4179291एक्स अब जेसी-811184एल), 01 जून 2008

हवलदार/इन्ट (जीडी) माधव सिंह (सं. 4179401एफ अब जेसी-811185एन), 01 जून 2008

हवलदार/इन्ट (जीडी) ब्रह्मपति मिश्रा (सं. 14384023वाई अब जेसी-811186डब्ल्यू), 01 जून 2008

हवलदार/इन्ट (जीडी) जसवन्त सिंह (सं. 14497737ए अब जेसी-811189के), 05 अगस्त 2008

हवलदार/इन्ट (जीडी) जोगिन्दर सिंह (सं. 2679867ए अब जेसी-811190वाई), 11 जुलाई 2008

हवलदार/इन्ट (जीडी) सुरिन्दर सिंह (सं. 3985873वाई अब जेसी-811191एफ), 11 जुलाई 2008

हवलदार/इन्ट (जीडी) प्रदीप कुमार (सं. 13750256एल अब जेसी-811192के), 11 जुलाई 2008

हवलदार/इन्ट (जीडी) विजेन्द्रा सिंह (सं. 4068298एम अब जेसी-811193एम), 17 जुलाई 2008

हवलदार/इन्ट (जीडी) इन्दल सिंह (सं. 14262429एक्स अब जेसी-811194पी), 15 जुलाई 2008

हवलदार/इन्ट (जीडी) शमशेर खान (सं. 1087019एच अब जेसी-811195एक्स), 19 जुलाई 2008

हवलदार/इन्ट (जीडी) गोविन्द राम (सं. 13961778एल अब जेसी-811196ए), 12 जुलाई 2008

हवलदार/इन्ट (जीडी) राम सिंह (सं. 3384746ए अब जेसी-811197एच), 17 जुलाई 2008

(नायब सूबेदार के पद में बिना वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले वरिष्ठता 01 जुलाई 2008 से दी जाती है)

हवलदार/इन्ट (जीडी) बलविन्दर सिंह (सं. 3384788एम अब जेसी-811198एल), 01 अगस्त 2008

हवलदार/इन्ट (जीडी) राजीव कुमार यादव (सं. 14390034एफ अब जेसी-811199एन), 01 अगस्त 2008

हवलदार/इन्ट (जीडी) प्यार चन्द (सं. 2680378एफ अब जेसी-811200एक्स), 01 अगस्त 2008

हवलदार/इन्ट (जीडी) धरमपाल यादव (सं. 15105650वाई अब जेसी-811201ए), 18 अगस्त 2008@

@(नायब सूबेदार के पद में बिना वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले वरिष्ठता 01 अगस्त 2008 से दी जाती है)

हवलदार/इन्ट (जीडी) देविन्दर सिंह (सं. 0387584ए अब जेसी-811202एच), 01 अगस्त 2008@

@(नायब सूबेदार के पद में बिना वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले वरिष्ठता 17 जुलाई 2008 से दी जाती है)

हवलदार/इन्ट (जीडी) नक्षत्र सिंह खोसा (सं. 3385899डब्ल्यू अब जेसी-811203एल), 01 अगस्त 2008

हवलदार/इन्ट (जीडी) हरमिन्दर सिंह (सं. 3386047एन अब जेसी-811204एन), 18 अगस्त 2008

हवलदार/इन्ट (जीडी) लखवीर सिंह पेलिया (सं. 3386233के अब जेसी-811205डब्ल्यू), 20 अगस्त 2008

हवलदार/इन्ट (जीडी) कमलेश चन्द (सं. 3987699डब्ल्यू अब जेसी-811206वाई), 18 अगस्त 2008

हवलदार/इन्ट (जीडी) प्रकाश सिंह (सं. 13616627एफ अब जेसी-811207एफ), 22 अगस्त 2008

हवलदार/इन्ट (जीडी) राम लाल ठाकुर (सं. 2478858एच अब जेसी-811208के), 16 अगस्त 2008

हवलदार/इन्ट (जीडी) भंवर लाल (सं. 2680656के अब जेसी-811209एम), 16 अगस्त 2008

हवलदार/इन्ट (जीडी) प्रेम सिंह (सं. 13751130एक्स अब जेसी-811210एफ), 15 अगस्त 2008

हवलदार/इन्ट (जीडी) एम नागमनी (सं. 15301658एक्स अब जेसी-811211के), 18 अगस्त 2008

हवलदार/इन्ट (जीडी) थिरूवेन्काडा सामी एन (सं. 2591216एफ अब जेसी-811212एम), 15 अगस्त 2008

हवलदार/इन्ट (जीडी) उदयभानु नारिकोटन (सं. 2591243एल अब जेसी-811213पी), 15 अगस्त 2008

हवलदार/इन्ट (जीडी) के गोपाला कृष्णन (सं. 2591334एक्स अब जेसी-811214एक्स), 16 अगस्त 2008

हवलदार/इन्ट (जीडी) नक्षत्र सिंह (सं. 3386859एफ अब जेसी-811215ए), 29 अगस्त 2008

हवलदार/इन्ट (जीडी) चिन्ताला श्रीनिवासा राव (सं. 7430959एन अब जेसी-811216एच), 15 अगस्त 2008

हवलदार/इन्ट (जीडी) शेर बहादुर छेत्री (सं. 5846364एफ अब जेसी-811227पी), 18 अगस्त 2008

हवलदार/इन्ट (जीडी) समय सिंह गुर्जर (सं. 2986348वाई अब जेसी-811228एक्स), 01 सितम्बर 2008

हवलदार/इन्ट (जीडी) टी राजन (सं. 2591554वाई अब जेसी-811229ए), 16 अगस्त 2008

हवलदार/इन्ट (जीडी) पवन कुमार (सं. 13616956एक्स अब जेसी-811230पी), 15 अगस्त 2008

हवलदार/इन्ट (जीडी) सोबन सिंह (सं. 7240003एफ अब जेसी-811231एक्स), 18 अगस्त 2008

हवलदार/इन्ट (जीडी) अर्जुन सिंह रावत (सं. 1480781एन अब जेसी-811232ए), 29 अगस्त 2008

(नायब सूबेदार के पद में बिना वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले वरिष्ठता 01 अगस्त 2008 से दी जाती है)

हवलदार/इन्ट (जीडी) बलबीर सिंह (सं. 2479446एन अब जेसी-811233एच), 01 सितम्बर 2008

हवलदार/इन्ट (जीडी) सत्यजीत घोष (सं. 14914390एल अब जेसी-811234एल), 01 सितम्बर 2008

हवलदार/इन्ट (जीडी) नरेश कुमार शर्मा (सं. 3988338के अब जेसी-811235एन), 01 सितम्बर 2008

हवलदार/इन्ट (जीडी) बृज राज यादव (सं. 8032046एन अब जेसी-811236डब्ल्यू), 11 सितम्बर 2008@

@(नायब सूबेदार के पद में बिना वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले वरिष्ठता 01 सितम्बर 2008 से दी जाती है)

हवलदार/इन्ट (जीडी) जय चन्द (सं. 3988392एक्स अब जेसी-811242के), 01 अक्टूबर 2008

हवलदार/इन्ट (जीडी) अमरीक सिंह (सं. 3387605डब्ल्यू अब जेसी-811243एम), 01 अक्टूबर 2008

हवलदार/इन्ट (जीडी) जगत सिंह (सं. 2986725के अब जेसी-811244पी), 01 अक्टूबर 2008

हवलदार/इन्ट (जीडी) जगदीश राज कस्ते (सं. 2479509एल अब जेसी-811245एक्स), 07 अक्टूबर 2008@

@(नायब सूबेदार के पद में बिना वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले वरिष्ठता 01 अक्टूबर 2008 से दी जाती है)

हवलदार/इन्ट (जीडी) जगदीश चन्द (सं. 3988452एफ अब जेसी-811246ए), 01 अक्तूबर 2008

हवलदार/इन्ट (जीडी) प्रभाकर वाई (सं. 13971744एल अब जेसी-811247एच), 01 अक्तूबर 2008

हवलदार/इन्ट (जीडी) सुखविन्दर सिंह (सं. 2479597एम अब जेसी-811248एल), 01 अक्तूबर 2008

हवलदार/इन्ट (जीडी) हरीश कुमार (सं. 3988488ए अब जेसी-811249एन), 10 अक्तूबर 2008@

@(नायब सूबेदार के पद में बिना वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले वरिष्ठता 01 अक्तूबर 2008 से दी जाती है)

हवलदार/इन्ट (जीडी) विजय पाल शर्मा (सं. 2479633एम अब जेसी-811250एच), 14 अक्तूबर 2008@

@(नायब सूबेदार के पद में बिना वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले वरिष्ठता 01 अगस्त 2008 से दी जाती है)

हवलदार/इन्ट (जीडी) सरबजीत सिंह (सं. 2479656एन अब जेसी-811251एल), 03 नवम्बर 2008

हवलदार/इन्ट (जीडी) हरनाम सिंह (सं. 2479696पी अब जेसी-811252एन), 14 नवम्बर 2008

हवलदार/इन्ट (जीडी) सुनील कुमार एस (सं. 2592078एक्स अब जेसी-811253डब्ल्यू), 03 नवम्बर 2008

हवलदार/इन्ट (जीडी) बरखा राम (सं. 7430898एफ अब जेसी-811254वाई), 01 नवम्बर 2008

हवलदार/इन्ट (जीडी) सुदर्शन राय (सं. 7430930एल अब जेसी-811255एफ), 07 नवम्बर 2008

हवलदार/इन्ट (जीडी) कमल नारायण त्रिपाठी (सं. 7430942ए अब जेसी-811256के), 01 नवम्बर 2008

हवलदार/इन्ट (जीडी) हीरा लाल (सं. 7430955एक्स अब जेसी-811257एम), 03 नवम्बर 2008

हवलदार/इन्ट (जीडी) पूरन चन्द्र कुम्हार (सं. 7430957एच अब जेसी-811258पी), 03 नवम्बर 2008

(नायब सूबेदार के पद में बिना वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले वरिष्ठता 01 नवम्बर 2008 से दी जाती है)

हवलदार/इन्ट (जीडी) राजेन्द्रा सिंह (सं. 14910488एफ अब जेसी-811260एम), 01 दिसम्बर 2008

हवलदार/इन्ट (जीडी) रमेश सिंह मेहरा (सं. 4179062एम अब जेसी-811261पी), 01 दिसम्बर 2008

हवलदार/इन्ट (जीडी) सोनम सीरिंग (सं. 7430963डब्ल्यू अब जेसी-811262एक्स), 10 दिसम्बर 2008

हवलदार/इन्ट (जीडी) गम्भीर सिंह (सं. 4068460वाई अब जेसी-811263ए), 07 दिसम्बर 2008

(नायब सूबेदार के पद में बिना वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले वरिष्ठता 01 दिसम्बर 2008 से दी जाती है)

हवलदार/इन्ट (जीडी) उदय नारायण ठाकुर (सं. 7430978वाई अब जेसी-811264एच), 01 दिसम्बर 2008

हवलदार/इन्ट (जीडी) राजेन्द्रा सिंह (सं. 7430987ए अब जेसी-811265एल), 01 दिसम्बर 2008

हवलदार/इन्ट (जीडी) रामेश्वर सिंह (सं. 3987607वाई अब जेसी-811266एन), 10 जनवरी 2009@

@(नायब सूबेदार के पद में बिना वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले वरिष्ठता 17 जुलाई 2008 से दी जाती है)

हवलदार/इन्ट (जीडी) गिरीश चन्द्र (सं. 7430988एच अब जेसी-811267डब्ल्यू), 10 जनवरी 2009

हवलदार/इन्ट (जीडी) अशोक कुमार (सं. 3984867वाई अब जेसी-811268वाई), 13 जनवरी 2009

हवलदार/इन्ट (जीडी) सुखदेव सिंह (सं. 2478907ए अब जेसी-811269एफ), 28 जनवरी 2009

हवलदार/इन्ट (जीडी) बलराम सिंह (सं. 14382692वाई अब जेसी-811270डब्ल्यू), 24 जनवरी 2009

(नायब सूबेदार के पद में बिना वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले वरिष्ठता 01 जनवरी 2009 से दी जाती है)

हवलदार/इन्ट (जीडी) शमशेर सिंह (सं. 7430979एफ अब जेसी-811272एफ), 03 फरवरी 2009

हवलदार/इन्ट (जीडी) जशपाल सिंह (सं. 2479037ए अब जेसी-811273के), 09 फरवरी 2009

हवलदार/इन्ट (जीडी) देबासिस जाना (सं. 2986911ए अब जेसी-811274एम), 02 फरवरी 2009

हवलदार/इन्ट (जीडी) गोविंद सिंह मनोला (सं. 4181139एच अब जेसी-811275पी), 02 फरवरी 2009

हवलदार/इन्ट (जीडी) शेवदान सिंह (सं. 14397322डब्ल्यू अब जेसी-811276एक्स), 12 फरवरी 2009

हवलदार/इन्ट (जीडी) जे वर्गिस (सं. 4358545ए अब जेसी-811277ए), 01 फरवरी 2009

हवलदार/इन्ट (जीडी) स्वरन सिंह (सं. 2479779ए अब जेसी-811278एच), 18 फरवरी 2009

(नायब सूबेदार के पद में बिना वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले वरिष्ठता 20 जनवरी 2009 से दी जाती है)

हवलदार/इन्ट (जीडी) प्रवीन कुमार (सं. 2479813पी अब जेसी-811285वाई), 16 मार्च 2009

हवलदार/इन्ट (जीडी) प्रीतम सिंह (सं. 2479814एक्स अब जेसी-811286एफ), 23 मार्च 2009

हवलदार/इन्ट (जीडी) एम राधाकृष्णन (सं. 2592481के अब जेसी-811287के), 07 मार्च 2009

हवलदार/इन्ट (जीडी) कुलबीर सिंह (सं. 2479954के अब जेसी-811288एम), 05 मार्च 2009

हवलदार/इन्ट (जीडी) कंवर भान (सं. 2884896एच अब जेसी-811289पी), 07 मार्च 2009

हवलदार/इन्ट (जीडी) जनक राज (सं. 2681791के अब जेसी-811290के), 01 मई 2009

हवलदार/इन्ट (जीडी) सुशील कुमार (सं. 6384460एन अब जेसी-811291एम), 13 मार्च 2009

(नायब सूबेदार के पद में बिना वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले वरिष्ठता 01 फरवरी 2009 से दी जाती है)

हवलदार/इन्ट (जीडी) मोहिन्दर सिंह (सं. 2682061एल अब जेसी-811292पी), 09 मार्च 2009

हवलदार/इन्ट (जीडी) बुधि लाल (सं. 8032279पी अब जेसी-811293एक्स), 26 मार्च 2009

हवलदार/इन्ट (जीडी) श्रीप्रताप सिंह (सं. 2987871डब्ल्यू अब जेसी-811294ए), 25 मार्च 2009

हवलदार/इन्ट (जीडी) कनालडेकर प्रशांत कुमार दिगम्बर (सं. 7430961एल अब जेसी-811295एच), 25 मार्च 2009

(नायब सूबेदार के पद में बिना वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले वरिष्ठता 01 मार्च 2009 से दी जाती है)

हवलदार/इन्ट (जीडी) दलवीर सिंह (सं. 2885041एम अब जेसी-811296एल), 04 मई 2009@

@(नायब सूबेदार के पद में बिना वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले वरिष्ठता 11 मार्च 2009 से दी जाती है)

हवलदार/इन्ट (जीडी) अनिल रावत (सं. 7430989एल अब जेसी-811297एन), 02 अप्रैल 2009

हवलदार/इन्ट (जीडी) सतीश कुमार (सं. 2885121के अब जेसी-811298डब्ल्यू), 09 अप्रैल 2009

हवलदार/इन्ट (जीडी) मुहम्मद उमर खान (सं. 7431001वाई अब जेसी-811299वाई), 01 अप्रैल 2009

हवलदार/इन्ट (जीडी) विनोद सिंह रावत (सं. 7431004एम अब जेसी-811300एच), 12 मई 2009

हवलदार/इन्ट (जीडी) घनश्याम चतुर्वेदी (सं. 7431009एल अब जेसी-811301एल), 29 अप्रैल 2009

हवलदार/इन्ट (जीडी) दिनेश बहादुर सिंह (सं. 7431016एफ अब जेसी-811302एन), 29 अप्रैल 2009

हवलदार/इन्ट (जीडी) राज करन (सं. 2681300एच अब जेसी-811303डब्ल्यू), 03 अप्रैल 2009

हवलदार/इन्ट (जीडी) बैन्जामिन जे (सं. 2592736वाई अब जेसी-811304वाई), 01 अप्रैल 2009

हवलदार/इन्ट (जीडी) अमरजीत सिंह (सं. 3388350एन अब जेसी-811305एफ), 02 अप्रैल 2009

हवलदार/इन्ट (जीडी) टी कन्नू चामी (सं. 7430871के अब जेसी-811306के), 18 मई 2009

(नायब सूबेदार के पद में बिना वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले वरिष्ठता 01 अप्रैल 2009 से दी जाती है)

हवलदार/इन्ट (जीडी) अशोक कुमार (सं. 8032065वाई अब जेसी-811307एम), 01 मई 2009@

@(नायब सूबेदार के पद में बिना वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले वरिष्ठता 01 अक्टूबर 2009 से दी जाती है)

हवलदार/इन्ट (जीडी) शेखर व्ही (सं. 7430862एच अब जेसी-811308पी), 15 मई 2009@

@(नायब सूबेदार के पद में बिना वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले वरिष्ठता 01 नवम्बर 2008 से दी जाती है)

हवलदार/इन्ट (जीडी) ब्रजेन्द्र बहादुर सिंह (सं. 2987911एम अब जेसी-811309एक्स), 11 मई 2009@

@(नायब सूबेदार के पद में बिना वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले वरिष्ठता 01 मार्च 2009 से दी जाती है)

हवलदार/इन्ट (जीडी) सतीश चन्द्र (सं. 13689247एल अब जेसी-811310एम), 11 मई 2009@

@(नायब सूबेदार के पद में बिना वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले वरिष्ठता 01 मई 2009 से दी जाती है)

हवलदार/इन्ट (जीडी) गन्धर्व सिंह चिब (सं. 9088375एम अब जेसी-811311पी), 01 मई 2009

हवलदार/इन्ट (जीडी) दुलाल डेका (सं. 4359028पी अब जेसी-811312एक्स), 27 जुलाई 2009@

@(नायब सूबेदार के पद में बिना वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले वरिष्ठता 01 मई 2009 से दी जाती है)

हवलदार/इन्ट (जीडी) आनन्द किशोर सिंह (सं. 7431020के अब जेसी-811315एल), 16 जून 2009@

@(नायब सूबेदार के पद में बिना वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले वरिष्ठता 01 जून 2009 से दी जाती है)

हवलदार/इन्ट (जीडी) विजय चौहान (सं. 7431021एम अब जेसी-811316एन), 01 जून 2009

हवलदार/इन्ट (जीडी) प्रदीप कुमार (सं. 7430835वाई अब जेसी-811317डब्ल्यू), 01 जून 2009

हवलदार/इन्ट (जीडी) जितेन्द्रा सिंह (सं. 7430944एल अब जेसी-811318वाई), 04 जुलाई 2009

हवलदार/इन्ट (जीडी) दया शंकर चतुर्वेदी (सं. 7430948एफ अब जेसी-811319एफ), 04 जुलाई 2009@

@(नायब सूबेदार के पद में बिना वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले वरिष्ठता 01 जून 2009 से दी जाती है)

हवलदार/इन्ट (जीडी) सुन्दर लाल (सं. 4069061एफ अब जेसी-811320डब्ल्यू), 08 जुलाई 2009@

@(नायब सूबेदार के पद में बिना वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले वरिष्ठता 15 जून 2009 से दी जाती है)

हवलदार/इन्ट (जीडी) रोशन लाल गूजर (सं. 2987287वाई अब जेसी-811321वाई), 13 जुलाई 2009

हवलदार/इन्ट (जीडी) प्रदीप कुमार (सं. 7430932डब्ल्यू अब जेसी-811322एफ), 04 जुलाई 2009

हवलदार/इन्ट (जीडी) देवी चरण चन्देल (सं. 3986021डब्ल्यू अब जेसी-811323के), 07 जुलाई 2009

हवलदार/इन्ट (जीडी) विजय कुमार (सं. 13750926एफ अब जेसी-811324एम), 10 जुलाई 2009

हवलदार/इन्ट (जीडी) वी शिवराज (सं. 2590727वाई अब जेसी-811325पी), 01 अगस्त 2009

हवलदार/इन्ट (जीडी) सुरिन्दर कुमार शर्मा (सं. 3987290पी अब जेसी-811326एक्स), 10 अगस्त 2009@

@(नायब सूबेदार के पद में बिना वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले वरिष्ठता 01 जुलाई 2009 से दी जाती है)

हवलदार/इन्ट (जीडी) पूरन सिंह (सं. 2986229एच अब जेसी-811329एल), 15 अगस्त 2009

हवलदार/इन्ट (जीडी) थोमस के जे (सं. 13971096एन अब जेसी-811330ए), 02 अगस्त 2009

हवलदार/इन्ट (जीडी) बिष्णु बहादुर आचर्या (सं. 5846417पी अब जेसी-811331एच), 01 अगस्त 2009

हवलदार/इन्ट (जीडी) हीरा सिंह, सेना मेडल (सं. 3387498ए अब जेसी-811332एल), 06 अगस्त 2009

हवलदार/इन्ट (जीडी) सतनाम सिंह (सं. 4465509एम अब जेसी-811333एन), 01 अगस्त 2009

हवलदार/इन्ट (जीडी) राजू राय (सं. 13751558के अब जेसी-811334डब्ल्यू), 03 अगस्त 2009

हवलदार/इन्ट (जीडी) बिहारी लाल अत्री (सं. 4558875एच अब जेसी-811335वाई), 07 अगस्त 2009

हवलदार/इन्ट (जीडी) तरसेम कुमार डोगरा (सं. 2479873के अब जेसी-811336एफ), 03 अगस्त 2009

(नायब सूबेदार के पद में बिना वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले वरिष्ठता 01 अगस्त 2009 से दी जाती है)

हवलदार/इन्ट (जीडी) उमेश पाल (सं. 2987358पी अब जेसी-811337के), 01 सितम्बर 2009

हवलदार/इन्ट (जीडी) प्रदीप कुमार सिंह (सं. 2987359एक्स अब जेसी-811338एम), 16 सितम्बर 2009@

@(नायब सूबेदार के पद में बिना वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले वरिष्ठता 01 सितम्बर 2009 से दी जाती है)

हवलदार/इन्ट (जीडी) माधवानन्द चन्डोला (सं. 4181336एल अब जेसी-811339पी), 01 सितम्बर 2009

हवलदार/इन्ट (जीडी) अजय कुमार पी (सं. 7431008एच अब जेसी-811340के), 01 सितम्बर 2009

हवलदार/इन्ट (जीडी) कृष्ण हुड्डा (सं. 7431012एल अब जेसी-811341एम), 01 सितम्बर 2009

हवलदार/इन्ट (जीडी) सुशील कुमार (सं. 7431013एन अब जेसी-811342पी), 01 सितम्बर 2009

हवलदार/इन्ट (जीडी) प्रहलाद सिंह शेखावत (सं. 7431022पी अब जेसी-811343एक्स), 01 सितम्बर 2009

हवलदार/इन्ट (जीडी) देवेन्द्र कुमार वर्मा (सं. 7431023एक्स अब जेसी-811344ए), 27 सितम्बर 2009

(नायब सूबेदार के पद में बिना वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले वरिष्ठता 19 सितम्बर 2009 से दी जाती है)

हवलदार/इन्ट (जीडी) प्रकाश जराली (सं. 2591839एल अब जेसी-811345एच), 01 जनवरी 2010

हवलदार/इन्ट (जीडी) कृष्ण मुरारी (सं. 7431024ए अब जेसी-811346एल), 13 अक्टूबर 2009

हवलदार/इन्ट (जीडी) सतीश चन्द्र (सं. 7431027एन अब जेसी-811347एन), 26 अक्टूबर 2009

हवलदार/इन्ट (जीडी) यश पाल (सं. 4181614एन अब जेसी-811348डब्ल्यू), 20 अक्टूबर 2009

हवलदार/इन्ट (जीडी) सुरेन्द्र सिंह बिष्ट (सं. 7431034के अब जेसी-811349वाई), 16 अक्टूबर 2009

हवलदार/इन्ट (जीडी) चन्द्रा राम (सं. 4181666के अब जेसी-811350एन), 24 अक्टूबर 2009

हवलदार/इन्ट (जीडी) मनोज कुमार (सं. 7431036पी अब जेसी-811351डब्ल्यू), 26 अक्टूबर 2009

(नायब सूबेदार के पद में बिना वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले वरिष्ठता 01 अक्टूबर 2009 से दी जाती है)

हवलदार/इन्ट (जीडी) सुकुमार घोष (सं. 7431037एक्स अब जेसी-811353एफ), 01 नवम्बर 2009

हवलदार/इन्ट (जीडी) शंकरजीत नायक (सं. 7431048के अब जेसी-811354के), 01 नवम्बर 2009

हवलदार/इन्ट (जीडी) दुर्ग सिंह तोमर (सं. 2885198एम अब जेसी-811355एम), 05 नवम्बर 2009

हवलदार/इन्ट (जीडी) खेडकर भागवत भीमराव (सं. 7431049एम अब जेसी-811356पी), 04 नवम्बर 2009

हवलदार/इन्ट (जीडी) रवीन्द्र सिंह जन्तवाल (सं. 4181726एन अब जेसी-811357एक्स), 01 दिसम्बर 2009

हवलदार/इन्ट (जीडी) नवीनचन्द्र सिंह (सं. 4181736एक्स अब जेसी-811358ए), 14 नवम्बर 2009

हवलदार/इन्ट (जीडी) माधो सिंह (सं. 4181747के अब जेसी-811359एच), 05 नवम्बर 2009

(नायब सूबेदार के पद में बिना वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले वरिष्ठता 01 नवम्बर 2009 से दी जाती है)

हवलदार/इन्ट (जीडी) ब्रिजेश कुमार सिंह (सं. 13616125वाई अब जेसी-811360एक्स), 22 जनवरी 2010@

@(नायब सूबेदार के पद में बिना वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले वरिष्ठता 01 दिसम्बर 2008 से दी जाती है)

हवलदार/इन्ट (जीडी) गगन बिहारी साहू (सं. 7431050एफ अब जेसी-811361ए), 26 दिसम्बर 2009

हवलदार/इन्ट (जीडी) हरिओम शर्मा (सं. 14399343एल अब जेसी-811362एच), 01 दिसम्बर 2009

हवलदार/इन्ट (जीडी) ईश्वराप्पा (सं. 13898680ए अब जेसी-811363एल), 25 दिसम्बर 2009

हवलदार/इन्ट (जीडी) श्याम नारायण झा (सं. 4267473एन अब जेसी-811364एन), 01 दिसम्बर 2009

हवलदार/इन्ट (जीडी) गुरदीप सिंह (सं. 7431017के अब जेसी-811365डब्ल्यू), 01 जनवरी 2010

(नायब सूबेदार के पद में बिना वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले वरिष्ठता 01 दिसम्बर 2009 से दी जाती है)

हवलदार/इन्ट (जीडी) चिमन लाल (सं. 7431029वाई अब जेसी-811370एफ), 01 जनवरी 2010

हवलदार/इन्ट (जीडी) राघव राम यादव (सं. 7431030एन अब जेसी-811371के), 14 जनवरी 2010@

@(नायब सूबेदार के पद में बिना वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले वरिष्ठता 01 जनवरी 2010 से दी जाती है)

हवलदार/इन्ट (जीडी) घनवत मछिन्द्रा काशिनाथ (सं. 7431040एक्स अब जेसी-811372एम), 01 जनवरी 2010

हवलदार/इन्ट (जीडी) लक्ष्मी दत्त सुयाल (सं. 4181844एफ अब जेसी-811373पी), 13 जनवरी 2010@

@(नायब सूबेदार के पद में बिना वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले वरिष्ठता 01 जनवरी 2010 से दी जाती है)

हवलदार/इन्ट (जीडी) लोकपाल सिंह (सं. 4181857वाई अब जेसी-811374एक्स), 01 जनवरी 2010

हवलदार/इन्ट (जीडी) अशोक करागी (सं. 7431055ए अब जेसी-811375ए), 01 जनवरी 2010

हवलदार/इन्ट (जीडी) तिला राम (सं. 4181952एल अब जेसी-811376एच), 01 जनवरी 2010

हवलदार/इन्ट (जीडी) गगन सिंह (सं. 4181963एक्स अब जेसी-811377एल), 01 जनवरी 2010

हवलदार/इन्ट (जीडी) खड़क सिंह (सं. 4181959पी अब जेसी-811378एन), 02 जनवरी 2010@

@(नायब सूबेदार के पद में बिना वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले वरिष्ठता 01 जनवरी 2010 से दी जाती है)

हवलदार/इन्ट (जीडी) विजय कुमार (सं. 2480498डब्ल्यू अब जेसी-811379डब्ल्यू), 01 जनवरी 2010

हवलदार/इन्ट (जीडी) रामू राम रेवर (सं. 14399527के अब जेसी-811380एल), 01 जनवरी 2010

हवलदार/इन्ट (जीडी) सतीश कुमार (सं. 2480573पी अब जेसी-811381एन), 01 जनवरी 2010

हवलदार/इन्ट (जीडी) सुरेन्द्र कुमार (सं. 7431059डब्ल्यू अब जेसी-811382डब्ल्यू), 01 जनवरी 2010

हवलदार/इन्ट (जीडी) बिश्वनाथ लेन्का (सं. 7431062डब्ल्यू अब जेसी-811383वाई), 01 जनवरी 2010

हवलदार/इन्ट (जीडी) एस के फरहद अली (सं. 7431063वाई अब जेसी-811384एफ), 01 जनवरी 2010

हवलदार/इन्ट (जीडी) देवेन्द्र प्रसाद सिंह (सं. 7431065के अब जेसी-811385के), 01 जनवरी 2010

हवलदार/इन्ट (जीडी) एम डी फकरे आलम (सं. 7431066एम अब जेसी-811386एम), 01 जनवरी 2010

हवलदार/इन्ट (जीडी) अमृत लाल (सं. 1481790एफ अब जेसी-811387पी), 02 फरवरी 2010@

@(नायब सूबेदार के पद में बिना वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले वरिष्ठता 01 फरवरी 2010 से दी जाती है)

हवलदार/इन्ट (जीडी) वेद प्रकाश चौहान (सं. 7431069ए अब जेसी-811388एक्स), 01 फरवरी 2010

हवलदार/इन्ट (जीडी) जीत कुमार (सं. 2480723ए अब जेसी-811389ए), 01 फरवरी 2010

हवलदार/इन्ट (जीडी) सुनिल कुमार पटियाल (सं. 2480730डब्ल्यू अब जेसी-811390पी), 02 फरवरी 2010@

@(नायब सूबेदार के पद में बिना वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले वरिष्ठता 01 फरवरी 2010 से दी जाती है)

हवलदार/इन्ट (जीडी) सतीश कुमार (सं. 7431072ए अब जेसी-811391एक्स), 01 फरवरी 2010

हवलदार/इन्ट (जीडी) बिष्णु दत्त (सं. 7431073एच अब जेसी-811392ए), 01 फरवरी 2010

नायब सूबेदार लिपिक के पद पर

हवलदार/लिपिक (एसडी) सुन्दर सिंह (सं. 4357838वाई अब जेसी-811121एच), 23 अक्टूबर 2007

हवलदार/लिपिक (एसडी) देव सिंह (सं. 7430424ए अब जेसी-811122एल), 15 अक्टूबर 2007

(नायब सूबेदार के पद में बिना वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले वरिष्ठता 01 अक्टूबर 2007 से दी जाती है)

हवलदार/लिपिक (एसडी) चवन सिंह लाम्बा (सं. 1457592डब्ल्यू अब जेसी-811131एम), 01 नवम्बर 2007

हवलदार/लिपिक (एसडी) ओम प्रकाश मिश्रा (सं. 7430453पी अब जेसी-811137एन), 23 जनवरी 2008@

@(नायब सूबेदार के पद में बिना वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले वरिष्ठता 01 दिसम्बर 2007 से दी जाती है)

हवलदार/लिपिक (एसडी) हरपाल सिंह (सं. 7430454एक्स अब जेसी-811159एम), 01 अप्रैल 2008

हवलदार/लिपिक (एसडी) रामजती चौधरी (सं. 7430455ए अब जेसी-811175के), 01 मई 2008

हवलदार/लिपिक (एसडी) पंकज कुमार रॉय (सं. 7430447एफ अब जेसी-811176एम), 01 मई 2008

हवलदार/लिपिक (एसडी) थोमस कुट्टी जी (सं. 7430460एल अब जेसी-811187वाई), 01 जून 2008

हवलदार/लिपिक (एसडी) संतोष कुमार आर एस (सं. 7430461एन अब जेसी-811188एफ), 10 जुलाई 2008@

@(नायब सूबेदार के पद में बिना वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले वरिष्ठता 01 जुलाई 2008 से दी जाती है)

हवलदार/लिपिक (एसडी) भैयालाल यादव (सं. 7430462डब्ल्यू अब जेसी-811217एल), 18 अगस्त 2008

हवलदार/लिपिक (एसडी) अनिल कुमार यादव (सं. 7430463वाई अब जेसी-811218एन), 15 अगस्त 2008

हवलदार/लिपिक (एसडी) जनार्दन सिंह (सं. 7430464एफ अब जेसी-811219डब्ल्यू), 16 अगस्त 2008

हवलदार/लिपिक (एसडी) कृष्णा प्रसाद गुप्ता (सं. 7430465के अब जेसी-811220एल), 15 अगस्त 2008

हवलदार/लिपिक (एसडी) अरूण कुमार घोष (सं. 14254807डब्ल्यू अब जेसी-811221एन), 16 अगस्त 2008

हवलदार/लिपिक (एसडी) हीरा लाल दास (सं. 14586556के अब जेसी-811222डब्ल्यू), 15 अगस्त 2008

हवलदार/लिपिक (एसडी) विजय कुमार उपाध्याय (सं. 7430468एक्स अब जेसी-811223वाई), 15 अगस्त 2008

हवलदार/लिपिक (एसडी) सुभाष चन्दा सिंह (सं. 7430469ए अब जेसी-811224पी), 16 अगस्त 2008

हवलदार/लिपिक (एसडी) सुरजाराम महाला (सं. 7430472ए अब जेसी-811225के), 15 अगस्त 2008

हवलदार/लिपिक (एसडी) सत्येन्द्रा सिंह (सं. 7430473एच अब जेसी-811226एम), 18 अगस्त 2008

(नायब सूबेदार के पद में बिना वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले वरिष्ठता 17 जुलाई 2009 से दी जाती है)

हवलदार/लिपिक (एसडी) बिष्णु सिंह जादौन (सं. 2982952एम अब जेसी-811241एफ), 23 अक्टूबर 2008@

@(नायब सूबेदार के पद में बिना वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले वरिष्ठता 01 अक्टूबर 2008 से दी जाती है)

हवलदार/लिपिक (एसडी) रमेश एम (सं. 7430477वाई अब जेसी-811259एक्स), 01 दिसम्बर 2008

हवलदार/लिपिक (एसडी) गोपालाकृष्ण पिल्लई (सं. 7430475एन अब जेसी-811271वाई), 11 फरवरी 2009@

@(नायब सूबेदार के पद में बिना वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले वरिष्ठता 01 दिसम्बर 2008 से दी जाती है)

हवलदार/लिपिक (एसडी) सोहन लाल (सं. 7430482के अब जेसी-811279एल), 20 मार्च 2009

हवलदार/लिपिक (एसडी) विजय बहादूर (सं. 14587384एम अब जेसी-811280ए), 04 मार्च 2009

हवलदार/लिपिक (एसडी) थिरूमलाई मोहन एस (सं. 14258681वाई अब जेसी-811281एच), 04 मार्च 2009

हवलदार/लिपिक (एसडी) प्रकाश चन्द्र (सं. 14260469ए अब जेसी-811282एल), 04 मार्च 2009

हवलदार/लिपिक (एसडी) भैंपा राम (सं. 2882666डब्ल्यू अब जेसी-811283एन), 05 मार्च 2009

(नायब सूबेदार के पद में बिना वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले वरिष्ठता 20 जनवरी 2009 से दी जाती है)

हवलदार/लिपिक (एसडी) राम दत्त यादव (सं. 14255374डब्ल्यू अब जेसी-811284डब्ल्यू), 17 अप्रैल 2009@

@(नायब सूबेदार के पद में बिना वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले वरिष्ठता 01 फरवरी 2009 से दी जाती है)

हवलदार/लिपिक (एसडी) पवन सिंह पठानिया (सं. 7431174डब्ल्यू अब जेसी-811313ए), 01 जून 2009

हवलदार/लिपिक (एसडी) प्रेम प्रसाद शर्मा (सं. 7431175वाई अब जेसी-811314एच), 01 जून 2009

हवलदार/लिपिक (एसडी) सत्यव्रत सिंह (सं. 7430471एक्स अब जेसी-811327ए), 01 अगस्त 2009

हवलदार/लिपिक (एसडी) देशमुख सुरेश हनमंतराव (सं. 7430486ए अब जेसी-811328एच), 01 अगस्त 2009

हवलदार/लिपिक (एसडी) श्रधुनाथ सिंह गूजर (सं. 7431203ए अब जेसी-811352वाई), 15 अक्टूबर 2009@

@(नायब सूबेदार के पद में बिना वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले वरिष्ठता 01 अक्टूबर 2009 से दी जाती है)

हवलदार/लिपिक (एसडी) अनिल कुमार (सं. 7431202एक्स अब जेसी-811366वाई), 01 जनवरी 2010

हवलदार/लिपिक (एसडी) ढगला राम टण्डी (सं. 4266363एम अब जेसी-811267एफ), 01 जनवरी 2010

हवलदार/लिपिक (एसडी) एम डी रूहुल अमीन (सं. 2589206वाई अब जेसी-811268के), 01 जनवरी 2010

हवलदार/लिपिक (एसडी) मोहिते मानिकराव हरिदास (सं. 14263571एन अब जेसी-811369एम), 01 जनवरी 2010

नायब सूबेदार प्रतिलिपिक के पद पर

हवलदार/प्रतिलिपिक बिजेन्द्र कुमार त्रिपाठी (सं. 14261456पी अब जेसी-811123एन), 19 अक्टूबर 2007@

@(नायब सूबेदार के पद में बिना वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले वरिष्ठता 01 अक्टूबर 2007 से दी जाती है)

हवलदार/प्रतिलिपिक रविन्द्र कुमार (सं. 1479770पी अब जेसी-811177पी), 01 मई 2008

हवलदार/प्रतिलिपिक ललित पाण्डे (सं. 15367289एल अब जेसी-811178एक्स), 01 मई 2008

नायब सूबेदार अनुवादक के पद पर

हवलदार/अनुवादक संदीप कोले (सं. 15389495पी अब जेसी-811238एफ), 25 जनवरी 2008@

@(नायब सूबेदार के पद में बिना वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले वरिष्ठता 01 जनवरी 2008 से दी जाती है)

हवलदार/अनुवादक परमार मान्जी खन्ना (सं. 15373942के अब जेसी-811237वाई), 24 जनवरी 2008@

हवलदार/अनुवादक सुनील कुमार (सं. 13694589एच अब जेसी-811239के), 24 जनवरी 2008@

@(नायब सूबेदार के पद में बिना वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले वरिष्ठता 01 जनवरी 2008 से दी जाती है)

हवलदार/अनुवादक के अरुनन (सं. 7431258के अब जेसी-811240वाई), 03 अक्टूबर 2008@

@(नायब सूबेदार के पद में बिना वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले वरिष्ठता 13 अगस्त 2008 से दी जाती है)

महेश कुमार कश्यप
डेस्क अधिकारी

थल सेना शाखा

सं. 717, दिनांक 29 नवम्बर 2010--राष्ट्रपति, निम्नलिखित पदोन्नतियां करते हैं:--

स्थायी थल सेना

सेना चिकित्सा कोर

स्थायी नायब सूबेदार (एम्बुलेन्स असिस्टेंट) के पद पर

हवलदार कमल सिंह (सं. 13955763एम अब जेसी-697144एफ), 15 अक्टूबर 2009

हवलदार राजा भईया यादव (सं. 13958147एक्स अब जेसी-697145के), 23 अक्टूबर 2009

हवलदार बसन्ता कुमार दास (सं. 13959291वाई अब जेसी-697146वाई), 20 अक्टूबर 2009

हवलदार गोपाल सिंह नेगी (सं. 13959508एक्स अब जेसी-697147पी), 29 अक्टूबर 2009

(नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2009 से दी जाती है)

हवलदार हरी ओम (सं. 13959558एच अब जेसी-697217एच), 21 नवम्बर 2009

हवलदार भिकारी राय (सं. 13959600डब्ल्यू अब जेसी-697218एल), 05 नवम्बर 2009

हवलदार बाबू पी टी (सं. 13959611एच अब जेसी-697219एन), 19 नवम्बर 2009

(नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2009 से दी जाती है)

हवलदार नवनीत कुमार सिंह (सं. 13958363एल अब जेसी-697455पी), 09 दिसम्बर 2009

हवलदार रामानुज शर्मा (सं. 13956623एम अब जेसी-697296एच), 01 दिसम्बर 2009

- हवलदार राकेश तिवारी (सं. 13959595डब्ल्यू अब जेसी-697297एल),
08 दिसम्बर 2009
- हवलदार मदन लाल (सं. 13959616एफ अब जेसी-697298एन),
07 दिसम्बर 2009
- हवलदार बशिष्ठ सिंह (सं. 13959645डब्ल्यू अब जेसी-697299डब्ल्यू),
01 दिसम्बर 2009
- हवलदार गोलाप कलिता (सं. 13959652एम अब जेसी-697300ए),
01 दिसम्बर 2009
- हवलदार अरूण कुमार मण्डल (सं. 13959648के अब जेसी-697301एच), 07 दिसम्बर 2009
- हवलदार नागेन्द्र चन्द्र राय (सं. 13959651के अब जेसी-697181एल),
01 फरवरी 2010
- (नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता
01 दिसम्बर 2009 से दी जाती है)
- हवलदार सुरेन्द्र राय (सं. 13959639एच अब जेसी-697377एच),
27 जनवरी 2010
- (नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता
06 दिसम्बर 2009 से जाएगी)
- हवलदार निरंजन दास (सं. 13959904एन अब जेसी-697456एक्स),
25 जनवरी 2010
- हवलदार लक्ष्मण नाथ (सं. 13959995एच अब जेसी-697378एल),
18 जनवरी 2010
- हवलदार राज कुमार शाक्या (सं. 13960069के अब जेसी-697371एफ), 11 जनवरी 2010
- हवलदार अभिमन्यु साहू (सं. 13960092एक्स अब जेसी-697457ए),
07 फरवरी 2010
- हवलदार वी सिथन बलराज (सं. 13960121एफ अब जेसी-697379एन), 25 जनवरी 2010
- (नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता
01 जनवरी 2010 से दी जाती है)
- हवलदार अमर नाथ सिंह (सं. 13950246वाई अब जेसी-697380एच),
01 फरवरी 2010
- (नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता
01 फरवरी 2010 से दी जाती है)
- हवलदार माबुद मण्डल (सं. 13960291एल अब जेसी-697482वाई),
03 मार्च 2010
- (नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता
01 मार्च 2010 से दी जाती है)
- हवलदार राजेन्द्र सिंह (सं. 13960314एफ अब जेसी-697540एक्स),
01 अप्रैल 2010
- हवलदार अमर सिंह (सं. 1396050डब्ल्यू अब जेसी-697506एक्स),
01 अप्रैल 2010
- (नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता
01 अप्रैल 2010 से दी जाती है)
- हवलदार नवल किशोर सिंह (सं. 13960517एल अब जेसी-697683एक्स), 01 जून 2010
- हवलदार सूरुधरमा राव (सं. 13960651डब्ल्यू अब जेसी-697565के),
03 जून 2010
- हवलदार सत्य प्रकाश उपाध्या (सं. 13960670एफ अब जेसी-697566एम), 02 जून 2010
- (नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता
01 जून 2010 से दी जाती है)
- हवलदार बिनोय बोनोरी (सं. 13960659एच अब जेसी-697684ए),
01 जुलाई 2010
- हवलदार राकेश (सं. 13960717एफ अब जेसी-697568एक्स),
03 जुलाई 2010
- हवलदार डब्बाल सिंह (सं. 13960796एफ अब जेसी-697567पी),
01 जुलाई 2010
- (नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता
01 जुलाई 2010 से दी जाती है)
- हवलदार महेश किनागी (सं. 13960986एन अब जेसी-697691डब्ल्यू), 05 अगस्त 2010
- हवलदार शंकरेप्पा कुलीकात्ती (सं. 13961020ए अब जेसी-697685एच), 02 अगस्त 2010
- हवलदार बाबू जमादार (सं. 13961021एच अब जेसी-697686एल),
02 अगस्त 2010
- हवलदार चेना राम राहर (सं. 1396107एफ अब जेसी-697687एन),
01 अगस्त 2010
- हवलदार अजय कुमार सिंह (सं. 13961305एम अब जेसी-697688डब्ल्यू), 02 अगस्त 2010
- हवलदार हरीश चन्द्र पौल (सं. 13961415एफ अब जेसी-697689वाई), 02 अगस्त 2010
- (नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता
01 अगस्त 2010 से दी जाती है)
- हवलदार टेक सिंह (सं. 13961426एन अब जेसी-697719एल),
01 सितम्बर 2010
- हवलदार सुरेश सिंह (सं. 13961829एन अब जेसी-697720ए),
01 सितम्बर 2010

हवलदार चनक्या ठाकुरिया (सं. 13961904एम अब जेसी-697721एच), 01 सितम्बर 2010

हवलदार के वी श्रीनिवासा (सं. 13961948के अब जेसी-697722एल), 03 सितम्बर 2010

(नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2010 से दी जाती है)

कुलवन्त सिंह राणा
अवर सचिव

थल सेना विभाग

सं. 718, दिनांक 29 नवम्बर 2010--राष्ट्रपति, सहर्ष निम्नलिखित पदोन्नतियां करते हैं :--

नियमित सेना

क्वचित कोर

स्थाई रिसालदार के रैंक में

नायब रिसालदार सुरेश चन्द शर्मा (जेसी-241804एन), 04 अप्रैल 2010*

*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2010 से दी जाती है)

नायब रिसालदार कुलवन्त (जेसी-241278ए), 02 मई 2010*

*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2010 से दी जाती है)

नायब रिसालदार करन सिंह कुशवाह (जेसी-241871वाई), 01 अप्रैल 2010

नायब रिसालदार शेर सिंह (जेसी-242036के), 01 अप्रैल 2010

नायब रिसालदार राम बालक यादव (जेसी-241677के), 07 अप्रैल 2010*

*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2010 से दी जाती है)

नायब रिसालदार फुल कुंवर (जेसी-242118एम), 01 अप्रैल 2010

नायब रिसालदार धीर सिंह (जेसी-242557एक्स), 01 जनवरी 2010

नायब रिसालदार जय भगवान सिंह (जेसी-242787एल), 20 मई 2010*

*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2010 से दी जाती है)

नायब रिसालदार जसबीर सिंह (जेसी-241555एन), 30 मार्च 2010*

*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2010 से दी जाती है)

नायब रिसालदार शिव सिंह (जेसी-242552एम), 04 मई 2010*

*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2010 से दी जाती है)

नायब रिसालदार गुलझारी लाल (जेसी-241557एल), 01 मई 2010

नायब रिसालदार सुरेश पाल (जेसी-242265पी), 03 जुलाई 2010*

*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 06 जून 2010 से दी जाती है)

नायब रिसालदार मीथलेश कुमार (जेसी-242452एन), 01 जनवरी 2010

नायब रिसालदार अरविन्द बाबू (जेसी-242416एच), 01 जनवरी 2010

नायब रिसालदार अशोक कुमार सिंह (जेसी-242551के), 14 जनवरी 2010*

*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2010 से दी जाती है)

नायब रिसालदार रमेश सिंह (जेसी-242349एच), 28 जून 2010*

*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 04 अप्रैल 2010 से दी जाती है)

नायब रिसालदार भीनया राम भिंवर (जेसी-241796ए), 01 अप्रैल 2010

नायब रिसालदार राजेन्द्र प्रसाद सिंह (जेसी-242401ए), 14 जनवरी 2010*

*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2010 से दी जाती है)

नायब रिसालदार जय प्रकाश (जेसी-242804ए), 15 अप्रैल 2010*

*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2010 से दी जाती है)

नायब रिसालदार सरूप सिंह (जेसी-242602वाई), 28 अप्रैल 2010*

*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2010 से दी जाती है)

नायब रिसालदार दलजीत सिंह (जेसी-242815एम), 28 मई 2010*

*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2010 से दी जाती है)

नायब रिसालदार जसदेव सिंह (जेसी-242571के), 16 मई 2010*

*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2010 से दी जाती है)

नायब रिसालदार जगदीश राम (जेसी-242277के), 03 जुलाई 2010*

*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2010 से दी जाती है)

नायब रिसालदार श्याम कुमार ओझा (जेसी-242803एक्स), 10 मई 2010 *

*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 11 मार्च 2010 से दी जाती है)

नायब रिसालदार बलबीर सिंह (जेसी-241350एल), 01 अप्रैल 2010

नायब रिसालदार मोहिन्द्र सिंह (जेसी-241929एल), 05 अप्रैल 2010 *

*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2010 से दी जाती है)

नायब रिसालदार राजेन्द्र सिंह डागर (जेसी-242651एफ), 01 अप्रैल 2010

नायब रिसालदार जगदीश चन्द (जेसी-242308वाई), 03 अगस्त 2010 *

*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2010 से दी जाती है)

नायब रिसालदार रघुबीर सिंह (जेसी-242892एफ), 29 मार्च 2010 *

*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 17 फरवरी 2010 से दी जाती है)

नायब रिसालदार नरेश कुमार (जेसी-242650वाई), 07 अप्रैल 2010 *

*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2010 से दी जाती है)

नायब रिसालदार गोपाल सिंह (जेसी-242049एफ), 07 अप्रैल 2010 *

*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2010 से दी जाती है)

नायब रिसालदार बलजीत सिंह (जेसी-242399एन), 17 अक्टूबर 2010 *

*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2009 से दी जाती है)

नायब रिसालदार सीता राम (जेसी-242421एन), 06 मई 2010 *

*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2010 से दी जाती है)

नायब रिसालदार दलबीर सिंह (जेसी-242336एल), 01 अप्रैल 2010

नायब रिसालदार राम कुमार पूनिया (जेसी-242056एक्स), 09 फरवरी 2010 *

*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2010 से दी जाती है)

नायब रिसालदार मनफूल सिंह (जेसी-243282एफ), 05 अप्रैल 2010 *

*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2010 से दी जाती है)

नायब रिसालदार बलविन्दर सिंह (जेसी-242819एच), 14 जून 2010 *

*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2010 से दी जाती है)

नायब रिसालदार बलजीत सिंह (जेसी-242820एक्स), 14 जून 2010 *

*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2010 से दी जाती है)

नायब रिसालदार हरेन्द्र सिंह (जेसी-242558एन), 01 अप्रैल 2010

नायब रिसालदार नरपत सिंह राठौड़ (जेसी-242847पी), 22 मई 2010 *

*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2010 से दी जाती है)

नायब रिसालदार सुखविन्दर सिंह (जेसी-242599के), 01 जनवरी 2010

नायब रिसालदार हरबंस लाल (जेसी-242120के), 22 अप्रैल 2010 *

*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 24 मार्च 2010 से दी जाती है)

नायब रिसालदार महावीर सिंह (जेसी-242685पी), 09 जनवरी 2010 *

*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2010 से दी जाती है)

नायब रिसालदार मलकीत सिंह (जेसी-242848एक्स), 30 अप्रैल 2010 *

*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2010 से दी जाती है)

नायब रिसालदार कुलविन्दर सिंह (जेसी-242841ए), 03 मई 2010 *

*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2010 से दी जाती है)

नायब रिसालदार राकेश सिंह (जेसी-242923डब्ल्यू), 14 जून 2010 *

*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2010 से दी जाती है)

नायब रिसालदार जगत्तर सिंह (जेसी-242589ए), 01 अप्रैल 2010

नायब रिसालदार जगबीर सिंह (जेसी-242860वाई), 11 मई 2010 *

*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2010 से दी जाती है)

नायब रिसालदार चनन सिंह (जेसी-241495डब्ल्यू), 02 जनवरी 2010 *

*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2010 से दी जाती है)

नायब रिसालदार नरेश कुमार (जेसी-242814के), 18 मई 2010 *

*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2010 से दी जाती है)

नायब रिसालदार भवानी सिंह (जेसी-242034वाई), 18 अगस्त 2010 *
 *(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2009 से दी जाती है)

नायब रिसालदार अजय कुमार एस (जेसी-242369डब्ल्यू), 08 जुलाई 2009

नायब रिसालदार आजाद सिंह (जेसी-242364एक्स), 24 जुलाई 2010 *
 *(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2009 से दी जाती है)

नायब रिसालदार चरन सिंह (जेसी-242303ए), 14 जुलाई 2010 *
 *(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2009 से दी जाती है)

नायब रिसालदार मनजीत सिंह (जेसी-242306एन), 12 मई 2010 *
 *(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2010 से दी जाती है)

नायब रिसालदार बलबीर सिंह (जेसी-242087एक्स), 20 मई 2010 *
 *(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2010 से दी जाती है)

नायब रिसालदार विनोद कुमार (जेसी-242458पी), 06 जनवरी 2010 *
 *(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2010 से दी जाती है)

नायब रिसालदार ओम प्रकाश (जेसी-242516एन), 10 जून 2010 *
 *(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2010 से दी जाती है)

नायब रिसालदार बहादुर सिंह (जेसी-242854एल), 10 जुलाई 2010 *
 *(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2010 से दी जाती है)

नायब रिसालदार बलजीत सिंह (जेसी-242598एफ), 26 नवम्बर 2010 *
 *(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 13 नवम्बर 2009 से दी जाती है)

नायब रिसालदार अशोक कुमार (जेसी-242738एच), 11 मार्च 2010 *
 *(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 08 फरवरी 2010 से दी जाती है)

नायब रिसालदार महीपाल सिंह (जेसी-242812वाई), 15 अप्रैल 2010 *
 *(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2010 से दी जाती है)

नायब रिसालदार तुलसी राम यादव (जेसी-242692एल), 10 मई 2010 *
 *(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2010 से दी जाती है)

नायब रिसालदार राजीवन पिल्लै (जेसी-2423291एच), 20 मई 2010 *
 *(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2010 से दी जाती है)

नायब रिसालदार दिनकर सालवे (जेसी-242852ए), 20 मई 2010 *
 *(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2010 से दी जाती है)

नायब रिसालदार परमजीत सिंह (जेसी-243187पी), 08 जुलाई 2010 *
 *(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2010 से दी जाती है)

नायब रिसालदार बकशीष सिंह (जेसी-242816पी), 28 अप्रैल 2010 *
 *(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2010 से दी जाती है)

नायब रिसालदार रघुवीर सिंह राठौड़ (जेसी-242489पी), 19 जून 2010 *
 *(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2010 से दी जाती है)

नायब रिसालदार महावीर सिंह (जेसी-242870एच), 03 मई 2010 *
 *(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2010 से दी जाती है)

नायब रिसालदार मोहिन्द्र सिंह (जेसी-242921एल), 01 मई 2010 *
 *(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 17 मार्च 2010 से दी जाती है)

नायब रिसालदार नारायण गनपत कनसे (जेसी-242935एल), 20 मई 2010 *
 *(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2010 से दी जाती है)

नायब रिसालदार गौतम सिंह (जेसी-242900पी), 03 जुलाई 2010 *
 *(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2010 से दी जाती है)

नायब रिसालदार लक्ष्मी चन्द (जेसी-242993पी), 03 जून 2010 *
 *(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2010 से दी जाती है)

नायब रिसालदार रमेश चन्द (जेसी-242829एम), 13 मार्च 2010 *
 *(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2009 से दी जाती है)

नायब रिसालदार राज सिंह (जेसी-242797पी), 24 अप्रैल 2010 *
 *(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2010 से दी जाती है)

नायब रिसालदार जय सिंह यादव (जेसी-243001ए), 04 जून 2010 *
 *(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2010 से दी जाती है)

नायब रिसालदार हरी राम (जेसी-242906डब्ल्यू), 24 मई 2010 *	नायब रिसालदार जोगिन्द्र सिंह (जेसी-242501एल), 20 जुलाई 2009 *
*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 03 अप्रैल 2010 से दी जाती है)	*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2010 से दी जाती है)
नायब रिसालदार रविन्द्र (जेसी-242894एम), 29 मार्च 2010 *	नायब रिसालदार राम कुमार (जेसी-243191एक्स), 15 जनवरी 2010 *
*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 17 फरवरी 2010 से दी जाती है)	*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2009 से दी जाती है)
नायब रिसालदार सुरेन्द्र सिंह (जेसी-243119एफ), 13 मार्च 2010 *	नायब रिसालदार के लक्ष्मनन (जेसी-242734एम), 25 नवम्बर 2009 *
*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2009 से दी जाती है)	*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2009 से दी जाती है)
नायब रिसालदार सुखदेव सिंह (जेसी-242947ए), 05 जून 2010 *	नायब रिसालदार अरविन्द कुमार सिंह (जेसी-242708एल), 01 जनवरी 2010
*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2010 से दी जाती है)	नायब रिसालदार देव राज शर्मा (जेसी-243166वाई), 17 मार्च 2010 *
नायब रिसालदार बलविन्दर सिंह (जेसी-243025के), 26 अप्रैल 2010 *	*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2009 से दी जाती है)
*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2010 से दी जाती है)	नायब रिसालदार राजवीर सिंह (जेसी-242798एक्स), 19 मई 2010 *
नायब रिसालदार करम वीर (जेसी-243006वाई), 20 मई 2010 *	*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2010 से दी जाती है)
*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2010 से दी जाती है)	नायब रिसालदार रोशन लाल (जेसी-242853एच), 26 मई 2010 *
नायब रिसालदार सुखदेव सिंह (जेसी-242895पी), 29 मार्च 2010 *	*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2010 से दी जाती है)
*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 17 फरवरी 2010 से दी जाती है)	नायब रिसालदार देविन्द्र कुमार (जेसी-242380पी), 01 अप्रैल 2010
नायब रिसालदार अजीत सिंह (जेसी-242689एल), 01 मई 2010	नायब रिसालदार गोविन्द सिंह चौधरी (जेसी-242881पी), 26 अप्रैल 2010 *
नायब रिसालदार रामन कुमार (जेसी-243458एफ), 20 अप्रैल 2010 *	*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2010 से दी जाती है)
*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2010 से दी जाती है)	नायब रिसालदार हरिन्द्र सिंह (जेसी-242822एच), 05 मई 2010 *
नायब रिसालदार मिथलेश कुमार झा (जेसी-243100एच), 14 जून 2010 *	*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2010 से दी जाती है)
*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2010 से दी जाती है)	नायब रिसालदार कृष्ण कान्त राठोड़ (जेसी-242491एम), 01 मई 2010
नायब रिसालदार सुखपाल (जेसी-243102एन), 14 जून 2010 *	नायब रिसालदार वी चन्द्र नायडू (जेसी-242930एम), 31 मई 2010 *
*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2010 से दी जाती है)	*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2010 से दी जाती है)
नायब रिसालदार सुरेन्द्र सिंह (जेसी-242951एच), 02 जुलाई 2010 *	नायब रिसालदार दिनेश सिंह (जेसी-242843एम), 01 जून 2010 *
*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2010 से दी जाती है)	*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2010 से दी जाती है)
नायब रिसालदार पाटील राजाराम बन्डू (जेसी-243077ए), 04 जून 2010 *	
*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2010 से दी जाती है)	

नायब रिसालदार सोम दत्त (जेसी-242936एन), 03 जून 2010*
 *(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2010 से दी जाती है)

नायब रिसालदार किशन सिंह (जेसी-242436डब्ल्यू), 14 सितम्बर 2010*
 *(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2009 से दी जाती है)

नायब रिसालदार प्रदीप कुमार (जेसी-242920एच), 20 मई 2010*
 *(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2010 से दी जाती है)

नायब रिसालदार राजवन्त सिंह (जेसी-242926के), 28 जून 2010*
 *(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2010 से दी जाती है)

नायब रिसालदार अश्वनी कुमार (जेसी-242967एन), 01 मई 2010*
 नायब रिसालदार बोटू राम (जेसी-242942एफ), 25 अप्रैल 2010*
 *(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2010 से दी जाती है)

नायब रिसालदार विरेन्द्र सिंह (जेसी-243211ए), 05 जुलाई 2010*
 *(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2010 से दी जाती है)

नायब रिसालदार रामवीर सिंह (जेसी-243076एक्स), 03 जून 2010*
 *(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2010 से दी जाती है)

नायब रिसालदार कुलदीप सिंह (जेसी-242662एन), 22 जुलाई 2010*
 *(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2009 से दी जाती है)

नायब रिसालदार काशमीर सिंह (जेसी-243152वाई), 20 मई 2010*
 *(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2010 से दी जाती है)

नायब रिसालदार रविन्द्र सिंह (जेसी-243101एल), 14 जून 2010*
 *(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2010 से दी जाती है)

नायब रिसालदार नरदेश्वर सिंह (जेसी-243030पी), 17 जून 2010*
 *(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2010 से दी जाती है)

नायब रिसालदार वीर सिंह (जेसी-242945पी), 20 अप्रैल 2010*
 *(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 17 मार्च 2010 से दी जाती है)

नायब रिसालदार सेरामन डेरमबोरयक (जेसी-242809वाई), 15 मई 2010*
 *(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2010 से दी जाती है)

नायब रिसालदार अन्नापू रेड्डी ब्रम्हा रेड्डी (जेसी-242834एक्स), 11 मई 2010*
 *(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2010 से दी जाती है)

नायब रिसालदार सरबजीत सिंह (जेसी-243192ए), 24 मई 2010*
 *(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2010 से दी जाती है)

नायब रिसालदार राम कुमार (जेसी-243040वाई), 28 मई 2010*
 *(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2010 से दी जाती है)

नायब रिसालदार ईंद्र सिंह (जेसी-242896एक्स), 03 अप्रैल 2010*
 *(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2010 से दी जाती है)

नायब रिसालदार सुभाष के वी (जेसी-243375डब्ल्यू), 14 मई 2010*
 *(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2010 से दी जाती है)

नायब रिसालदार जयबीर (जेसी-243325एल), 14 जून 2010*
 *(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2010 से दी जाती है)

नायब रिसालदार मल सिंह राठोड (जेसी-243381के), 06 मई 2010*
 *(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2010 से दी जाती है)

नायब रिसालदार विरेन्द्र कुमार यादव (जेसी-243406एल), 07 मई 2010*
 *(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2010 से दी जाती है)

नायब रिसालदार प्रताप सिंह यादव (जेसी-243326एन), 14 जून 2010*
 *(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2010 से दी जाती है)

नायब रिसालदार हरदेव सिंह ठाकुर (जेसी-242883ए), 01 जनवरी 2010*
 *(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2009 से दी जाती है)

नायब रिसालदार कुलदीप सिंह (जेसी-243338एच), 14 जून 2010 *	नायब रिसालदार मामन चन्द (जेसी-243407एन), 07 मई 2010 *
*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2010 से दी जाती है) ।	*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2010 से दी जाती है)
नायब रिसालदार मेघ सिंह राजपूत (जेसी-242983एन), 20 अप्रैल 2010 *	नायब रिसालदार कुलवन्त सिंह (जेसी-242937डब्ल्यू), 03 अप्रैल 2010 *
*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 17 मार्च 2010 से दी जाती है) ।	*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2010 से दी जाती है)
नायब रिसालदार अजीत सिंह (जेसी-243275एल), 22 मई 2010 *	नायब रिसालदार माने अशोक नारायण (जेसी-243068वाई), 03 अप्रैल 2010 *
*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2010 से दी जाती है)	*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2010 से दी जाती है)
नायब रिसालदार रामेश्वर सिंह (जेसी-242913एम), 01 जनवरी 2010 *	नायब रिसालदार राजू एस (जेसी-242633वाई), 21 मई 2010 *
*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2010 से दी जाती है)	*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2010 से दी जाती है)
नायब रिसालदार कमलेश सिंह (जेसी-243451एक्स), 20 मई 2010 *	नायब रिसालदार किंदर पाल सिंह (जेसी-243496एक्स), 06 मई 2010 *
*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2010 से दी जाती है)	*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2010 से दी जाती है)
नायब रिसालदार बाबू लाल जाट (जेसी-243169एम), 21 मई 2010 *	नायब रिसालदार चमन लाल (जेसी-242917एच), 16 मई 2010 *
*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2010 से दी जाती है)	*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 15 नवम्बर 2009 से दी जाती है)
नायब रिसालदार भाना राम (जेसी-242663डब्ल्यू), 01 अगस्त 2009 *	नायब रिसालदार अब्दुल सत्तार (जेसी-242289वाई), 03 अप्रैल 2010 *
नायब रिसालदार गोपा कुमार के (जेसी-242808डब्ल्यू), 03 अप्रैल 2010 *	*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2010 से दी जाती है)
*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 02 मार्च 2010 से दी जाती है)	नायब रिसालदार धरमेन्द्र सिंह (जेसी-243094ए), 06 अप्रैल 2010 *
नायब रिसालदार रनबीर सिंह (जेसी-243044पी), 01 मई 2010 *	*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2010 से दी जाती है)
नायब रिसालदार सुरेश कुमार वी (जेसी-243374एन), 06 मई 2010 *	नायब रिसालदार महेन्द्रा सिंह खडगा (जेसी-242912के), 20 अप्रैल 2010 *
*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2010 से दी जाती है)	*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2010 से दी जाती है)
नायब रिसालदार लखविन्द्र सिंह (जेसी-243373एल), 06 मई 2010 *	
*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2010 से दी जाती है)	
नायब रिसालदार राजेन्द्र पिल्ले जे (जेसी-242625ए), 21 मई 2010 *	
*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2010 से दी जाती है)	

जे राय चौधरी
अवर सचिव

वायु सेना मुख्यालय

सं. 719, दिनांक 30 नवम्बर 2010—सक्षम प्राधिकारी सहर्ष श्री वीरेन्द्र कुमार, नक्शा नवीस ग्रेड-1 को सशस्त्र सेना मुख्यालय एवं अंतर सेवा

संगठनों में दिनांक 09 अगस्त 2010 से मुख्य रेखाचित्र अधिकारी (ग्रुप ख राजपत्रित वेतनबंध-2, रुपए 9,300--34,800/- + 4,600/- ग्रेड पे) के पद पर, पदोन्नत करते हैं।

ए के लारोइया
उप मुख्य प्रशासनिक अधिकारी

सेना शाखा

सं. 720, दिनांक 30 नवम्बर 2011--राष्ट्रपति, सहर्ष निम्नलिखित अधिकारी की दिनांक 05 दिसम्बर 2008 से सेना चिकित्सा कोर से अल्पकालीन सेवा कमीशन से मुक्त होने की अनुमति प्रदान करते हैं और थल सेना अनुदेश 74/76 यथा संशोधित के अधीन उसी दिनांक से उन्हें स्थायी कमीशन प्रदान करते हैं :--

नियमित सेना

स्थायी कमीशन

कप्तान के पद पर

पंकज कुमार गोगोई (एमएस-15242ए) (एमआर-08769एम), एएमसी, 21 अप्रैल 2006 को वेतन और पदोन्नति के लिए वरिष्ठता 21 अक्टूबर 2002 से हो जाएगी। इसमें मास्टर आफ सर्जरी (सामान्य सर्जरी) एवम अस्पताल नियुक्ति के लिए दी गई 36 महीने की पूर्व वरिष्ठता भी शामिल है, जो सेवा निवृत्ति के लिए गिनी जाएगी परन्तु उपदान के लिए नहीं मानी जाएगी।

(भारत सरकार के राजपत्र के दिनांक 17 अक्टूबर 2009 में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का सम्बन्ध जहां तक इस अधिकारी से है रदद किया जाता है)

राष्ट्रपति, सहर्ष निम्नलिखित अधिकारी की दिनांक 30 दिसम्बर 2009 से सेना चिकित्सा कोर से अल्पकालीन सेवा कमीशन से मुक्त होने की अनुमति प्रदान करते हैं और थल सेना अनुदेश 74/76 यथा संशोधित के अधीन उसी दिनांक से उन्हें स्थायी कमीशन प्रदान करते हैं :--

नियमित सेना

स्थायी कमीशन

कप्तान के पद पर

केदार प्रदीप महादेव (एमएस-15385ए) (एमआर-08968ए), एएमसी, 22 सितम्बर 2006 को वेतन और पदोन्नति के लिए वरिष्ठता 22 सितम्बर 2004 से हो जाएगी। इसमें स्नातकोत्तर योग्यता डिप्लोमा (एनेस्थीसीयोलजी) के लिए दी गई 24 महीने की पूर्व वरिष्ठता भी शामिल है, जो सेवा निवृत्ति के लिए गिनी जाएगी परन्तु उपदान के लिए नहीं मानी जाएगी।

(भारत सरकार के राजपत्र के दिनांक 17 मई 2008 में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का सम्बन्ध जहां तक इस अधिकारी से है रदद किया जाता है)

अरूण यादव (एमएस-15350के) (एमआर-08975डब्ल्यू), एएमसी, 22 सितम्बर 2006

(भारत सरकार के राजपत्र के दिनांक 22 सितम्बर 2007 में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का सम्बन्ध जहां तक इस अधिकारी से है रदद किया जाता है)

बलजीत सिंह पूनीया (एमएस-15487डब्ल्यू) (एमआर-08981के), एएमसी, 20 मार्च 2007

(भारत सरकार के राजपत्र के दिनांक 12 जनवरी 2008 में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का सम्बन्ध जहां तक इस अधिकारी से है रदद किया जाता है)

लेफ्टिनेन्ट के पद पर

सलोनी मित्तल (एमएस-15275एल) (एमआर-08980एफ), एएमसी, 13 मार्च 2006

(भारत सरकार के राजपत्र के दिनांक 17 फरवरी 2007 में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का सम्बन्ध जहां तक इस अधिकारी से है रदद किया जाता है)

राष्ट्रपति, सहर्ष निम्नलिखित अधिकारी की दिनांक 05 दिसम्बर 2008 से सेना चिकित्सा कोर से अल्पकालीन सेवा कमीशन से मुक्त होने की अनुमति प्रदान करते हैं और थल सेना अनुदेश 74/76 यथा संशोधित के अधीन उसी दिनांक से उन्हें स्थायी कमीशन प्रदान करते हैं :--

नियमित सेना

स्थायी कमीशन

लेफ्टिनेन्ट के पद पर

धर्मेन्द्र कुमार (एमएस-15291एच) (एमआर-08978के), एएमसी, 13 मार्च 2006

(भारत सरकार के राजपत्र के दिनांक 17 फरवरी 2007 में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का सम्बन्ध जहां तक इस अधिकारी से है रदद किया जाता है)

राष्ट्रपति, सहर्ष निम्नलिखित अधिकारी की दिनांक 01 जुलाई 2009 से सेना चिकित्सा कोर से अल्पकालीन सेवा कमीशन से मुक्त होने की अनुमति प्रदान करते हैं और थल सेना अनुदेश 74/76 यथा संशोधित के अधीन उसी दिनांक से उन्हें स्थायी कमीशन प्रदान करते हैं :--

नियमित सेना

स्थायी कमीशन

फ्लाईट लेफ्टिनेन्ट के पद पर

मनीश कुमार सौधी (एमएस-15480एम एफ-28885आर) (एमआर-08976वाई), एएमसी, 22 जनवरी 2007

(भारत सरकार के राजपत्र के दिनांक 24 नवम्बर 2007 में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का सम्बन्ध जहां तक इस अधिकारी से है रदद किया जाता है)

यश पांडे

ब्रिगे

उप महानिदेशक स से चि से (मा सं)

वित्त प्रभाग

सं. 721, दिनांक 01 दिसम्बर 2010--राष्ट्रपति, रक्षा मंत्रालय (वित्त प्रभाग) में उप वित्तीय सलाहकार, श्री टी जोसफ के अधिवर्षिता की आयु प्राप्त होने पर उन्हें दिनांक 31 अक्टूबर 2010 के अपराह्न से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त करते हैं।

राष्ट्रपति, रक्षा मंत्रालय (वित्त प्रभाग) में अनुभाग अधिकारी, श्री वी के शर्मा की अधिवर्षिता की आयु प्राप्त होने पर उन्हें दिनांक 31 अक्टूबर 2010 के अपराह्न से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त करते हैं।

राष्ट्रपति, रक्षा मंत्रालय (वित्त प्रभाग) में अनुभाग अधिकारी, श्रीमती निर्मला छाबड़ा के अधिवर्षिता की आयु प्राप्त होने पर उन्हें दिनांक 31 अक्टूबर 2010 के अपराह्न से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त करते हैं।

आर सी मीना
सहायक वित्तीय सलाहकार (स्थापना)

सेना शाखा

सं. 722, दिनांक 01 दिसम्बर 2010--राष्ट्रपति, सहर्ष निम्नलिखित अधिकारियों को पदोन्नति करते हैं :--

नियमित सेवा

स्थायी कमीशन

(सेना चिकित्सा सेवा) (गैर-तकनीकी)

शुद्धि-पत्र

(एनटीआर-16734एल) चमन सिंह सिसोदिया का पर्सनल नम्बर जोकि भारत का राजपत्र संख्या-19, 12 मई, 2007 में प्रकाशित किया गया है, इसमें निम्नलिखित संशोधन किया जाता है :--

के लिए : (एनटीआर-17734एल)

पढ़ें : (एनटीआर-16734एल)

यश पांडे

ब्रिडे

उप महानिदेशक स से चि से (मा सं)

सं. 723, दिनांक 1 दिसम्बर 2010--राष्ट्रपति, निम्नलिखित पदोन्नतियां करते हैं :--

नियमित सेना

इन्फैन्ट्री

मैकानाइज्ड इन्फैन्ट्री रेजिमेंट

शुद्धि-पत्र

भारत के राजपत्र सं. 429, दिनांक 15 जून 2009 में प्रकाशित अधिसूचना सं. 32 दिनांक 08 अगस्त 2009 शीर्षक नियमित सेना उपशीर्षक "इन्फैन्ट्री और मैकानाइज्ड इन्फैन्ट्री रेजिमेंट" के नीचे निम्नलिखित संशोधन किया जाता है :--

सूबेदार के रैंक में

के स्थान पर : नायब सूबेदार पुरुषोत्तम सिंह (जेसी-4200365के)
23 अप्रैल 2009 *

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2009 से दी जाती है)

पढ़ा जाए : नायब सूबेदार पुरुषोत्तम सिंह (जेसी- 420365के).
23 अप्रैल 2009 *

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2009 से दी जाती है)

के स्थान पर : नायब सूबेदार राजेन्द्र (जेसी-4200622डब्ल्यू)
18 अप्रैल 2009 *

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2009 से दी जाती है)

पढ़ा जाए : नायब सूबेदार राजेन्द्र (जेसी-420622डब्ल्यू)
18 अप्रैल 2009 *

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2009 से दी जाती है)

जे राय चौधरी

अवर सचिव

MINISTRY OF DEFENCE

New Delhi, the 1st January 2010

DEFENCE RESEARCH AND DEVELOPMENT
ORGANISATION

No. 703, dated 23rd November 2010—The President is pleased to appoint the following temporary Scientists 'D' on probation for one year with effect from the date shown against each in the Pay Scale of Rs. 15,600—39,100/- (PB-3) with Grade Pay Rs. 7,600/- :—

Name, Establishment and Date from which on probation

Dr Sudipta Bhattacharyya, SSPL, Delhi, 03 Dec 2007

Dr Pawan Kumar Agrawala, INMAS, Delhi, 03 Apr 2008

Dr Damodar Gupta, INMAS, Delhi, 09 May 2008

Dr Kailash Manda, INMAS, Delhi, 16 Jun 2008

NARSINGH SAHU
Jt Dir (Pers)

ARMY BRANCH

No. 704, dated 23rd November 2010—The President is pleased to re-employ the under mentioned JCOs on the active list in the rank and date specified : —

REGULAR ARMY

DEFENCE SECURITY CORPS

In the rank of Sub Maj (GD)

Sub Maj Shree Bhagwan Sahu (JC-369659M), Formerly Signals, 22 Dec 2008

Sub Maj Tilak Raj (JC-518527A), Formerly Dogra Regt, 13 Jul 2009

Sub Maj Devendr Singh (JC-528191Y), Formerly Garhwal Ref, 13 Jul 2009

In the rank of Sub (GD)

Sub Vijay Singh (JC-256863X), Formerly Arty, 22 Dec 2008

Sub Satish Kumar Sharma (JC-519363F), Formerly Dogra Regt, 22 Dec 2008

Sub A Muthu (JC-224176N), Formerly Madras Regt, 25 Apr 2009

Sub Hari Mohan Jha (JC-368189A), Formerly Signals, 25 Apr 2009

Sub Daljit Singh (JC-449416P), Formerly Gren Regt, 25 Apr 2009

Sub Das EK (JC-438912W), Formerly Madras Regt, 26 Apr 2009

Sub Mohan Singh Dogra (JC-325196H), Formerly Beg (R), 13 Jul 2009

Sub Durga Bahadur Gamal Magar (JC-220362M), Formerly 8 GR, 13 Jul 2009

Sub Kashmir Singh (JC-428632P), Formerly Punjab Regt, 13 Jul 2009

Sub Avtar Singh (JC-403079M), Formerly Gurards Regt, 13 Jul 2009

Sub Jyothish Kumar S (JC-438448X), Formerly Madra Regt, 05 Sep 2009

Sub Til Bahadur Rai (JC-634396Y), Formerly 11 GR, 05 Sep 2009

Sub Devi Dutt Mishra (JC-261151Y), Formerly Arty, 07 Sep 2009

In the rank of Nb Sub (GD)

Nb Sub Jugraj Singh (JC-52008473W), Formerly Sikh Li Regt, 25 Apr 2009

Nb Sub Narain Singh (JC-449257H), Formerly Gren Regt, 25 Apr 2009

Nb Sub Tulsi Ram Gurjar (JC-40320088N), Formerly Guards Regt, 25 Apr 2009

Nb Sub Dadan Singh (JC-375505W), Formerly Signals, 28 Apr 2009

Nb Sub Mani Ram (JC-240052H), Formerly Armd Corps, 04 May 2009

Nb Sub Bhargavan Pillai (JC-298458F), Formerly Arty, 13 Jul 2009

Nb Sub Satya Pal Singh (JC-263323F), Formerly Arty, 07 Sep 2009

PRADEEP KUMAR
Under Secy

ARMY BRANCH

No. 705, dated 23 November 2010—The President is pleased to make the following promotion:

TERRITORIAL ARMY

TERRITORIAL COMMISSION

To be Lt Col

Maj S B Singh (TA-42641), (Infantry), 13 Jul 2010

Maj Rajesh Bhardwaj (TA-42684), (Infantry), 2008 Jul 2010

Maj Nitinraj Deshpande (TA-42269), (Infantry), 15 May 2010

Maj Sarkar Krishnandu (TA-42279), (Infantry), 2008 Jun 2010

JAI RAJ
Under Secy

Capt Amit Sagar (TA-42531), (Infantry), 01 May 2010

Capt B S Parihar (TA-42532), (Infantry), 12 Jun 2010

Capt S N Shimpi (TA-42590), (Infantry), 31 May 2010

JAI RAJ
Under Secy

ARMY BRANCH

No. 706, dated 24 November 2010—The President is pleased to make the promotion of the undermentioned AMC officers with effect from the date mentioned against their names:—

REGULAR ARMY

PERMANENT COMMISSION

Maj to be Lt Col

Arindam Ghosh (MR-06924K), AMC, 01 Oct 2008

R N Khan (MR-07102Y), AMC, 20 Jan 2010

Yodender Yadav (MR-2008470A), AMC, 2008 Nov 2008

T Raj Kamal (MR-07179F), AMC, 29 Jun 2010

Satyen Kumar Singh (MR-2008258H), AMC, 03 Jul 2010

Ritesh Kulkarni (MR-07787H), AMC, 09 Jul 2010

Sangram Keshari Samal (MR-2008001X), AMC, 09 Jul 2010

Rishi Raj (MR-06984Y), AMC, 06 Jan 2009

Sandipan Das Sarma (MR-07931M), AMC, 28 Oct 2009

Jayachandran N B (MR-2008323X), AMC, 20 Jan 2010

Darshan Singh Grewal (MR-07997H), AMC, 04 Feb 2010

Surg Lt Cdr to be Surg Cdr

Madhuritu Banerjee (MR-07068K), (75652K), AMC, 20 Jan 2010

P Vinny Wilson (MR-07165F), (75655T), AMC, 29 Jun 2010

YASH PANDE
Brig
Dy DGAFMS (HR)

ARMY BRANCH

No. 707, dated 24 November 2010—The President is pleased to make the following promotion:—

TERRITORIAL ARMY

TERRITORIAL COMMISSION

To be Maj

Capt M F Khan (TA-42527), (Infantry), 01 May 2010

Capt H D Singh (TA-42529), (Infantry), 11 May 2010

ARMY BRANCH

No. 72008, dated 24 November 2010—The President is pleased to make the promotion of the under mentioned AMC officer with effect from the date mentioned against him/her:—

(REGULAR ARMY)

PERMANENT COMMISSION

To be Maj

Kedar Pradeep Mahadeo (MS-15385A), (MR-2008968A), AMC, 22 Sep 2008

(MoD Notification published in Gazette of India dated 04 Apr 2009 in so far as it relates to the officer is hereby cancelled)

Arti Sawhney (MR-2008710M), 04 Mar 2008

Pankaj Kumar Gogoi (MS-15242A), (MR-2008769M), AMC, 21 Oct 2006

(MoD Notification published in Gazette of India dated 17 Apr 2010 in so far as it relates to the officer is hereby cancelled)

To be Capt

Capt Debasheesh Soumya Ranjan Das (MR-2008849K), AMC, 11 Feb 2010

Capt Srikrishna Prasad Panda (MR-2008852K), AMC, 11 Feb 2010

Capt Mohammad Schezan Iqbal (MR-2008859N), AMC, 11 Feb 2010

Saloni Mittal (MS-15275L), (MR-2008980F), AMC, 20 Feb 2007

(MoD Notification published in Gazette of India dated 2008 Sep 2007 in so far as it relates to the officer is hereby cancelled)

Dharmendra Kumar (MS-15291H), (MR-2008978K), AMC, 20 Feb 2007

(MoD Notification published in Gazette of India dated 2008 Sep 2007 in so far as it relates to the officer is hereby cancelled)

YASH PANDE
Brig
Dy DGAFMS (HR)

ARMY BRANCH

No. 709, dated 25 November 2010—The president is pleased to make the following promotions:—

REGULAR ARMY

SHORT SERVICE COMMISSION (SSCW)

Lt to be Capt

SS No, Name, Arm, Date of Seniority, Course, Revised Date of Seniority for Promotion, Date of grant of Subs rank of Capt

43938 Jyoti Khanduri, Sigs, 22 Mar 2008, SSCW-03(T), 22 Apr 2008/22 Apr 2010

43940 Jingy Joseph, EME, 22 Mar 2008, SSCW-03(T), 22 Apr 2008/22 Apr 2010

43941 Nidhi Dhanial, EME, 22 Mar 2008, SSCW-03(T), 22 Apr 2008/22 Apr 2010

43943 Divya Puri, Sigs, 22 Mar 2008, SSCW-03(T), 22 Apr 2008/22 Apr 2010

43945 Sandhya Nair, Sigs, 22 Mar 2008, SSCW-03(T), 22 Apr 2008/22 Apr 2010

SHORT SERVICE COMMISSION (WSSES)

Lt to be Capt

WS No., Name, Arm/Service

01020 Khot Poonam Jaiprakash, ASC

01038 Alifa Akbar, Jag

—19 Mar 2010

P K SHASTRI
Maj AMS-8B

ARMY BRANCH

No. 710, dated 25 November 2010—The President is pleased to make the following appointment:—

TERRITORIAL ARMY

TERRITORIAL COMMISSION

To be Lt

Jitendra Singh (TA-42713), (ASC TA), 24 Apr 2008(FN)

Janardan Patel (TA-42723), (Engr TA), 17 Sep 2008(FN)

Hemant Tyagi (TA-42725), (Engr TA), 20 Nov 2008(FN)

Yatish Kumar (TA-42729), (Engr TA), 27 Feb 2009(FN)

Sunil Kumar (TA-42730), (Engr TA), 27 Feb 2009(FN)

G C Rajashekar (TA-42734), (ASC TA), 26 May 2009(FN)

Amit Mishra (TA-42749), (Engr TA), 15 Oct 2009(FN)

Sushawant S Meshram (TA-42750), (Engr TA), 15 Oct 2009(FN)

Yadram Baghal (TA-42751), (Engr TA), 15 Oct 2009(FN)

M Khaja Mohideen (TA-42754), (ASC TA), 02 Aug 2009(AN)

Pushkar Anand (TA-42755), (ASC TA), 02 Aug 2009(AN)

Vijay Kumar Bariwal (TA-42756), (ASC TA), 02 Aug 2009(AN)

Roshan Yogesh Sakhare (TA-42757), (ASC TA), 02 Aug 2009(AN)

Sudhir Nanda (TA-42758), (ASC TA), 04 Aug 2009(FN)

Akash Deep (TA-42760), (Engr TA), 01 Feb 2010(FN)

Aijaz Ahmed Dar (TA-42761), (Infantry), 05 Jan 2010(AN)

Amit Nagarkar (TA-42762), (Infantry), 05 Apr 2010(FN)

Siddharth Jadli (TA-42764), (Infantry), 28 Apr 2010(FN)

Chandan Borgoyari (TA-42766), (Infantry), 29 Apr 2010(FN)

Ajay Alex (TA-42767), (Infantry), 30 Apr 2010(AN)

Chhatrapal Chauhan (TA-42768), (Infantry), 2008 May 2010(FN)

Prashaant (TA-42769), (Infantry), 18 May 2010(FN)

Manish Dutta (TA-42770), (Infantry), 23 May 2010(AN)

Varoon Parmar (TA-42771), (Infantry), 26 May 2010(FN)

JAI RAJ
Under Secy

ARMY BRANCH

No. 711, dated 25 November 2010—The President is pleased to make the following promotions.

REGULAR ARMY

ARMY MEDICAL CORPS

To be Subs Sub Maj (Ambulance Assistant)

Sub Gavli Shankar Bhai Chiman Bhai (JC-694971Y), 01 Sep 2009

Sub Prakash Bahadur Rana (JC-694969F), 01 Oct 2009

Sub Dulal Sinha (JC-694982L), 01 Oct 2009

Sub Dasharat Ghosh (JC-694884L), 01 Nov 2009

Sub Mohammed Harun Khan (JC-694955F), 01 Dec 2009

Sub S K Sahajahan (JC-695007K), 01 Dec 2009

Sub Jaya Kumaran Nair D (JC-695026P), 01 Dec 2009

Sub Dharam Pal Singh (JC-695044X), 01 Dec 2009

Sub Bhusnar Jagan Nath Maruti (JC-695023F), 01 Dec 2009

Sub Kulwant Singh (JC-695046H), 01 Dec 2009

Sub Nain Singh (JC-695052W), 01 Dec 2009

Sub Sidh Nath Singh (JC-695172P), 01 Jan 2010

Sub Basant Bahadur Thapa (JC-695113H), 01 Jan 2010

Sub Om Prakash (JC-695117Y), 01 Jan 2010

Sub Ajit Kumar Singh (JC-695101N), 01 Jan 2010

Sub Manoharan K N (JC-695144H), 01 Feb 2010

Sub Birendra Pandey (JC-695104P), 01 Mar 2010

K S RANA
Under Secy

CORPS OF ELECTRONICS AND MECHANICAL ENGR BRANCH

No. 712, dated 26 November 2010—The President is pleased to make the following Appointment/Promotion:—

To be Sub Clk (SD)

Rabinand Singh (JC-76002008H), 01 May 2010

To be Sub Master Tech AVF (Ele)

Navin Kumar Jha (JC-758978M), 03 Jun 2010/13 May 2010*

To be Sub Auto Tech B Veh

Kanak Chandra Nath (JC-762597H), 14 Jun 2010/01 May 2010*

Srinivasan R (JC-763344A), 01 Jun 2010

Lalit Kumar Jha (JC-763345H), 01 Jun 2010

To be Sub Master Tech Gun

Rajbir (JC-759226P), 01 May 2010

Rohtash (JC-759225F), 01 May 2010

C Devarajulu Chetty (JC-759657F), 2008 Jun 2010/01 Jun 2010*

Om Prakash Singh (JC-759232H), 01 Jun 2010

To be Sub DW

Kewal Krishan (JC-762156M), 01 May 2010

Shiv Shankar Prasad (JC-762463K), 01 Jun 2010

Brij Kant Tiwari (JC-762467A), 01 Jul 2010

Prakash Singh (JC-762166W), 01 Jul 2010

To be Sub Master Tech B Veh

Subhash Singh Kushwaha (JC-759293A), 01 Jun 2010

Shadee Khan (JC-759295L), 14 Jun 2010/01 Jun 2010*

Vinod Kumar (JC-759286K), 01 Jun 2010

Hegajuddin Sekh (JC-759292X), 14 Jun 2010/01 Jun 2010*

Doddappa Hanji (JC-759290M), 01 Jun 2010

Jayan C V (JC-759294H), 20 Jun 2010/01 Jun 2010*

K Kaleeswaran (JC-759322K), 01 Jul 2010

Ranjan Kumar Sahoo (JC-759303Y), 01 Jul 2010

Muralee Dharan Nair V (JC-759305K), 01 Jul 2010

Hemanta Kumar Dash (JC-759313H), 01 Jul 2010

Satish Kumar (JC-759215H), 01 May 2010

Gobind Narayan Prasad (JC-759519A), 28 Jun 2010/
01 Jun 2010*

Radha Mohan Patro (JC-759302W), 01 Jul 2010

To be Sub AVN Tech (Avonics)

Samir Kumar Maiti (JC-762789A), 01 Jul 2010

To be Sub SKT

Bhairaw Sharma (JC-761793W), 01 Jul 2010

Satbir Singh (JC-762227H), 01 Jul 2010

To be Sub C&J

Satya Lal Gupta (JC-760939M), 03 Jul 2010/01 Jul 2010*

Udaybir Singh (JC-762925L), 01 Jul 2010

To be Sub Master Tech Comm

Madan Lal (JC-763309X), 01 Jul 2010

Gulab Singh (JC-762816Y), 01 Jun 2010/01 May 2010*

To be Sub Master Tech A Veh

Rajesh Kumar (JC-759190F), 01 Apr 2010

To be Sub AVN Tech (AEN)

Mahendra Singh (JC-762659X), 01 Jul 2010

To be Sub Master Tech AVF (AE)

Rakesh Babu Yadav (JC-760057L), 01 Jul 2010

*Gtd ante dated seniority

To be Sub Clk (SD)

Ajay Kumar Mishra (JC-759895N), 01 Apr 2010

Surender Pal Singh (JC-760145F), 01 Jul 2010

C Ganesan (JC-760147M), 07 Jul 2010/01 Jul 2010*

Niranjan Singh (JC-760182P), 01 Jul 2010

To be Sub Master Tech (AVN/AEN)

Patil Bhausaheb Laxman (JC-759966K), 03 May 2010/
01 May 2010*

To be Sub SKT

Raghubir Singh (JC-761689H), 20 Apr 2010/01 Apr 2010*

Girish Chandra Upadhyay (JC-762226A), 01 Jul 2010

Prabhas Chandra Dora (JC-762228L), 01 Jul 2010

To be Sub Master Tech Gun

Shyam Lal (JC-759223F), 01 May 2010

Chandresh Kumar Shukla (JC-759231A), 24 Jun 2010/
01 Jun 2010*

To be Sub Master Tech B Veh

Dibyendu Chakraborty (JC-759202L), 01 Jun 2010/01 Apr
2010

Brahmanand Jha (JC-759278L), 04 Jun 2010/01 Jun 2010

Chandra Ram Kochhawa (JC-759321F), 01 Jul 2010

Suresh Giri (JC-759311X), 01 Jul 2010

Shalendra Singh (JC-759319K), 01 Jul 2010

Mali Shankar Babu (JC-763315L), 01 Jul 2010

Sistu Polayya (JC-759342X), 19 Jul 2010/01 Jul 2010*

S Satya Rao (JC-759340M), 01 Jul 2010

Arup Kumar Roy (JC-75932008X), 05 Jul 2010/01 Jul
2010*

Bahadur Singh Rawat (JC-759309A), 01 Jul 2010

Deshmukh Babu Vaman (JC-759338P), 02 Jul 2010/01 Jul
2010*

Mihir Paul (JC-763302N), 05 Jul 2010/01 Jul 2010*

Rohitashwa (JC-759314L), 01 Jul 2010

Ashok Kumar Singh (JC-759307P), 01 Jul 2010

Santosh Singh Solanki (JC-759312A), 01 Jul 2010

Palani S (JC-759316W), 01 Jul 2010

George MK (JC-759520P), 03 Jul 2010/01 Jun 2010*

To be Sub DW

Hoshiyar Singh (JC-762163H), 01 Jun 2010

Bal Chand Yadav (JC-762469L), 09 Jul 2010/01 Jul 2010*

Anokhe Lal (JC-762466X), 06 Jul 2010/01 Jul 2010*

Krishna Gopal Pandey (JC-762468H), 06 Jul 2010/01 Jul
2010*

Subramanian V (JC-762165N), 01 Jul 2010

S Antony Moun Patten (JC-762465P), 01 Jul 2010

To be Sub RT (Pandit)

Sadhu Singh (JC-754515A), 01 Jun 2010

Vinod Kumar Dwivedi (JC-753874F), 01 Apr 2010

Mohan Jee Pandey (JC-754514X), 03 Jul 2010/01 Jun
2010*

To be Sub Auto Tech A Veh

Abhimanyu Singh (JC-762761A), 03 Jun 2010/01 May
2010*

To be Sub Master Tech (Elect)

Mahesh Chandra Sharma (JC-760268N), 06 Jul 2010/
01 Jul 2010*

To be Sub Auto Tech B Veh

Niranjan Lenka (JC-763446W), 12 Jul 2010/01 Jun 2010*

Upendra Prasad Yadav (JC-763447Y), 20 Jul 2010/01 Jul
2010*

To be Sub Tech (AVN/AVONICS)

Santha Kumar D (JC-762790P), 01 Jul 2010

To be Sub Tech SA

Binod Bihari (JC-760368Y), 01 Jul 2010

To be Sub Opr & Dvr (Recovery)

Kalyan Chand (JC-755916F), 01 Jul 2010

Vijay Kumar Singh (JC-755914W), 01 Jul 2010

*Gtd ante dated seniority.

Hav To be Nb Sub SKT

Sanjeev Kumar Dubey (No. 14613890X now JC-765010K),
01 Jul 2010

Sudhir Kumar Samal (No. 14613891A now JC-765011M),
21 Jul 2010/01 Jul 2010*

Bharat Chandra Khatua (No. 14613562K now JC-
765168M), 01 Aug 2010

SK Esarrul Haque (No. 14613668W now JC-765169P),
02 Aug 2010/01 Aug 2010*

Satya Prakash Singh (No. 14610587L now JC-765172P),
01 Aug 2010

Md Alimuddin (No. 14610007L now JC-765173X), 01 Aug
2010

Hav to be Nb Sub Master Tech B Veh

Alok Kumar (No. 14610206Y now JC-765035W), 01 Jul
2010

T Mariyappan (No. 14611572P now JC-76520081L), 01 Jul
2010

Rajendra Kumar (No. 14618792F now JC-765093A), 04 Jul
2010/01 Jul 2010*

Deepak Kumar (No. 14621392A now JC-765176L), 29 Jul
2010/23 May 2010*

Ashok Kumar (No. 14618780M now JC-765181W),
04 Aug 2010/01 Aug 2010*

Muktikanta Mishra (No. 14619255H now JC-765182Y),
01 Aug 2010

Manohar Lal (No. 14619322H now JC-765183F), 03 Aug 2010/01 Aug 2010*

Hav to be Nb Sub Master Tech Comm

Geete Rajesh Dattatraya (No. 14618993A now JC-765041K), 22 Jul 2010/01 Jul 2010*

Sikander Singh (No. 14620376W now JC-765043P), 01 Jul 2010

Jayasudhan C (No. 14622565Y now JC-765121F), 02 Jul 2010/01 Jul 2010*

Damodar Singh Panwar (No. 14622915A now JC-765128L), 05 Jul 2010/01 Jul 2010*

Hav to be Nb Sub Master Tech AVN (AF)

Sudhir Singh Suman (No. 14627739X now JC-765048N), 14 Jul 2010/01 Jul 2010*

Krishna Moorthy (No. 14629144Y now JC-765149F), 01 Jul 2010

Hav to be Nb Sub AVN Tech (AVN)

Nagendra Singh Yadav (No. 14618526H now JC-765052W), 03 Jul 2010/01 Jul 2010*

Hav to be Nb Sub DVR (MT)

Jayan K (No. 14584744M now JC-765057P), 01 Jul 2010

Janmed Singh (No. 14584756F now JC-765058X), 01 Jul 2010

Hav to be Nb Sub Auto Tech B Veh

Devender Singh (No. 14569955X now JC-765075X), 01 Jul 2010

Hav to be Nb Sub Master Tech Net Working

Yashwant Singh (No. 14616157X now JC-765104F), 01 Jul 2010

Ranjan Kumar Singh (No. 14616845W now JC-765105K), 21 Jul 2010/01 Jul 2010*

Hav to be Nb Sub Master Tech Elect

Arjun Singh (No. 14620279Y now JC-765140M), 24 Jul 2010/25 Apr 2010*

Srinivas S (No. 14620337X now JC-765142X), 17 Jul 2010/23 May 2010*

Hav to be Nb Sub Master Tech OPTO Elect

Umakanta Gogoi (No. 14603957X now JC-765148Y), 16 Jul 2010/01 Jul 2010*

Hav to be Nb Sub Master Tech AVN (Elect)

Bhagirath Singh (No. 1462008307N now JC-765150W), 02 Aug 2010/01 Aug 2010*

Hav to be Nb Sub AVN Tech (AE)

Lachhi Ram (No. 14625849N now JC-765151Y), 19 Jul 2010/01 Jul 2010*

Hav to be Nb Sub Tech SA

Kartar Singh (No. 14581999F now JC-765162L), 01 Aug 2010

Pratap Chandra Mohanty (No. 14585489X now JC-765163N), 01 Aug 2010

Puran Chandra Singh Heet (No. 14594856A now JC-765164W), 01 Aug 2010

Hav to be Nb Sub Clk (SD)

Balwant Singh (No. 14587250N now JC-765175H), 02 Aug 2010/01 Aug 2010*

Sanen Brahma (No. 14589807N now JC-765248K), 02 Aug 2010/01 Aug 2010*

Hav to be Nb Sub Master Tech Gun

Lade Badari Narayana (No. 14622131Y now JC-765187X), 01 Aug 2010

*Gtd ante dated seniority.

N K KASHMIRA
Under Secy

ARMY BRANCH

No. 713, dated 26th November 2010—The President is pleased to make the following promotions :—

REGULAR ARMY

RECORDS THE MIR

To be Subs Sube Maj (GD)

Sub Saji TG (JC-419569K), 01 Mar 2010

To be Subs Sub (GD)

Nb Sub Sumer Singh (JC-420526F), 01 Apr 2010

Nb Sub Babu Ram (JC-421131M), 15 Aug 2010*

*(Granted seniority in the rank of Subs Sub wef 01 Apr 2010 without effect on pay and allowances)

Nb Sub SR Kumar (JC-421158K), 09 Aug 2010*

*(Granted seniority in the rank of Subs Sub wef 01 Apr 2010 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Kartar Singh (JC-420623Y), 03 Aug 2010*

*(Granted seniority in the rank of Subs Sub wef 01 Jun 2010 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Dilip Singh (JC-420628X), 05 Jul 2010*

*(Granted seniority in the rank of Subs Sub wef 01 Jun 2010 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Mohan Das Palathumannil (JC-420653W), 26 Jul 2010*

*(Granted seniority in the rank of Subs Sub wef 01 Jun 2010 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Madan Singh (JC-420672F), 02 Jun 2010*

*(Granted seniority in the rank of Subs Sub wef 01 Jun 2010 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Munna Singh (JC-420783Y), 01 Jun 2010

Nb Sub Shiv Chand Mahto (JC-42200834F), 04 Jul 2010*

*(Granted seniority in the rank of Subs Sub wef 01 Jun 2010 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Hariom Singh (JC-420470A), 19 Jul 2010*

*(Granted seniority in the rank of Subs Sub wef 01 Jul 2010 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Chandra Bhan Mishra (JC-420538W), 07 Aug 2010*

*(Granted seniority in the rank of Subs Sub wef 01 Jul 2010 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Raj Kumar Singh (JC-420639K), 21 Jul 2010*

*(Granted seniority in the rank of Subs Sub wef 01 Jul 2010 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Amar Singh (JC-420694A), 27 Jul 2010*

*(Granted seniority in the rank of Subs Sub wef 01 Jul 2010 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Ashok Kumar (JC-421164X), 07 Aug 2010*

*(Granted seniority in the rank of Subs Sub wef 11 Jul 2010 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Mannam Prasad Rao (JC-420436A), 04 Aug 2010*

*(Granted seniority in the rank of Subs Sub wef 01 Aug 2010 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Buddi Bahadur Gurung (JC-420568N), 10 Aug 2010*

*(Granted seniority in the rank of Subs Sub wef 01 Aug 2010 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Ganpat Singh (JC-420585N), 07 Aug 2010*

*(Granted seniority in the rank of Subs Sub wef 01 Aug 2010 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Madan Singh (JC-420635N), 23 Aug 2010*

*(Granted seniority in the rank of Subs Sub wef 01 Aug 2010 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Khiv Singh (JC-420698W), 07 Aug 2010*

*(Granted seniority in the rank of Subs Sub wef 01 Aug 2010 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Laxman Singh (JC-420699Y), 07 Aug 2010*

*(Granted seniority in the rank of Subs Sub wef 01 Aug 2010 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Mohite Jagannath Rajaram (JC-42200824X), 16 Aug 2010*

*(Granted seniority in the rank of Subs Sub wef 01 Aug 2010 without effect on pay and allowances)

THE MECHANISED INFANTRY REGIMENT

To be Subs Maj (Clerk)

Sub (Clk) Partap Singh Parasar (JC-419028H), 01 Jul 2010

To be Subs Sub (Clerks)

Nb Sub (Clk) Santosh Kumar Behera (JC-420593M), 01 Jul 2010

Nb Sub (Clk) Raj Kumar (JC-420615A), 12 Jul 2010*

*(Granted seniority in the rank of Subs Sub (Clerk) wef 01 Jul 2010 without effect on pay and allowances)

RECORDS THE MIR

To be Subs Sub Maj (RT)

Sub (RT) Ashok Kumar (JC-14320082W), 01 Jul 2010*

Sub (RT) Murli Manohar Lakhera (JC-14320080L), 02 Jul 2010*

*(Granted seniority in the rank of Sub Maj (RT) wef 01 Aug 2010 without effect on pay and allowances)

Sub (RT) Dayadhar Bhartola (JC-14320083Y), 02 Aug 2010*

*(Granted seniority in the rank of Sub Maj (RT) wef 01 Aug 2010 without effect on pay and allowances)

Sub (RT) Gajanand Sharma (JC-14320086M), 01 Aug 2010*

Sub (RT) Kamlapati (JC-14320084F), 02 Aug 2010*

*(Granted seniority in the rank of Sub Maj (RT) wef 01 Aug 2010 without effect on pay and allowances)

To be Nb Sub

Hav Sunil Kumar (No. 14918296Y now JC-421601M), 19 Jul 2010*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2010 without effect on pay and allowances)

Hav Ashwani Kumar (No. 14917560P now JC-421602P), 14 May 2010*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Apr 2010 without effect on pay and allowances)

Hav Raji Kumaran C (No. 14916311K now JC-421603X), 03 Jul 2010*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Apr 2010 without effect on pay and allowances)

Hav Vijay Kumar Chaudhary (No. 14914292L now JC-421604A), 21 Jun 2010*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 May 2010 without effect on pay and allowances)

Hav Vidya Sagar Yadav (No. 1491520080M now JC-421605H), 30 Jun 2010*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 2008 May 2010 without effect on pay and allowances)

Hav Krishan Singh (No. 14915134H now JC-421606L), 15 Jun 2010*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 2008 May 2010 without effect on pay and allowances)

Hav Chougule Tarkeshwar Birudeo (No. 14917427M now JC-421607N), 20 May 2010*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 15 May 2010 without effect on pay and allowances)

Hav Rajesh Kumar (No. 14917129W now JC-42162008W), 24 Jun 2010*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 20 May 2010 without effect on pay and allowances)

Hav Alusuri Tata Babu (No. 14915202L now JC-421609Y), 2008 Jun 2010*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 22 May 2010 without effect on pay and allowances)

Hav Subas Chandra Pal (No. 14915558Y now JC-421610N), 10 Jul 2010*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 22 May 2010 without effect on pay and allowances)

Hav Guru Prasad Medhi (No. 14914155M now JC-421611W), 2008 Jun 2010*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jun 2010 without effect on pay and allowances)

Hav Satya Pal Singh (No. 14914582H now JC-421612Y), 24 Jun 2010*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jun 2010 without effect on pay and allowances)

Hav Onkar Singh (No. 14915707F now JC-421613F), 01 Jun 2010

Hav Ramakrishna Reddy (No. 14915201H now JC-421614K), 24 Jun 2010*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jun 2010 without effect on pay and allowances)

Hav Isht Deo Singh (No. 14918051H now JC-421615M), 01 Jun 2010

Hav Balbir Singh (No. 1491820080X now JC-421616P), 02 Jun 2010*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jun 2010 without effect on pay and allowances)

Hav Praveen Kumar Mankotia (No. 14917730N now JC-421617X), 07 Jun 2010*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jun 2010 without effect on pay and allowances)

Hav Yogendra Singh (No. 14918026K now JC-421618A), 01 Jun 2010

Hav Ram Rattan (No. 14916637A now JC-421619H), 28 Jun 2010*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jun 2010 without effect on pay and allowances)

Hav Shiv Nayek Singh (No. 14916338F now JC-421620X), 24 Jul 2010*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 06 Jun 2010 without effect on pay and allowances)

Hav Gokul Chand Gurjar (No. 2986096X now JC-421621A), 2008 Jul 2010*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jul 2010 without effect on pay and allowances)

Hav Bino P Cherian (No. 14915620A now JC-421622H), 01 Jul 2010

Hav Dhrub Singh (No. 14915691F now JC-421623L), 01 Jul 2010

Hav Pandrangi Narayanappadu (No. 14915569L now JC-421624N), 01 Jul 2010

Hav P Raja Pandian (No. 14916429L now JC-421625W), 01 Jul 2010

Hav Darshan Lal (No. 14915475N now JC-421626Y), 01 Jul 2010

Hav Sunil Harihar (No. 14918188P now JC-421627F), 01 Jul 2010

Hav Subhash Chand (No. 14919222W now JC-421628K), 01 Jul 2010

Hav Sansari Sahu (No. 14919116X now JC-421629M), 01 Jul 2010

Hav Raj Pal (No. 14914420X now JC-421199N), 01 Jan 2008

Hav Arun Kumar Gupta (No. 14915631M now JC-421630F), 01 Jun 2010

Hav Ashok Kumar Singh (No. 14915003X now JC-421631K), 12 Aug 2010*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jul 2010 without effect on pay and allowances)

Hav Ramkaran Singh Baghel (No. 14918593M now JC-421632M), 30 Jul 2010*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 04 Jul 2010 without effect on pay and allowances)

Hav Satyendra Kumar (No. 14918554N now JC-421633P), 02 Aug 2010*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 11 Jul 2010 without effect on pay and allowances)

Hav Kamlesh Kumar (No. 14915347W now JC-421634X), 25 Aug 2010*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 13 Jul 2010 without effect on pay and allowances)

Hav Pyare Lal Jangir (No. 14915978Y now JC-421635A), 01 Aug 2010

Hav Mahesh Kumar (No. 14916214M now JC-421636H), 13 Aug 2010*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Aug 2010 without effect on pay and allowances)

Hav Ramayan Prasad Tiwari (No. 14914466A now JC-421637L), 02 Aug 2010*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Aug 2010 without effect on pay and allowances)

Hav Buddha Dev Sasmal (No. 14918093P now JC-421638N), 01 Aug 2010

Hav Sunil Kumar (No. 14915730P now JC-421639W), 06 Aug 2010*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Aug 2010 without effect on pay and allowances)

Hav Anu K (No. 14918018L now JC-421640L), 05 Aug 2010*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Aug 2010 without effect on pay and allowances)

Hav Vikram Singh (No. 14918066L now JC-421641N), 05 Aug 2010*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Aug 2010 without effect on pay and allowances)

Hav Nanda Ballabh Bhatt (No. 14918068W now JC-421642W), 05 Aug 2010*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Aug 2010 without effect on pay and allowances)

Hav S Radha Krishnan (No. 14914129L now JC-421643Y), 16 Aug 2010*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 12 Aug 2010 without effect on pay and allowances)

J ROY CHOWDHARY
Under Secy

ARMY BRANCH

No. 714, dated 26th November 2010—The President is pleased to make the following promotions:—

REGULAR ARMY ARMY ORDNANCE CORPS

To be Subs Sub Maj

Sub Maj (AMN Tech) Harish Chander Bhandari (JC-723681M), 01 Sep 2009

Sub Maj (AMN Tech) Bharat Pal (JC-723682P), 16 Sep 2009*

*(Granted seniority in the rank of Sub Maj wef 01 Sep 2009 without effect on pay and allowances)

Sub Maj (AMN Tech) Anil Kumar P (JC-723277X), 01 Jan 2010

Sub Maj (AMN Tech) Ashok Mahadeo Kedar (JC-723576W), 01 Apr 2009

Sub Maj Clk (SD) Charan Singh Verma (JC-723909X), 01 May 2009

Sub Maj Clk (SD) Bodda Geeta Rao (JC-724037M), 14 May 2009*

*(Granted seniority in the rank of Sub Maj wef 01 May 2009 without effect on pay and allowances)

Sub Maj Clk (SD) Anil Kumar Panwar (JC-723942P), 10 Feb 2009*

*(Granted seniority in the rank of Sub Maj wef 01 Dec 2008 without effect on pay and allowances)

Sub Maj Clk (SD) Hiran Pradhan (JC-723970F), 01 Jun 2009

Sub Maj Clk (SD) Bijay Kumar Pradhan (JC-724026A), 01 Jun 2009

Sub Maj Clk (SD) Vibhisan Yadav (JC-72420081W), 01 Aug 2009

Sub Maj Clk (SD) Bhanu Pratap Singh Verma (JC-724112L), 01 Aug 2009

Sub Maj Clk (SD) Rattan Singh (JC-724116F), 03 Aug 2009*

*(Granted seniority in the rank of Sub Maj wef 01 Jul 2009 without effect on pay and allowances)

Sub Maj Clk (SD) K David (JC-724142H), 01 Aug 2009

Sub Maj Clk (SD) Sathian Ocholi (JC-724019K), 01 Jul 2009

Sub Maj Clk (SD) Madan Mohan Sahu (JC-723996W), 05 Oct 2009*

*(Granted seniority in the rank of Sub Maj wef 01 Jun 2009 without effect on pay and allowances)

Sub Maj Clk (SD) Bimbadhara Panda (JC-72420082Y),
01 Oct 2009

Sub Maj Clk (SD) Venkateshan K (JC-724113N), 01 Oct
2009

Sub Maj Clk (SD) Bijay Kumar Das (JC-724386W),
05 Nov 2009*

*(Granted seniority in the rank of Sub Maj wef 01 Nov
2009 without effect on pay and allowances)

Sub Maj Clk (SD) MD Alam Ansari (JC-724582W),
03 Jan 2010*

*(Granted seniority in the rank of Sub Maj wef 01 Jan
2010 without effect on pay and allowances)

Sub Maj Clk (SD) John Paul F (JC-724613L), 01 Apr 2010

Sub Maj Clk (IM) Jozar Singh (JC-723907M), 01 Dec 2008

Sub Maj Clk (IM) Pratap Singh Bisht (JC-724111H),
01 Aug 2009

Sub Maj Clk (IM) Arumugham R (JC-72420084K), 21 Jul
2009*

*(Granted seniority in the rank of Sub Maj wef 01 Jul
2009 without effect on pay and allowances)

Sub Maj SKT AMN Tajwar Singh (JC-723825K), 01 May
2009

Sub Maj SKT AMN Sudrasan Jena (JC-723926X), 01 Oct
2009

Sub Maj SKT AMN Mruthyanjaya Haverimath (JC-
723915L), 01 Sep 2009

Sub Maj SKT AMN Ram Kishor Shukla (JC-724068M),
01 Feb 2010

Sub Maj SKT MT Ashok Kumar Das (JC-723925P),
01 Oct 2009

Sub Maj SKT MT Kishan Singh (JC-723917W), 12 Sep
2009*

*(Granted seniority in the rank of Sub Maj wef 01 Sep
2009 without effect on pay and allowances)

Sub Maj SKT MT Bhosle Shriram Mahadeo (JC-
723975A), 01 Dec 2009

Sub Maj SKT MT Devendra Singh Sengar (JC-723885Y),
07 Jan 2010*

*(Granted seniority in the rank of Sub Maj wef 01 Jan
2010 without effect on pay and allowances)

Sub Maj SKT MT Jiwan Kishor (JC-72420088A), 01 Jan
2010

Sub Maj SKT Sig RV Balasubramaniam (JC-723873K),
01 Jun 2009

Sub Maj DVR MT Rajbir Singh (JC-726579P), 13 Mar
2009

Sub Maj DVR Spl Harbans Singh (JC-726535X), 01 May
2009

Sub Maj SH GD Bhawani Singh (JC-726582P), 01 Oct
2009

Sub Maj SH GD Banwari Lal (JC-726721N), 01 Dec 2009

Sub Maj SH GD Banarsi Dass (JC-726517P), 01 Apr 2009

Sub Maj SH GD Rajvir Singh (JC-726467P), 23 Mar 2009*

*(Granted seniority in the rank of Sub Maj wef 13 Mar
2009 without effect on pay and allowances)

Sub Maj SH GD Ramniwas (JC-726553A), 11 May 2009*

*(Granted seniority in the rank of Sub Maj wef 01 May
2009 without effect on pay and allowances)

Sub Maj Artsn (WW) Satvir Singh (JC-724482L), 01 Oct
2009

Sub Maj Artsn (WW) Munna Lal Sah (JC-725403X),
01 May 2009

Sub Maj Artsn (WW) Bare Lal Singh (JC-724420L),
01 May 2009

To be Subs Sub

Sub AMN Tech Dipak Kumar Routh (JC-725740M),
03 Jan 2009*

*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Jan 2009
without effect on pay and allowances)

Sub AMN Tech Bhoma Ram Patel (JC-725841A), 01 Apr
2009

Sub AMN Tech Manjanah Shankariling (JC-725840X),
01 Apr 2009

Sub AMN Tech R Siva Prakasam (JC-725839H), 01 Apr
2009

Sub AMN Tech Raj Kishore Patra (JC-725956N), 10 Apr
2009*

*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Apr 2009
without effect on pay and allowances)

Sub AMN Tech Prafulla Kumar Mahapatra (JC-726056W),
01 Jun 2009

Sub AMN Tech Siba Prasad Dash (JC-725991W), 01 Jun
2009

Sub AMN Tech Suraj Bhan Yadav (JC-726244X), 01 Nov
2009

Sub AMN Tech MD Samsuzzaman (JC-726239K), 01 Oct
2009

Sub AMN Tech Jasbir Singh (JC-726114P), 01 Sep 2009

Sub AMN Tech Khirodo Chandra Jena (JC-725742X),
01 Sep 2009

Sub AMN Tech Munshi Ram (JC-726113M), 01 Sep 2009

Sub AMN Tech Prabodha Kumar Nayak (JC-726060Y),
01 Sep 2009

Sub AMN Tech Pramod Kumar (JC-726061F), 01 Sep
2009

Sub AMN Tech Pratap Singh (JC-726100P), 01 Sep 2009

Sub AMN Tech Raj Kumar Pathak (JC-725955L), 01 Sep
2009

Sub AMN Tech Rajni Kanta Borah (JC-726064P), 01 Sep
2009

Sub AMN Tech Ram Achhaiber Pandey (JC-725959F),
01 Sep 2009

Sub AMN Tech S Sundara Rajan (JC-726055N), 01 Sep
2009

Sub AMN Tech Rahim Ahmed (JC-726063M), 05 Sep
2009*

*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Sep 2009
without effect on pay and allowances)

Sub AMN Tech Arun Kumar Thakur (JC-725958Y),
06 Sep 2009*

*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Sep 2009
without effect on pay and allowances)

Sub AMN Tech Ranjan Kumar Paul (JC-726282A),
14 Jan 2010*

*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Jan 2010
without effect on pay and allowances)

Sub AMN Tech Bhoop Singh (JC-726062K), 17 Sep 2009*

*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Sep 2010
without effect on pay and allowances)

Sub AMN Tech Kunwar Singh (JC-725711X), 22 Apr
2009*

*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Jan 2009
without effect on pay and allowances)

Sub AMN Tech Phool Kumar (JC-725957W), 23 Jun 2009*

*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Jun 2009
without effect on pay and allowances)

Sub AMN Tech Nand Ram (JC-726274P), 01 Jan 2010

Sub Clk (IM) Lal Singh (JC-726566X), 01 Jan 2009

Sub Clk (IM) Santosh Kumar Jena (JC-726278L), 28 Jan
2009*

*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Sep 2008
without effect on pay and allowances)

Sub Clk (IM) Monohar Pathak (JC-726567A), 05 Feb
2009*

*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Feb 2009
without effect on pay and allowances)

Sub Clk (IM) Mal Singh Sekhawat (JC-726627K), 01 Mar
2009

Sub Clk (IM) Dinesh Kumar (JC-726648A), 01 Apr 2009

Sub Clk (IM) Namdev Hari Wadile (JC-726638W), 01 Apr
2009

Sub Clk (IM) Nazar Mohmad (JC-726640N), 01 Apr 2009

Sub Clk (IM) Chandgi Ram (JC-727235H), 01 Apr 2010

Sub Clk (IM) Chhatar Pal Singh (JC-727177K), 01 Apr
2010

Sub Clk (IM) Dinesh Chandar (JC-727170A), 01 Apr 2010

Sub Clk (IM) Narendra Singh (JC-727162F), 01 Apr 2010

Sub Clk (IM) Rabindra Nath Ganesh (JC-727226F),
01 Apr 2010

Sub Clk (IM) Ratindra Nath Mahanta (JC-727227K),
01 Apr 2010

Sub Clk (IM) Roshan Lal (JC-727159F), 01 Apr 2010

Sub Clk (IM) Sarat Chandra Mahalik (JC-727173N),
01 Apr 2010

Sub Clk (IM) Sankheswar Roy (JC-727245M), 01 Apr
2010*

Sub Clk (IM) Khiramappa Hirekudi (JC-726678X), 26 Apr
2009*

*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Apr 2009
without effect on pay and allowances)

Sub Clk (IM) Bhirgu Nath Yadav (JC-726660F), 01 May
2009

Sub Clk (IM) Chander Sekar Singh (JC-726675K), 01 May
2009

Sub Clk (IM) Dev Prasad Dey (JC-726674F), 01 May 2009

Sub Clk (IM) Dev Raj (JC-726682A), 01 May 2009

Sub Clk (IM) Kali Charan (JC-726673Y), 03 May 2009*

*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 May 2009
without effect on pay and allowances)

Sub Clk (IM) Ganga Saran Singh (JC-726683H), 06 May
2009*

*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 May 2009
without effect on pay and allowances)

Sub Clk (IM) Raj Bahadur Yadav (JC-726681X), 16 May
2009*

*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Apr 2009
without effect on pay and allowances)

Sub Clk (IM) Ashok Kumar (JC-726706Y), 01 Jun 2009

Sub Clk (IM) Awadhesh Kumar Giri (JC-726763A), 01 Jun
2009

Sub Clk (IM) Balakrishnan Pillai C (JC-726711K), 01 Jun 2009

Sub Clk (IM) Devendra Kumar Singh (JC-726782L), 01 Jun 2009

Sub Clk (IM) Karambir (JC-726709M), 01 Jun 2009

Sub Clk (IM) Mohinder Singh (JC-726713P), 01 Jun 2009

Sub Clk (IM) Nazeer M (JC-726732A), 01 Jun 2009

Sub Clk (IM) Presanna Kumar R (JC-726704N), 01 Jun 2009

Sub Clk (IM) Ram Vilas Yadav (JC-726752N), 01 Jun 2009

Sub Clk (IM) Roop Singh (JC-726714X), 01 Jun 2009

Sub Clk (IM) Soman Nair G (JC-726716H), 01 Jun 2009

Sub Clk (IM) Surya Bhadur Shukla (JC-72672008K), 01 Jun 2009

Sub Clk (IM) Shyam Baran Rajak (JC-726712M), 10 Jun 2009*

*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Jun 2009 without effect on pay and allowances)

Sub Clk (IM) Anil Kumar Pandey (JC-726821Y), 01 Jul 2009

Sub Clk (IM) Balwan Singh (JC-726791M), 01 Jul 2009

Sub Clk (IM) Dular Ram (JC-726398K), 01 Jul 2009

Sub Clk (IM) Kishori Lal (JC-726659M), 01 Jul 2009

Sub Clk (IM) Kulwant Singh (JC-726596P), 01 Jul 2009

Sub Clk (IM) Manir (JC-726800H), 01 Jul 2009

Sub Clk (IM) Om Prakash Verma (JC-726839P), 01 Jul 2009

Sub Clk (IM) Omkar Singh (JC-726801L), 01 Jul 2009

Sub Clk (IM) Pradip Kumar Singh (JC-726705W), 01 Jul 2009

Sub Clk (IM) Rajbir Singh (JC-726802N), 01 Jul 2009

Sub Clk (IM) Umed Singh (JC-726783N), 01 Jul 2009

Sub Clk (IM) Vijay Pratap Singh (JC-726749N), 02 Jul 2009*

*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Jun 2009 without effect on pay and allowances)

Sub Clk (IM) Karnail Singh (JC-726745X), 20 Jul 2009*

*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Jul 2009 without effect on pay and allowances)

Sub Clk (IM) Badan Pal Singh (JC-726914N), 01 Aug 2009

Sub Clk (IM) Bishun Kumar Singh (JC-726824M), 01 Aug 2009

Sub Clk (IM) Chaman Lal (JC-726850N), 01 Aug 2009

Sub Clk (IM) Dhurb Kumar Ray (JC-726874X), 01 Aug 2009

Sub Clk (IM) Girish Kumar (JC-726848W), 01 Aug 2009

Sub Clk (IM) Jitendra Kumar Singh (JC-726893H), 01 Aug 2009

Sub Clk (IM) Mahendra Singh (JC-726851W), 01 Aug 2009

Sub Clk Nasib Singh (IM) (JC-726868K), 01 Aug 2009

Sub Clk (IM) Om Prakash Mishra (JC-726804Y), 01 Aug 2009

Sub Clk (IM) Patit Kumar Das (IM) (JC-726870F), 01 Aug 2009

Sub Clk (IM) Ram Shanker Singh (JC-726823K), 01 Aug 2009

Sub Clk (IM) Samir Kumar Mondal (JC-726912H), 01 Aug 2009

Sub Clk (IM) Tersa Yadav (JC-726891X), 01 Aug 2009

Sub Clk (IM) Vinod Kumar (JC-726825P), 01 Aug 2009

Sub Clk (IM) Munshi Ram Yadav (JC-726898F), 01 Sep 2009

Sub Clk (IM) Narendra Kumar Singh (JC-726894L), 01 Sep 2009

Sub Clk (IM) Rajendra CV (JC-726917F), 01 Sep 2009

Sub Clk (IM) Shamsher Singh (JC-726897Y), 01 Sep 2009

Sub Clk (IM) Bir singh (JC-726895N), 01 Sep 2009

Sub Clk (IM) Jhamman Singh Yadav (JC-726896W), 03 Sep 2009*

*(Granted Seniority in the Rank of Sub wef 01 Sep 2009 without effect on pay and allowances)

Sub Clk (IM) Krishna Murari Tiwari (JC-726277H), 28 Sep 2009*

*(Granted Seniority in the Rank of Sub wef 01 Jul 2009 without effect on pay and allowances)

Sub Clk (IM) Dharambir Singh (JC-726954P), 01 Oct 2009

Sub Clk (IM) Nagendra Pratap Singh (JC-726899K), 01 Oct 2009

Sub Clk (IM) Prakash Chand (JC-726920F), 01 Oct 2009

Sub Clk (IM) Shamsher Singh (JC-726951F), 01 Oct 2009

Sub Clk (IM) Satvir Singh (JC-726876H), 01 Oct 2009

Sub Clk (IM) Virender Singh (JC-726923P), 01 Oct 2009

Sub Clk (IM) Madan Kishore Singh (JC-726924X), 15 Oct 2009*

*(Granted Seniority in the Rank of Sub wef 01 Oct 2010 without effect on pay and allowances)

Sub Clk (IM) Anil Kumar Jaiswal (JC-726925A),
20 Oct 2009*

*(Granted Seniority in the Rank of Sub wef 01 Oct 2009
without effect on pay and allowances)

Sub Clk (IM) Bikram Singh (JC-727054K), 01 Nov 2009

Sub Clk (IM) Hazari Prasad Yadav (JC-726928N),
01 Nov 2009

Sub Clk (IM) Mohan Lal (JC-726956A), 01 Nov 2009

Sub Clk (IM) Ramesh Kumar (JC-726926H), 01 Nov 2009

Sub Clk (IM) Subhash Chandra Pal (JC-726984M),
01 Nov 2009

Sub Clk (IM) Jagan Nath Ram Yadav (JC-727052M),
01 Nov 2009

Sub Clk (IM) Raja Moni T (JC-726922M), 11 Nov 2009*

*(Granted Seniority in the Rank of Sub wef 01 Oct 2009
without effect on pay and allowances)

Sub Clk (IM) Panchu Gopal Mondal (JC-726985P),
01 Dec 2009

Sub Clk (IM) Raghumani Nayak (JC-726992L), 01 Dec
2009

Sub Clk (IM) Rajbir Singh (JC-727055A), 01 Dec 2009

Sub Clk (IM) Ramashish Sharma (JC-727056H),
01 Dec 2009

Sub Clk (IM) Shamim Ahmed Khan (JC-726986X),
01 Dec 2009

Sub Clk Srikant Kumar Rout (IM) (JC-726995Y),
01 Dec 2009

Sub Clk (IM) Vijayi Ram (JC-726996F), 01 Dec 2009

Sub Clk (IM) Virendra Singh Talan (JC-727050F),
01 Dec 2009

Sub Clk (IM) Brijesh Kumar Tiwari (JC-726999P),
01 Dec 2009

Sub Clk (IM) Ajad Singh (JC-726991H), 13 Dec 2009*

*(Granted Seniority in the Rank of Sub wef 01 Dec 2009
without effect on pay and allowances)

Sub Clk (IM) Daya Nand (JC-726988H), 24 Dec 2009*

*(Granted Seniority in the Rank of Sub wef 01 Dec 2009
without effect on pay and allowances)

Sub Clk (IM) Atish Dipankar Ash (JC-726952K), 01 Jan
2010

Sub Clk (IM) Desh Raj (JC-727074L), 01 Jan 2010

Sub Clk (IM) Govind Chand (JC-727066M), 01 Jan 2010

Sub Clk (IM) Ishwar Singh (JC-727062W), 01 Jan 2010

Sub Clk (IM) Jay Prakash Yadav (JC-727067P), 01 Jan
2010

Sub Clk (IM) Radhe Shyam Singh (JC-727065K),
01 Jan 2010

Sub Clk (IM) Ram Milan Prasad (JC-726498P), 01 Jan 2010

Sub Clk (IM) Ram Ekwil Thakur (JC-727000W),
01 Jan 2010

Sub Clk (IM) Ram Rattan Prasad Yadav (JC-727057L),
01 Jan 2010

Sub Clk (IM) Range Ram Bare (JC-727059W), 01 Jan 2010

Sub Clk (IM) Ramvilash Pandit (JC-727071X), 01 Jan 2010

Sub Clk (IM) Suresh Kumar (JC-727063Y), 01 Jan 2010

Sub Clk (IM) Surinder Singh (JC-727002L), 01 Jan 2010

Sub Clk (IM) Taps Kumar Dutta (JC-726927L), 01 Jan
2010

Sub Clk (IM) Shiv Pal Singh Chauhan (JC-727051K),
06 Jan 2010*

*(Granted Seniority in the Rank of Sub wef 01 Nov 2009
without effect on pay and allowances)

Sub Clk (IM) Vedmenter Sajwal (JC-726987A), 16 Jan
2010*

*(Granted Seniority in the Rank of Sub wef 01 Jan 2010
without effect on pay and allowances)

Sub Clk (IM) Madan Lal (JC-727073H), 19 Jan 2010*

*(Granted Seniority in the Rank of Sub wef 01 Jan 2009
without effect on pay and allowances)

Sub Clk (IM) Akshaya Kumar Mohanty (JC-727096K),
01 Feb 2010

Sub Clk (IM) Jaya Prakash Pandey (JC-727090X),
01 Feb 2010

Sub Clk (IM) Mahendra Kumar Mahapatra (JC-727098P),
01 Feb 2010

Sub Clk (IM) Mohan Marandi (JC-727100F), 01 Feb 2010

Sub Clk (IM) Sarbveswar Rout (JC-727097M), 01 Feb
2010

Sub Clk (SD) Banwari Lal (JC-727117P), 01 Mar 2010

Sub Clk (IM) Birpal Singh (JC-727109W), 01 Mar 2010

Sub Clk (IM) Desai Ajita Rao Dattatray (JC-727115K),
01 Mar 2010

Sub Clk (IM) Jai Pal (JC-727105A), 01 Mar 2010

Sub Clk (IM) Nana Saheb Nadaf (JC-7271208N),
01 Mar 2010

Sub Clk (IM) Radhey Shyam (JC-727166X), 01 Mar 2010

Sub Clk (IM) Satish Chandra Upadhyay (JC-727163K),
01 Mar 2010

Sub Clk (IM) Shankar Patil (JC-727107A), 01 Mar 2010

Sub Clk (IM) Tarun Kanti Ghosh (JC-727094Y),
01 Mar 2010

Sub Clk (IM) Vishram Singh (JC-727165P), 01 Mar 2010	Sub Clk (SD) Om Prakash (JC-727119A), 01 Apr 2010
Sub Clk (IM) Pushkar Dutt Sharma (JC-726753W), 15 Mar 2010*	Sub Clk (SD) Shekhar Chandra Arya (JC-727175Y), 01 Apr 2010
*(Granted Seniority in the Rank of Sub wef 01 Jan 2010 without effect on pay and allowances)	Sub Clk (SD) Vinod Kumar Mishra (JC-727180K), 01 Apr 2010
Sub Clk (SD) Sanjeeva Kumar Mishra (JC-726307K), 03 Nov 2008*	Sub Clk (SD) Abdul Hannan (JC-727087H), 01 Mar 2010
*(Granted Seniority in the Rank of Sub wef 01 Nov 2008 without effect on pay and allowances)	Sub Clk (SD) Amar Singh (JC-727101K), 01 Mar 2010
Sub Clk (SD) Madan Singh Bijarnia (JC-726892A), 01 Aug 2009	Sub Clk (SD) Balwant Singh (JC-727146K), 01 Mar 2010
Sub Clk (SD) Md Hasin Nawaz Pradhan (JC-726872M), 01 Aug 2009	Sub Clk (SD) Dinesh Chandra Saraswat (JC-727118X), 01 Mar 2010
Sub Clk (SD) Ravinder Kumar Thakur (JC-726852Y), 01 Aug 2009	Sub Clk (SD) Nainu Singh (JC-727113Y), 01 Mar 2010
Sub Clk (SD) Viswa Kumar K (JC-726853F), 01 Aug 2009	Sub Clk (SD) Narbeshwar Pandey (JC-727161Y), 01 Mar 2010
Sub SKT MT Parameshwar Mahanta (JC-726419P), 01 Nov 2009	Sub Clk (SD) Om Prakash (JC-727116M), 01 Mar 2010
Sub Clk (SD) A Govinda Samy (JC-726997K), 01 Dec 2010	Sub Clk (SD) Pan Singh Adhikari (JC-727167A), 01 Mar 2010
Sub Clk (SD) Pusarakar Chandra Swain (JC-726957H), 01 Dec 2010	Sub Clk (SD) Ram Kumar (JC-727164M), 01 Mar 2010
Sub Clk (SD) Ashok Kumar Jena (JC-727001Y), 01 Jan 2010	Sub Clk (SD) Santosh Kumar Singh (JC-727104X), 01 Mar 2010
Sub Clk (SD) Karam Singh Kashyap (JC-727058N), 01 Jan 2010	Sub Clk (SD) Saroj Kumar Choudhary (JC-727114F), 01 Mar 2010
Sub Clk (SD) Pitam Singh (JC-727004M), 01 Jan 2010	Sub Clk (SD) Satya Pal Singh (JC-727111N), 01 Mar 2010
Sub Clk (SD) Rajender Kumar (JC-727069A), 01 Jan 2010	Sub Clk (SD) Shashikant Rai (JC-727110L), 01 Mar 2010
Sub Clk (SD) Shreedhara Kurup G (JC-727005P), 01 Jan 2010	Sub Clk (SD) Shishu Pal Singh (JC-727112W), 02 Mar 2010*
Sub Clk (SD) V Siva Prakasam (JC-727060L), 01 Jan 2010	*(Granted Seniority in the Rank of Sub wef 01 Mar 2010 without effect on pay and allowances)
Sub Clk (SD) Vijendra Kumar Dwivedi (JC-727064F), 01 Jan 2010	Sub SKT Amn Inder Singh Bhakuni (JC-725613X), 01 May 2008
Sub Clk (SD) Viswanathan B (JC-727061N), 01 Jan 2010	Sub SKT Amn Yadram Singh (JC-726132X), 01 Mar 2009
Sub Clk (SD) Om Prakash Sewda (JC-727078F), 01 Feb 2010	Sub SKT Amn Devender Singh (JC-726295L), 01 Apr 2009
Sub Clk (SD) Prakash Chand (JC-727075N), 01 Feb 2010	Sub SKT Amn Ramawatar Singh (JC-726095P), 22 Apr 2009*
Sub Clk (SD) Rakesh Kumar Singh (JC-727077Y), 01 Feb 2010	*(Granted Seniority in the Rank of Sub wef 01 Mar 2009 without effect on pay and allowances)
Sub Clk (SD) Ram Narain Yadav (JC-727072A), 01 Feb 2010	Sub SKT Amn K Kanniah (JC-7263208X), 01 Aug 2009
Sub Clk (SD) Randhir Singh Yadav (JC-727079K), 01 Feb 2010	Sub SKT Amn Vincent Donbosco M (JC-726358H), 17 Aug 2009*
Sub Clk (SD) Kapil Dev Yadav (JC-727252H), 01 Apr 2010	*(Granted Seniority in the Rank of Sub wef 01 Aug 2009 without effect on pay and allowances)
Sub Clk (SD) Narayan Roul (JC-727174W), 01 Apr 2010	Sub SKT Amn Rajender Singh (JC-726380N), 01 Sep 2009
	Sub SKT Amn Shree Prakash Singh (JC-726339X), 01 Sep 2009

Sub SKT Amn Suresh Kumar Saini (JC-726394N), 01 Sep 2009

Sub SKT Amn Satyavir Singh Nehra (JC-726356X), 07 Sep 2009*

*(Granted Seniority in the Rank of Sub wef 01 Aug 2009 without effect on pay and allowances)

Sub SKT Amn Balvinder Singh (JC-726381W), 14 Sep 2009*

*(Granted Seniority in the Rank of Sub wef 01 Sep 2009 without effect on pay and allowances)

Sub SKT Amn Balwan Singh (JC-726387X), 01 Oct 2009

Sub SKT Amn Randhir Singh (JC-726388A), 01 Oct 2009

Sub SKT Amn Prasant Kumar Dash (JC-726210K), 08 Apr 2009*

*(Granted Seniority in the Rank of Sub wef 01 Apr 2009 without effect on pay and allowances)

Sub SKT Amn Ramadhar Kushwaha (JC-726662M), 01 Apr 2010

Sub SKT Engr Madhukar Singh (JC-725019H), 01 Mar 2009

Sub SKT Engr Prakash Singh (JC-726965P), 01 Mar 2009

Sub SKT Engr Ram Charan Singh Verma (JC-727008H), 01 May 2009

Sub SKT GS&C Prem Shankar (JC-726204W), 01 Apr 2009

Sub SKT GS&C Ram Bachan Choudhary (JC-726179H), 01 Apr 2009

Sub SKT GS&C Xaviour V (JC-726209P), 01 Apr 2009

Sub SKT GS&C Bhanwar Lal Jat (JC-726237F), 13 Apr 2009*

*(Granted Seniority in the Rank of Sub wef 01 Apr 2009 without effect on pay and allowances)

Sub SKT GS&C Sasidharan Nair K (JC-726310P), 09 May 2009*

*(Granted Seniority in the Rank of Sub wef 01 May 2009 without effect on pay and allowances)

Sub SKT GS&C Narad Singh Yadava (JC-726301N), 01 Aug 2009

Sub SKT GS&C Ram Nivas Ravaldia (JC-726338P), 01 Aug 2009

Sub SKT GS&C Subhash Chandra Sahu (JC-726382Y), 01 Aug 2009

Sub SKT GS&C Sukhbir Singh (JC-726309A), 01 Aug 2009

Sub SKT GS&C Shyam Singh (JC-726307P), 01 Aug 2009*

*(Granted Seniority in the Rank of Sub wef 01 Jul 2009 without effect on pay and allowances)

Sub SKT GS&C Birendra Kumar Sagar (JC-726351Y), 01 Jun 2009

Sub SKT GS&C Krishnanand Kapri (JC-726336K), 01 Jun 2009

Sub SKT GS&C Prahlad Tiwari (JC-726337M), 19 Jun 2009*

*(Granted Seniority in the Rank of Sub wef 01 Jun 2009 without effect on pay and allowances)

Sub SKT GS&C Bhupinder Singh (JC-726206F), 01 Jul 2009

Sub SKT GS&C Waghmode Sadashiv Nandao (JC-726306M), 01 Jul 2009

Sub SKT GS&C Gavade Baba Saheb (JC-726303Y), 21 Jul 2009*

*(Granted Seniority in the Rank of Sub wef 01 Jun 2009 without effect on pay and allowances)

Sub SKT GS&C Tukaram Madhu Kale (JC-726304F), 17 Aug 2009*

*(Granted Seniority in the Rank of Sub wef 01 Jun 2009 without effect on pay and allowances)

Sub SKT GS&C Chaman Lal (JC-726359L), 01 Sep 2009

Sub SKT GS&C Bhagwan Singh Dhami (JC-726375H), 01 Oct 2009

Sub SKT GS&C Shiv Kumar (JC-726363N), 01 Oct 2009

Sub SKT GS&C Aloke Kumar Dhar (JC-726425H), 01 Dec 2009

Sub SKT GS&C Md Nizimuddin (JC-726469A), 01 Dec 2009

Sub SKT GS&C Nikhil Chandra Biswas (JC-726499A), 01 Dec 2009

Sub SKT GS&C Mahipal Singh (JC-726537H), 01 Jan 2010

Sub SKT GS&C Om Prakash Asat (JC-726465K), 01 Jan 2010

Sub SKT GS&C P Birendra Singha (JC-726501K), 01 Jan 2010

Sub SKT GS&C Samarendra Day (JC-726466N), 01 Jan 2010

Sub SKT GS&C Chanchal Singh Karki (JC-726515K), 18 Jan 2010*

*(Granted Seniority in the Rank of Sub wef 01 Jan 2010 without effect on pay and allowances)

Sub SKT GS&C Ramesh Chander (JC-726546L), 01 Feb 2010

Sub SKT GS&C Suresh Chand (JC-726529K), 01 Feb 2010

Sub SKT GS&C Surya Nath Yadav (JC-726545F), 01 Feb 2010

Sub SKT GS&C Adarsh Kumar (JC-726609F), 01 Mar 2010

Sub SKT GS&C Chhotu Ram (JC-726607W), 01 Mar 2010
 Sub SKT GS&C Haripal Singh (JC-726651A), 01 Mar 2010
 Sub SKT GS&C Inder Singh Pathania (JC-726610W), 01 Mar 2010

Sub SKT GS&C Pranab Das (JC-726816N), 01 Mar 2010

Sub SKT GS&C Ram Niwas (JC-726657F), 01 Mar 2010

Sub SKT GS&C Ram Pal (JC-726630K), 01 Mar 2010

Sub SKT GS&C Vijai Singh Negi (JC-726632P), 01 Mar 2010

Sub SKT GS&C Hem Karan Singh (JC-726685N), 05 Mar 2010*

*(Granted Seniority in the Rank of Sub wef 01 Mar 2010 without effect on pay and allowances)

Sub SKT GS&C Ganesh Dutt (JC-726661K), 01 Apr 2010

Sub SKT GS&C Rakesh Kumar Pandey (JC-726643F), 01 Apr 2010

Sub SKT GS&C Ram Shabad Yadav (JC-726701A), 01 Apr 2010

Sub SKT GS&C Rohtash Singh (JC-726644K), 01 Apr 2010

Sub SKT GS&C Tarsem Lal (JC-726693M), 01 Apr 2010

Sub Dvr MT Rajendra Singh (JC-725902M), 26 Feb 2009*

*(Granted Seniority in the Rank of Sub wef 01 Feb 2009 without effect on pay and allowances)

Sub SKT MT Amarnath Singh (JC-727213K), 05 Mar 2009*

*(Granted Seniority in the Rank of Sub wef 01 Oct 2008 without effect on pay and allowances)

Sub SKT MT Davinder Singh (JC-726318F), 01 Apr 2009

Sub SKT MT Gyanendra Sharma (JC-726266M), 08 Apr 2009*

*(Granted Seniority in the Rank of Sub wef 01 Apr 2009 without effect on pay and allowances)

Sub SKT MT Jai Prakash (JC-726205Y), 24 Apr 2009*

*(Granted Seniority in the Rank of Sub wef 01 Apr 2009 without effect on pay and allowances)

Sub SKT MT Prahallad Lenka (JC-726045K), 25 Apr 2009*

*(Granted Seniority in the Rank of Sub wef 01 Feb 2009 without effect on pay and allowances)

Sub SKT MT Rabi Shankar Prasad Singh (JC-726238K), 01 May 2009

Sub SKT MT Sher Singh (JC-726297W), 16 May 2009*

*(Granted Seniority in the Rank of Sub wef 01 May 2009 without effect on pay and allowances)

Sub SKT MT Subhash Chand Sharma (JC-726298Y), 18 May 2009*

*(Granted Seniority in the Rank of Sub wef 01 May 2009 without effect on pay and allowances)

Sub SKT MT J Raja Sekharan Nair (JC-726302W), 18 Jul 2009*

*(Granted Seniority in the Rank of Sub wef 01 Jun 2009 without effect on pay and allowances)

Sub SKT MT Bijay Bir Singh (JC-726352F), 01 Aug 2009

Sub SKT MT Dinesh Chandra (JC-726379Y), 01 Aug 2009

Sub SKT MT Arun Kumar Pal (JC-726390X), 01 Oct 2009

Sub SKT MT Rajeev Shakar Awasthi (JC-726362L), 01 Oct 2009

Sub SKT MT Bijay Kumar Giri (JC-726404M), 01 Nov 2009

Sub SKT MT Dalbeer Singh (JC-726402F), 01 Nov 2009

Sub SKT MT Yogender Singh (JC-726403K), 03 Nov 2009*

*(Granted Seniority in the Rank of Sub wef 01 Nov 2009 without effect on pay and allowances)

Sub SKT MT Manohar Lal Bishnoi (JC-726405P), 01 Dec 2009

Sub SKT MT Nabi Hasan Ansari (JC-726455A), 01 Dec 2009

Sub SKT MT Sunil Chatterjee (JC-726423X), 01 Dec 2009

Sub SKT MT Nilendra Kumar Maharaj (JC-726420K), 07 Dec 2009*

*(Granted Seniority in the Rank of Sub wef 01 Dec 2009 without effect on pay and allowances)

Sub SKT MT Nar Singh Pal Yadav (JC-726508N), 01 Jan 2010

Sub SKT MT Raj Kumar (JC-726512W), 10 Jan 2010*

*(Granted Seniority in the Rank of Sub wef 01 Jan 2010 without effect on pay and allowances)

Sub SKT MT Dilip Kumar Pal (JC-726421M), 04 Jan 2010*

*(Granted Seniority in the Rank of Sub wef 01 Dec 2009 without effect on pay and allowances)

Sub SKT MT Rattan Chand (JC-726482K), 16 Jan 2010*

*(Granted Seniority in the Rank of Sub wef 01 Jan 2010 without effect on pay and allowances)

Sub SKT MT Ashok Kumar (JC-726483M), 01 Feb 2010

Sub SKT MT Balvir Singh (JC-726573N), 01 Feb 2010

Sub SKT MT Murlidhar Pandey (JC-726502M), 01 Feb 2010

Sub SKT MT Pohap Singh (JC-726568H), 01 Feb 2010

Sub SKT MT Ram Narain Kureel (JC-726572L), 01 Feb 2010

Sub SKT MT Ravinder Pal Singh (JC-726516M), 01 Feb 2010

Sub SKT MT Subhash Chandra (JC-726530Y), 01 Feb 2010

Sub SKT MT Vijayan V (JC-726531F), 01 Feb 2010

Sub SKT MT Anil Kumar T (JC-726611Y), 01 Mar 2010

Sub SKT MT Bhupender Singh (JC-726608Y), 01 Mar 2010

Sub SKT MT Shyam Bihari Mishra (JC-726641W), 01 Mar 2010

Sub SKT MT Nani Gopal Singha (JC-726571H), 30 Mar 2010*

*(Granted Seniority in the Rank of Sub wef 01 Feb 2010 without effect on pay and allowances)

Sub SKT MT Madan Singh Tanwar (JC-726694P), 01 Apr 2010

Sub SKT Sig Him Bahadur Bhandari (JC-726014K), 01 Mar 2009

Sub SKT Sig Suresh Sharma (JC-726021A), 30 Mar 2009*

*(Granted Seniority in the Rank of Sub wef 01 Mar 2009 without effect on pay and allowances)

Sub SKT Sig Md Aman (JC-726319K), 01 Apr 2010

Sub SKT Sig Sunder Singh Satypal (JC-726155Y), 02 Apr 2009*

*(Granted Seniority in the Rank of Sub wef 01 Mar 2009 without effect on pay and allowances)

Sub SKT Sig Sukh Charan (JC-726050P), 04 Apr 2009*

*(Granted Seniority in the Rank of Sub wef 01 Apr 2009 without effect on pay and allowances)

Sub SKT Sig Suma Sagar B (JC-726300L), 01 May 2009

Sub SKT Sig Ashok Kumar (JC-725932K), 25 Jul 2009*

*(Granted Seniority in the Rank of Sub wef 01 Jul 2009 without effect on pay and allowances)

Sub SKT Sig Suresh Singh Mehara (JC-726013F), 01 Aug 2009

Sub SKT Sig Surender Singh (JC-726386P), 05 Sep 2009*

*(Granted Seniority in the Rank of Sub wef 01 Sep 2009 without effect on pay and allowances)

Sub SKT Sig Chotu Singh Pundir (JC-726401Y), 01 Oct 2009

Sub SKT Sig Paul MJ (JC-726395W), 01 Oct 2009

Sub SKT Sig Raj Kumar (JC-726376L), 01 Oct 2009

Sub SKT Sig Subhash Chand (JC-726361H), 01 Oct 2009

Sub SKT Wep Aram Singh (JC-725827N), 01 Jan 2009*

*(Granted Seniority in the Rank of Sub wef 01 Oct 2008 without effect on pay and allowances)

Sub SKT Wep Mahesh Chandra Dubey (JC-725799M), 01 Jan 2009*

*(Granted Seniority in the Rank of Sub wef 01 Oct 2008 without effect on pay and allowances)

Sub SKT Wep Basanta Kumar Jena (JC-726037L), 01 Feb 2009

Sub SKT Wep Phool Chand Yadav (JC-72620086N), 01 Mar 2009

Sub SKT Wep Rampyare Singh Yadav (JC-726104L), 01 Mar 2009

Sub SKT Wep Anup Singh (JC-726092F), 08 Mar 2009*

*(Granted Seniority in the Rank of Sub wef 01 Mar 2009 without effect on pay and allowances)

Sub SKT Wep Mohindra Nath Behera (JC-725903P), 30 Mar 2009*

*(Granted Seniority in the Rank of Sub wef 01 Feb 2009 without effect on pay and allowances)

Sub SKT Wep Ramraj Pal (JC-725885X), 02 Apr 2009*

*(Granted Seniority in the Rank of Sub wef 01 Jan 2009 without effect on pay and allowances)

Sub SKT Wep Ashok Kumar (JC-726360A), 01 Sep 2009

Sub SKT Wep Ghanshyam Malkani (JC-726353K), 24 Sep 2009*

*(Granted Seniority in the Rank of Sub wef 01 Aug 2009 without effect on pay and allowances)

Sub SKT Wep Sube Singh (JC-726389H), 01 Oct 2009

Sub SKT Wep Fanibhusan Singha (JC-726513Y), 01 Jan 2010

Sub SKT Wep Mohammad Sahjahan (JC-726684L), 01 Mar 2010

Sub SKT Wep Narendra Singh (JC-726500F), 01 Jan 2010

Sub SKT Wep Shamser Singh (JC-726629P), 01 Mar 2010

Sub Dvr Spl Ajit Kumar Choubey (JC-727456P), 01 Jun 2009

Sub Dvr Spl Himangshu Deb (JC-727519M), 01 Jun 2009

Sub Dvr Spl Nilendu Jena (JC-727331X), 01 Jun 2009

Sub Dvr Spl Rajender Singh (JC-727455M), 01 Jun 2009

Sub Dvr Spl Ramesan A (JC-727332A), 01 Jun 2009

Sub Dvr Spl Ramesh Chander (JC-727457X), 01 Jun 2009

Sub Dvr Spl Subhash Chandra Roy (JC-727458A), 01 Jun 2009

Sub Dvr Spl Harbans Singh (JC-727430A), 04 Jun 2009*
 *(Granted Seniority in the Rank of Sub wef 01 Jun 2009 without effect on pay and allowances)

Sub Dvr Spl Indra Singh Ghatany (JC-727499K), 21 Jun 2009*
 *(Granted Seniority in the Rank of Sub wef 01 Jun 2009 without effect on pay and allowances)

Sub Dvr Spl Shiv Kumar (JC-727520F), 01 Aug 2009

Sub Dvr Spl Vishwanath Vishwakarma (JC-727518K), 01 Aug 2009

Sub Sht Devendra Ram Tripathi (JC-727342K), 01 Jun 2009

Sub Sht Janmejay Moduli (JC-727267L), 01 May 2009

Sub Sht Mohar Singh (JC-727209F), 01 May 2009

Sub Sht Shive Shanker Singh Kushawaha (JC-727466Y), 01 Sep 2009

Sub SH GD Jhak Bahadur Pun (JC-727433N), 01 Jun 2009

Sub SH GD Kaniya Lal (JC-727414H), 01 Jun 2009

Sub SH GD Krishna Kumar Singh (JC-727379L), 01 Jun 2009

Sub SH GD Nandu Saw (JC-727413A), 01 Jun 2009

Sub SH GD Ram Asyaray Singh (JC-727460X), 01 Jun 2009

Sub SH GD Ramakamble Parit (JC-727412X), 01 Jun 2009

Sub SH GD Sunil Kumar (JC-727478N), 03 Jun 2009*
 *(Granted Seniority in the Rank of Sub wef 01 Jun 2009 without effect on pay and allowances)

Sub SH GD Panchanan Singh (JC-727137H), 01 Jul 2009

Sub SH GD Akadi Venkappa Bhimappa (JC-727459H), 23 Jun 2009*
 *(Granted Seniority in the Rank of Sub wef 01 Jun 2009 without effect on pay and allowances)

Sub SH GD Sri Niwas Bharadwaj (JC-727500N), 24 Jul 2009*
 *(Granted Seniority in the Rank of Sub wef 01 Jul 2009 without effect on pay and allowances)

Sub SH GD Ajmeri Khan (JC-727463L), 01 Sep 2009

Sub SH GD Jagat Bahadur Rana (JC-727462H), 01 Sep 2009

Sub SH GD Moola Ram (JC-727464N), 01 Sep 2009

Sub SH GD Ishawar Chand Singh (JC-727432L), 26 Sep 2009*
 *(Granted Seniority in the Rank of Sub wef 01 Jul 2009 without effect on pay and allowances)

Sub SH GD Kailash Kumar (JC-727465W), 01 Oct 2009

Sub SH GD Om Prakash (JC-727461A), 01 Oct 2009

Sub SH GD Chandra Bahadur Thapa (JC-727505M), 01 Dec 2009

Sub SH GD Sanap Vanant Apparao (JC-727479W), 01 Dec 2009

Sub SH GD Sachidanand Prasad Singh (JC-727480L), 20 Dec 2009*
 *(Granted Seniority in the Rank of Sub wef 01 Dec 2009 without effect on pay and allowances)

Sub SH GD Ashim Karmakar (JC-727501W), 01 Jan 2010

Sub SH GD Suresh Kumar Rai (JC-727481N), 01 Jan 2010

Sub SH GD Asit Biswas (JC-727482W), 15 Jan 2010*
 *(Granted Seniority in the Rank of Sub wef 01 Jan 2010 without effect on pay and allowances)

Sub SH GD Ram Bharose Lal (JC-727477L), 01 Feb 2010

Sub SH GD Babaji Sethi (JC-727506P), 01 Apr 2010

Sub SH GD Surat Singh (JC-727474X), 01 Apr 2010

Sub Tlr (U) Badan Singh Pal (JC-727593N), 03 Jul 2009*
 *(Granted Seniority in the Rank of Sub wef 01 Oct 2007 without effect on pay and allowances)

Sub SP Staff (Er) Bhanu Pratap (JC-727086A), 01 Apr 2009

Sub Ptr & Dectr Surendra Prasad Singh (JC-727327P), 01 May 2009

Sub Ptr & Dectr S Narsingha Rao (JC-727141L), 01 Mar 2009

Sub Artsn (WW) Balu Singh (JC-726731X), 01 Jan 2010

Sub Artsn (WW) Phatik Chandra Das (JC-726634A), 01 May 2009

NK KASHMIRA
 Under Secy

ARMY BRANCH

No. 715, dated 29th November 2010—The President is pleased to make the following promotions:—

REGULAR ARMY DEFENCE SECURITY CORPS

To be Nb Sub (GD)

Hav Brij Lal Patel (No. 10389336H now JC-842742H), 24 Jun 2010*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 13 Mar 2010 without effect on pay and allowances)

Hav P Andiappan (No. 10451645W now JC-842757L), 10 May 2010**

Hav Ram Kishan (No. 4174126H now JC-842769A), 03 May 2010**

**(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 May 2010 without effect on pay and allowances)

Hav B Somasekharan Nair (No. 10327636F now JC-842782K), 01 Jun 2010***

Hav Pankaj Naik (No. 10258970P now JC-842783M), 03 Jun 2010***

Hav Sahib Nath Dey (No. 10212169H now JC-842785X), 15 Jun 2010***

*** (Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jun 2010 without effect on pay and allowances)

Hav Tek Chand (No. 2875237M now JC-842789N), 01 Jul 2010****

Hav Devappa Jayaram Devamane (No. 10358106N now JC-842790H), 01 Jul 2010****

Hav Hambi Rao Mahadik (No. 10149641H now JC-842792N), 01 Jul 2010****

Hav L Ambrose (No. 10165461K now JC-842794Y), 01 Jul 2010****

Hav Ausan Singh (No. 10227095W now JC-842795F), 12 Jul 2010****

**** (Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jul 2010 without effect on pay and allowances)

Hav Baldev Singh (No. 3974246M now JC-842796K), 01 Jul 2010****

Hav Ramjee Singh (No. 10258879Y now JC-842798P), 07 Jul 2010****

Hav K Vettrikkan (No. 10165324L now JC-842799X), 01 Jul 2010****

**** (Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jul 2010 without effect on pay and allowances)

To be Nb Sub (Clk)

Hav Clk Lal Mohan Tripathy (No. 8824083N now JC-842787H), 01 Jul 2010*****

***** (Gtd seniority in the rank of Nb Sub Clk wef 01 Jul 2010 without effect on pay and allowances)

PRADEEP KUMAR
Under Secy

ARMY BRANCH

No. 716, dated 29th November 2010—The President is pleased to make the following promotions :—

REGULAR ARMY INTELLIGENCE CORPS

To be Nb Sub Int (GD)

Rank, Name, Old Army No., New JC No. & Date of Promotion

Hav/Int GD Radadiya Dinesh Kumar Makan Bhai (No. 7430964Y now JC-811115P), 05 Oct 2007

(Gtd ante-date seniority in the rank of Nb Sub wef 11 Sep 2007 without effect on pay and allowances)

Hav/Int GD P Suresh Kumar (No. 7430966K now JC-811116X), 01 Oct 2007

(Gtd ante-date seniority in the rank of Nb Sub wef 12 Sep 2007 without effect on pay and allowances)

Hav/Int GD Diwan Singh Kholiya (No. 4179332W now JC-811117A), 26 Oct 2007

(Gtd ante-date seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct 2007 without effect on pay and allowances)

Hav/Int GD Devender Singh (No. 7430968P now JC-811118H), 26 Oct 2007

(Gtd ante-date seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct 2007 without effect on pay and allowances)

Hav/Int GD Suresh Kumar (No. 7430969X now JC-811119L), 26 Oct 2007

(Gtd ante-date seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct 2007 without effect on pay and allowances)

Hav/Int GD Bir Bal Singh (No. 15352588M now JC-811120A), 26 Nov 2007

(Gtd ante-date seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct 2007 without effect on pay and allowances)

Hav/Int GD Harvinder Singh Sudan (No. 2478966M now JC-811124W), 17 Nov 2007

(Gtd ante-date seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Nov 2007 without effect on pay and allowances)

Hav/Int GD Suresh HR (No. 14397262M now JC-811125Y), 01 Nov 2007

Hav/Int GD Virendra Bahadur Singh (No. 2987352N now JC-811126F), 16 Dec 2007

(Gtd ante-date seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Nov 2007 without effect on pay and allowances)

Hav/Int GD Chandan Singh (No. 4068743A now JC-811127K), 03 Dec 2007

(Gtd ante-date seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Nov 2007 without effect on pay and allowances)

Hav/Int GD Vinod Kumar (No. 3987845L now JC-811128M), 28 Nov 2007

(Gtd ante-date seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Nov 2007 without effect on pay and allowances)

Hav/Int GD Sasi Kumar KB (No. 7430972X now JC-811129P), 12 Nov 2007

(Gtd ante-date seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Nov 2007 without effect on pay and allowances)

Hav/Int GD Daya Nand Pandey (No. 7430975L now JC-811130K), 13 Nov 2007

(Gtd ante-date seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Nov 2007 without effect on pay and allowances)

Hav/Int GD Krishna Kumar Tiwari (No. 7430817W now JC-811132P), 28 Jan 2008

(Gtd ante-date seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Mar 2006 without effect on pay and allowances)

Hav/Int GD Vijay Pal Singh (No. 7430977W now JC-811133X), 20 Dec 2007

(Gtd ante-date seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Dec 2007 without effect on pay and allowances)

Hav/Int GD Narendra Singh (No. 7430976N now JC-811134A), 03 Dec 2007

(Gtd ante-date seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Dec 2007 without effect on pay and allowances)

Hav/Int GD Umesh Chandra Bamola (No. 7430986X now JC-811135H), 15 Dec 2007

(Gtd ante-date seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Dec 2007 without effect on pay and allowances)

Hav/Int GD Mallappa Halki (No. 7430991H now JC-811136L), 01 Dec 2007

Hav/Int GD Sunil Kumar Singh (No. 7430992L now JC-811138N), 01 Jan 2008

Hav/Int GD Manoj Kumar (No. 7430996F now JC-811139Y), 01 Jan 2008

Hav/Int GD Bhuwan Chandra (No. 14701086Y now JC-811140N), 07 Feb 2008

(Gtd ante-date seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Feb 2008 without effect on pay and allowances)

Hav/Int GD Vinod Kumar Suran (No. 7430502M now JC-811141W), 07 Feb 2008

(Gtd ante-date seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Feb 2008 without effect on pay and allowances)

Hav/Int GD Umesh Chandra Srivastav (No. 7430731X now JC-811142Y), 02 Feb 2008

(Gtd ante-date seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Feb 2008 without effect on pay and allowances)

Hav/Int GD Rajni Kant Upadhyay (No. 7430850N now JC-811143F), 08 Feb 2008

(Gtd ante-date seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Feb 2008 without effect on pay and allowances)

Hav/Int GD Bojja Sreenivasulu (No. 7430856P now JC-811144K), 03 Feb 2008

(Gtd ante-date seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Feb 2008 without effect on pay and allowances)

Hav/Int GD Kunna Ram (No. 7430869M now JC-811145M), 29 Feb 2008

(Gtd ante-date seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Feb 2008 without effect on pay and allowances)

Hav/Int GD Vijoy Kumar Mandal (No. 7430925A now JC-811146P), 09 Feb 2008

(Gtd ante-date seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Feb 2008 without effect on pay and allowances)

Hav/Int GD Roshan Singh (No. 7430941X now JC-811147X), 09 Feb 2008

(Gtd ante-date seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Feb 2008 without effect on pay and allowances)

Hav/Int GD Gajendra Singh Sahariya (No. 7430956A now JC-811148A), 24 Mar 2008

(Gtd ante-date seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Feb 2008 without effect on pay and allowances)

Hav/Int GD Ch Madhava (No. 7430854X now JC-811149H), 24 Mar 2008

(Gtd ante-date seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Feb 2008 without effect on pay and allowances)

Hav/Int GD Daroga Singh (No. 7430940P now JC-811150X), 09 Feb 2008

(Gtd ante-date seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Feb 2008 without effect on pay and allowances)

Hav/Int GD Sumpeta Sammad Sahib (No. 7430960H now JC-811151A), 29 Mar 2008

(Gtd ante-date seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Feb 2008 without effect on pay and allowances)

Hav/Int GD Satendra Kumar (No. 2882239A now JC-811152H), 13 Feb 2008

(Gtd ante-date seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Feb 2008 without effect on pay and allowances)

Hav/Int GD Sunil Datt (No. 15106054Y now JC-811153L), 19 Mar 2008

(Gtd ante-date seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Mar 2008 without effect on pay and allowances)

Hav/Int GD Satbir Singh (No. 14913998N now JC-811154N), 17 Apr 2008

(Gtd ante-date seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Mar 2008 without effect on pay and allowances)

Hav/Int GD Anand Rana (No. 5345802K now JC-811155W), 21 Mar 2008

(Gtd ante-date seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Mar 2008 without effect on pay and allowances)

Hav/Int GD Dilbag Singh (No. 2884527L now JC-811156Y), 21 Mar 2008

(Gtd ante-date seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Mar 2008 without effect on pay and allowances)

Hav/Int GD Manbar Singh (No. 4068125P now JC-811157F), 18 Mar 2008

(Gtd ante-date seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Mar 2008 without effect on pay and allowances)

Hav/Int GD Atar Singh (No. 2986267Y now JC-811158K), 19 Mar 2008

(Gtd ante-date seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Mar 2008 without effect on pay and allowances)

Hav/Int GD Satya Bhushan Mishra (No. 7430832L now JC-811160F), 01 Apr 2008

Hav/Int GD Sansar Chand (No. 2678252H now JC-811161K), 01 Apr 2008

Hav/Int GD Ashok Kumar (No. 13615863W now JC-811162M), 01 Apr 2008

Hav/Int GD Vijendera Singh (No. 15108406K now JC-811163P), 01 Apr 2008

Hav/Int GD Zure Subhadeo Joti (No. 7430891X now JC-811164X), 01 Apr 2008

Hav/Int GD Ajith Kumar KP (No. 7430974H now JC-811165A), 29 Apr 2008

(Gtd ante-date seniority in the rank of Nb Sub wef 20 Apr 2008 without effect on pay and allowances)

Hav/Int GD Hari Shankar Shah (No. 7430998M now JC-811166H), 01 May 2008

Hav/Int GD Roy Philip (No. 7431000W now JC-811167L), 01 May 2008

Hav/Int GD Rajendra Prasad (No. 4066932L now JC-811168N), 08 May 2008

(Gtd ante-date seniority in the rank of Nb Sub wef 01 May 2008 without effect on pay and allowances)

Hav/Int GD Vijay Kumar Thapa (No. 14701660W now JC-811169W), 05 May 2008

(Gtd ante-date seniority in the rank of Nb Sub wef 01 May 2008 without effect on pay and allowances)

Hav/Int GD Roshan Lal (No. 13749300X now JC-811170L), 01 May 2008

Hav/Int GD Rabindra Kr Debnath (No. 4555747A now JC-811171N), 01 May 2008

Hav/Int GD Santosh Kumar (No. 2679008P now JC-811172W), 01 May 2008

Hav/Int GD Charan Singh (No. 14381226X now JC-811173Y), 01 May 2008

Hav/Int GD Rajesh Kumar Sharma (No. 7430613K now JC-811174F), 05 May 2008

(Gtd ante-date seniority in the rank of Nb Sub wef 01 May 2008 without effect on pay and allowances)

Hav/Int GD Yash Pal Singh (No. 13749924K now JC-811179A), 02 Jun 2008

(Gtd ante-date seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jun 2008 without effect on pay and allowances)

Hav/Int GD Krishan Pal Singh (No. 4067267A now JC-811180P), 01 Jun 2008

Hav/Int GD Jyotish Chandra Ray (No. 1080018X now JC-811181X), 01 Jun 2008

Hav/Int GD Mohan Singh (No. 14701256X now JC-811182A), 01 Jun 2008

Hav/Int GD Rajendra Singh (No. 2984597Y now JC-811183H), 01 Jun 2008

Hav/Int GD Prem Singh (No. 4179291X now JC-811184L), 01 Jun 2008

Hav/Int GD Madhav Singh (No. 4179401F now JC-811185N), 01 Jun 2008

Hav/Int GD Bruhaspati Mishra (No. 14384023Y now JC-811186W), 01 Jun 2008

Hav/Int GD Jaswant Singh (No. 14497737A now JC-811189K), 05 Aug 2008

(Gtd ante-date seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jul 2008 without effect on pay and allowances)

Hav/Int GD Joginder Singh (No. 2679867A now JC-811190Y), 11 Jul 2008

(Gtd ante-date seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jul 2008 without effect on pay and allowances)

Hav/Int GD Surinder Singh (No. 3985873Y now JC-811191F), 11 Jul 2008

(Gtd ante-date seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jul 2008 without effect on pay and allowances)

Hav/Int GD Pardeep Kumar (No. 13750256L now JC-811192K), 11 Jul 2008

(Gtd ante-date seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jul 2008 without effect on pay and allowances)

Hav/Int GD Vijendra Singh (No. 4068298M now JC-811193M), 17 Jul 2008

(Gtd ante-date seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jul 2008 without effect on pay and allowances)

Hav/Int GD Indal Singh (No. 14262429X now JC-811194P), 15 Jul 2008

(Gtd ante-date seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jul 2008 without effect on pay and allowances)

Hav/Int GD Shamsher Khan (No. 1087019H now JC-811195X), 19 Jul 2008

(Gtd ante-date seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jul 2008 without effect on pay and allowances)

Hav/Int GD Govind Ram (No. 13961778L now JC-811196A), 12 Jul 2008

(Gtd ante-date seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jul 2008 without effect on pay and allowances)

Hav/Int GD Ram Singh (No. 3384746A now JC-811197H), 17 Jul 2008

(Gtd ante-date seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jul 2008 without effect on pay and allowances)

Hav/Int GD Balwinder Singh (No. 3384788M now JC-811198L), 01 Aug 2008

Hav/Int GD Rajiv Kumar Yadav (No. 14390034F now JC-811199N), 01 Aug 2008

Hav/Int GD Pyar Chand (No. 2680378F now JC-811200X), 01 Aug 2008

Hav/Int GD Dharampal Yadav (No. 15105650Y now JC-811201A), 18 Aug 2008

(Gtd ante-date seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Aug 2008 without effect on pay and allowances)

Hav/Int GD Devinder Singh (No. 1087584A now JC-811202H), 01 Aug 2008

(Gtd ante-date seniority in the rank of Nb Sub wef 17 Jul 2008 without effect on pay and allowances)

Hav/Int GD Nachhater Singh Khosa (No. 3385899W now JC-811203L), 01 Aug 2008

Hav/Int GD Harminder Singh (No. 3386047N now JC-811204L), 18 Aug 2008

(Gtd ante-date seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Aug 2008 without effect on pay and allowances)

Hav/Int GD Lakhvir Singh Pelia (No. 3386233K now JC-811205W), 20 Aug 2008

(Gtd ante-date seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Aug 2008 without effect on pay and allowances)

Hav/Int GD Kamlesh Chand (No. 3987699W now JC-811206Y), 18 Aug 2008

(Gtd ante-date seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Aug 2008 without effect on pay and allowances)

Hav/Int GD Prakash Singh (No. 13616627F now JC-811207F), 22 Aug 2008

(Gtd ante-date seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Aug 2008 without effect on pay and allowances)

Hav/Int GD Ram Lal Thakur (No. 2478858H now JC-811208K), 16 Aug 2008

(Gtd ante-date seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Aug 2008 without effect on pay and allowances)

Hav/Int GD Bhanwar Lal (No. 2680656K now JC-811209M), 16 Aug 2008

(Gtd ante-date seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Aug 2008 without effect on pay and allowances)

Hav/Int GD Prem Singh (No. 13751130X now JC-811210F), 15 Aug 2008

(Gtd ante-date seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Aug 2008 without effect on pay and allowances)

Hav/Int GD M Nagamani (No. 15301658X now JC-811211K), 18 Aug 2008

(Gtd ante-date seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Aug 2008 without effect on pay and allowances)

Hav/Int GD Thiruvankada Samy N (No. 2591216F now JC-811212M), 15 Aug 2008

(Gtd ante-date seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Aug 2008 without effect on pay and allowances)

Hav/Int GD Udayabhanu Narikotan (No. 2591243L now JC-811213P), 15 Aug 2008

(Gtd ante-date seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Aug 2008 without effect on pay and allowances)

Hav/Int GD K. Gopala Krishnan (No. 2591334P now JC-811214X), 16 Aug 2008

(Gtd ante-date seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Aug 2008 without effect on pay and allowances)

Hav/Int GD Nakashatter Singh Khosa (No. 3386859F now JC-811215A), 29 Aug 2008

(Gtd ante-date seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Aug 2008 without effect on pay and allowances)

Hav/Int GD Chintala Srinivasa Rao (No. 7430959N now JC-811216H), 15 Aug 2008

(Gtd ante-date seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Aug 2008 without effect on pay and allowances)

Hav/Int GD Sher Bahadur Chhetri (No. 5846364F now JC-811227P), 18 Aug 2008

(Gtd ante-date seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Aug 2008 without effect on pay and allowances)

Hav/Int GD Samay Singh Gurjar (No. 2986348Y now JC-811228X), 01 Sept 2008

(Gtd ante-date seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Aug 2008 without effect on pay and allowances)

Hav/Int GD T Rajan (No. 2591554Y now JC-811229A), 16 Aug 2008

(Gtd ante-date seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Aug 2008 without effect on pay and allowances)

Hav/Int GD Pawan Kumar (No. 13616956X now JC-811230P), 15 Aug 2008

(Gtd ante-date seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Aug 2008 without effect on pay and allowances)

Hav/Int GD Soban Singh (No. 7240003F now JC-811231X), 18 Aug 2008

(Gtd ante-date seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Aug 2008 without effect on pay and allowances)

Hav/Int GD Arjun Singh Rawat (No. 1480781N now JC-811232A), 29 Aug 2008

(Gtd ante-date seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Aug 2008 without effect on pay and allowances)

Hav/Int GD Balbir Singh (No. 2479446N now JC-811233H), 01 Sept 2008

Hav/Int GD Satyajit Ghosh (No. 14914390L now JC-811234L), 01 Sept 2008

Hav/Int GD Naresh Kumar Sharma (No. 3988338K now JC-811235N), 01 Sept 2008

Hav/Int GD Brij Raj Yadav (No. 8032046N now JC-811236W), 11 Sept 2008

(Gtd ante-date seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Sep 2008 without effect on pay and allowances)

Hav/Int GD Jai Chand (No. 3988392X now JC-811242K), 01 Oct 2008

Hav/Int GD Amrik Singh (No. 3387605W now JC-811243M), 01 Oct 2008

Hav/Int GD Jagat Singh (No. 2986725K now JC-811244P), 01 Oct 2008

Hav/Int GD Jagdish Raj Kaste (No. 2479509L now JC-811245X), 07 Oct 2008

(Gtd ante-date seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct 2008 without effect on pay and allowances)

Hav/Int GD Jagdish Chand (No. 3988452F now JC-811246A), 01 Oct 2008

Hav/Int GD Prabhakar Y (No. 13971744L now JC-811247H), 01 Oct 2008

Hav/Int GD Sukhwinder Singh (No. 2479597M now JC-811248L), 01 Oct 2008

Hav/Int GD Harish Kumar (No. 3988488A now JC-811249N), 10 Oct 2008

(Gtd ante-date seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct 2008 without effect on pay and allowances)

Hav/Int GD Vijay Pal Sharma (No. 2479633M now JC-811250H), 14 Oct 2008

(Gtd ante-date seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Aug 2008 without effect on pay and allowances)

Hav/Int GD Sarabjit Singh (No. 2479656N now JC-811251L), 03 Nov 2008

(Gtd ante-date seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Nov 2008 without effect on pay and allowances)

Hav/Int GD Harnam Singh (No. 2479696P now JC-811252N), 14 Nov 2008

(Gtd ante-date seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Nov 2008 without effect on pay and allowances)

Hav/Int GD Sunil Kumar S (No. 2592078X now JC-811253W), 03 Nov 2008

(Gtd ante-date seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Nov 2008 without effect on pay and allowances)

Hav/Int GD Barkhya Ram (No. 7430898F now JC-811254Y), 01 Nov 2008

Hav/Int GD Sudarshan Roy (No. 7430930L now JC-811255F), 07 Nov 2008

(Gtd ante-date seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Nov 2008 without effect on pay and allowances)

Hav/Int GD Kamal Narayan Tripathi (No. 7430942A now JC-811256K), 01 Nov 2008

Hav/Int GD Hira Lal (No. 7430955X now JC-811257M), 03 Nov 2008

(Gtd ante-date seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Nov 2008 without effect on pay and allowances)

Hav/Int GD Pooran Chand Kumhar (No. 7430957H now JC-811258P), 03 Nov 2008

(Gtd ante-date seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Nov 2008 without effect on pay and allowances)

Hav/Int GD Rajendra Singh (No. 14910488F now JC-811260M), 01 Dec 2008

Hav/Int GD Ramesh Singh Mehra (No. 4179062M now JC-811261P), 01 Dec 2008

Hav/Int GD Sonam Tsering (No. 7430963W now JC-811262X), 10 Dec 2008

(Gtd ante-date seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Dec 2008 without effect on pay and allowances)

Hav/Int GD Gambheer Singh (No. 4068460Y now JC-811263A), 07 Dec 2008

(Gtd ante-date seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Dec 2008 without effect on pay and allowances)

Hav/Int GD Uday Narayan Thakur (No. 7430978Y now JC-811264H), 01 Dec 2008

Hav/Int GD Rajendra Singh (No. 7430987A now JC-811265L), 01 Dec 2008

Hav/Int GD Rameshvar Singh (No. 3987607Y now JC-811266N), 10 Jan 2009

(Gtd ante-date seniority in the rank of Nb Sub wef 17 Jul 2008 without effect on pay and allowances)

Hav/Int GD Girish Chandra (No. 7430988H now JC-811267W), 10 Jan 2009

(Gtd ante-date seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 09 without effect on pay and allowances)

Hav/Int GD Ashok Kumar (No. 3984867Y now JC-811268Y), 13 Jan 2009

(Gtd ante-date seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 09 without effect on pay and allowances)

Hav/Int GD Sukhdev Singh (No. 2478907A now JC-811269F), 28 Jan 2009

(Gtd ante-date seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 09 without effect on pay and allowances)

Hav/Int GD Balram Singh (No. 14382692Y now JC-811270W), 24 Jan 2009

(Gtd ante-date seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 09 without effect on pay and allowances)

Hav/Int GD Shamsher Singh (No. 7430979F now JC-811272F), 03 Feb 2009

(Gtd ante-date seniority in the rank of Nb Sub wef 20 Jan 09 without effect on pay and allowances)

Hav/Int GD Jas Pal Singh (No. 2479037A now JC-811273K), 09 Feb 2009

(Gtd ante-date seniority in the rank of Nb Sub wef 20 Feb 09 without effect on pay and allowances)

Hav/Int GD Debasis Jana (No. 2986911A now JC-811274M), 02 Feb 2009

(Gtd ante-date seniority in the rank of Nb Sub wef 20 Feb 09 without effect on pay and allowances)

Hav/Int GD Govind Singh Manola (No. 4181139H now JC-811275P), 02 Feb 2009

(Gtd ante-date seniority in the rank of Nb Sub wef 20 Jan 09 without effect on pay and allowances)

Hav/Int GD Sheodan Singh (No. 14397322W now JC-811276X), 12 Feb 2009

(Gtd ante-date seniority in the rank of Nb Sub wef 20 Jan 09 without effect on pay and allowances)

Hav/Int GD J Vargheese (No. 4358545A now JC-811277A), 01 Feb 2009

(Gtd ante-date seniority in the rank of Nb Sub wef 20 Jan 09 without effect on pay and allowances)

Hav/Int GD Swaran Singh (No. 2479779A now JC-811278H), 18 Feb 2009

(Gtd ante-date seniority in the rank of Nb Sub wef 20 Jan 09 without effect on pay and allowances)

Hav/Int GD Parveen Kumar (No. 2479813P now JC-811285Y), 16 Mar 2009

(Gtd ante-date seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Feb 09 without effect on pay and allowances)

Hav/Int GD Pritam Chand (No. 2479814X now JC-811286F), 23 Mar 2009

(Gtd ante-date seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Feb 09 without effect on pay and allowances)

Hav/Int GD M Ramakrishnan (No. 2592481K now JC-811287K), 07 Mar 2009

(Gtd ante-date seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Feb 09 without effect on pay and allowances)

Hav/Int GD Kulbir Singh (No. 2479954K now JC-811288M), 05 Mar 2009

(Gtd ante-date seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Feb 09 without effect on pay and allowances)

Hav/Int GD Kanwar Bhan (No. 2884896H now JC-811289P), 07 Mar 2009

(Gtd ante-date seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Feb 09 without effect on pay and allowances)

Hav/Int GD Janak Raj (No. 2681791K now JC-811290K), 01 May 2009

(Gtd ante-date seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Feb 09 without effect on pay and allowances)

Hav/Int GD Sushil Kumar (No. 6384460N now JC-811291M), 13 Mar 2009

(Gtd ante-date seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Feb 09 without effect on pay and allowances)

Hav/Int GD Mohinder Singh (No. 2682061L now JC-811292P), 09 Mar 2009

(Gtd ante-date seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Mar 09 without effect on pay and allowances)

Hav/Int GD Buddhi Lal (No. 8032279P now JC-811293X), 26 Mar 2009

(Gtd ante-date seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Mar 09 without effect on pay and allowances)

Hav/Int GD Shri Pratap Singh (No. 2987871W now JC-811294A), 25 Mar 2009

(Gtd ante-date seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Mar 09 without effect on pay and allowances)

Hav/Int GD Kanaldekar Prasant Kumar Digambar (No. 7430961L now JC-811295H), 25 Mar 2009

(Gtd ante-date seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Mar 09 without effect on pay and allowances)

Hav/Int GD Dalveer Singh (No. 2885041M now JC-811296L), 04 May 2009

(Gtd ante-date seniority in the rank of Nb Sub wef 11 Mar 09 without effect on pay and allowances)

Hav/Int GD Anil Rawat (No. 7430989L now JC-811297N), 02 Apr 2009

(Gtd ante-date seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Apr 09 without effect on pay and allowances)

Hav/Int GD Satish Kumar (No. 2885121K now JC-811298W), 09 Apr 2009

(Gtd ante-date seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Apr 09 without effect on pay and allowances)

Hav/Int GD Mohammad Umer Khan (No. 7431001Y now JC-811299Y), 01 Apr 2009

Hav/Int GD Vinod Singh Rawat (No. 7431004M now JC-811300H), 12 May 2009

(Gtd ante-date seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Apr 09 without effect on pay and allowances)

Hav/Int GD Ghanshyam Chaturvedi (No. 7431009L now JC-811301L), 29 Apr 2009

(Gtd ante-date seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Apr 09 without effect on pay and allowances)

Hav/Int GD Dinesh Bahadur Singh (No. 7431016F now JC-811302N), 29 Apr 2009

(Gtd ante-date seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Apr 09 without effect on pay and allowances)

Hav/Int GD Raj Karan (No. 2681300H now JC-811303W), 03 Apr 2009

(Gtd ante-date seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Apr 09 without effect on pay and allowances)

Hav/Int GD Benjamin J (No. 2592736Y now JC-811304Y), 01 Apr 2009

Hav/Int GD Amarjit Singh (No. 3388350F now JC-811305F), 02 Apr 2009

(Gtd ante-date seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Apr 09 without effect on pay and allowances)

Hav/Int GD T Kannu Chamy (No. 7430871K now JC-811306K), 18 May 2009

(Gtd ante-date seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Apr 09 without effect on pay and allowances)

Hav/Int GD Ashok Kumar (No. 8032065Y now JC-811307M), 01 May 2009

(Gtd ante-date seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct 2008 without effect on pay and allowances)

Hav/Int GD Sekar V (No. 7430862H now JC-811308P), 15 May 2009

(Gtd ante-date seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Nov 2008 without effect on pay and allowances)

Hav/Int GD Brajendra Bahadur Singh (No. 2987911M now JC-811309X), 11 May 2009

(Gtd ante-date seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Mar 09 without effect on pay and allowances)

Hav/Int GD Satish Chander (No. 13689247L now JC-811310M), 11 May 2009

(Gtd ante-date seniority in the rank of Nb Sub wef 01 May 2009 without effect on pay and allowances)

Hav/Int GD Gandharb Singh Chib (No. 9088375M now JC-811311P), 01 May 2009

Hav/Int GD Dulal Deka (No. 4359028P now JC-811312X), 27 Jul 2009

(Gtd ante-date seniority in the rank of Nb Sub wef 01 May 2009 without effect on pay and allowances)

Hav/Int GD Anand Kishor Singh (No. 7431020K now JC-811315L), 16 Jun 2009

(Gtd ante-date seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jun 2009 without effect on pay and allowances)

Hav/Int GD Vijay Chauhan (No. 7431021M now JC-811316N), 01 Jun 2009

Hav/Int GD Pradeep Kumar (No. 7430835Y now JC-811317W), 01 Jun 2009

Hav/Int GD Jitendra Singh (No. 7430944L now JC-811318Y), 04 Jul 2009

(Gtd ante-date seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jun 2009 without effect on pay and allowances)

Hav/Int GD Daya Shankar Chaturvedi (No. 7430948F now JC-811319F), 04 Jul 2009

(Gtd ante-date seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jun 2009 without effect on pay and allowances)

Hav/Int GD Sundar Lal (No. 4069061F now JC-811320W), 08 Jul 2009

(Gtd ante-date seniority in the rank of Nb Sub wef 15 Jun 2009 without effect on pay and allowances)

Hav/Int GD Roshan Lal Gujar (No. 2987287Y now JC-811321Y), 13 Jul 2009

(Gtd ante-date seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jul 2009 without effect on pay and allowances)

Hav/Int GD Pardeep Kumar (No. 7430932W now JC-811322F), 04 Jul 2009

(Gtd ante-date seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jul 2009 without effect on pay and allowances)

Hav/Int GD Devi Charan Chandel (No. 3986021W now JC-811323K), 07 Jul 2009

(Gtd ante-date seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jul 2009 without effect on pay and allowances)

Hav/Int GD Vijay Kumar (No. 13750926F now JC-811324M), 10 Jul 2009

(Gtd ante-date seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jul 2009 without effect on pay and allowances)

Hav/Int GD V Sivaraj (No. 2590727Y now JC-811325P), 01 Aug 2009

(Gtd ante-date seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jul 2009 without effect on pay and allowances)

Hav/Int GD Surinder Kumar Sharma (No. 3987290P now JC-811326X), 10 Aug 2009

(Gtd ante-date seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jul 2009 without effect on pay and allowances)

Hav/Int GD Pooran Singh (No. 2986229H now JC-811329L), 15 Aug 2009

(Gtd ante-date seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Aug 2009 without effect on pay and allowances)

Hav/Int GD Thomas K J (No. 13971096N now JC-811330A), 02 Aug 2009

(Gtd ante-date seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Aug 2009 without effect on pay and allowances)

Hav/Int GD Bishnu Bahadur Acharya (No. 5846417P now JC-811331H), 01 Aug 2009

Hav/Int GD Hira Singh, SM (No. 3387498A now JC-811332), 06 Aug 2009

(Gtd ante-date seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Aug 2009 without effect on pay and allowances)

Hav/Int GD Satnam Singh (No. 4465509M now JC-811333N), 01 Aug 2009

Hav/Int GD Raju Rai (No. 13751558K now JC-811334W), 03 Aug 2009

Hav/Int GD Bihari Lal Attri (No. 4558875H now JC-811335Y), 07 Aug 2009

(Gtd ante-date seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Aug 2009 without effect on pay and allowances)

Hav/Int GD Tarsem Kumar Dogra (No. 2479873K now JC-811336F), 03 Aug 2009

(Gtd ante-date seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Aug 2009 without effect on pay and allowances)

Hav/Int GD Umesh Pal (No. 2987358P now JC-811337K), 01 Sep 2009

Hav/Int GD Pardeep Kumar Singh (No. 2987359X now JC-811338M), 16 Sep 2009

(Gtd ante-date seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Sep 2009 without effect on pay and allowances)

Hav/Int GD Madhava Nand Chandola (No. 4181336L now JC-811339P), 01 Sep 2009

Hav/Int GD Ajaya Kumar P (No. 7431008H now JC-811340K), 01 Sep 2009

Hav/Int GD Shri Krishan Hooda (No. 7431012L now JC-811341M), 01 Sep 2009

Hav/Int GD Sushil Kumar (No. 7431013N now JC-811342P), 01 Sep 2009

Hav/Int GD Prahlad Singh Shekhawat (No. 7431022P now JC-811343X), 01 Sep 2009

Hav/Int GD Devendra Kumar Sharma (No. 7431023X now JC-811344A), 27 Sep 2009

(Gtd ante-date seniority in the rank of Nb Sub wef 19 Sep 2009 without effect on pay and allowances)

Hav/Int GD Prakash Jarali (No. 2591839L now JC-811345H), 01 Jan 2010

(Gtd ante-date seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct 2009 without effect on pay and allowances)

Hav/Int GD Krishan Murari (No. 7431024A now JC-811346L), 13 Oct 2009

(Gtd ante-date seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct 2009 without effect on pay and allowances)

Hav/Int GD Satish Chandra (No. 7431027N now JC-811347N), 26 Oct 2009

(Gtd ante-date seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct 2009 without effect on pay and allowances)

Hav/Int GD Yash Pal (No. 4181614N now JC-811348W), 20 Oct 2009

(Gtd ante-date seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct 2009 without effect on pay and allowances)

Hav/Int GD Surendra Singh Bisht (No. 7431034K now JC-811349Y), 16 Oct 2009

(Gtd ante-date seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct 2009 without effect on pay and allowances)

Hav/Int GD Chandra Ram (No. 4181666K now JC-811350N), 24 Oct 2009

(Gtd ante-date seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct 2009 without effect on pay and allowances)

Hav/Int GD Manoj Kumar (No. 7431036 now JC-811351W),
26 Oct 2009

(Gtd ante-date seniority in the rank of Nb Sub wef
01 Oct 2009 without effect on pay and allowances)

Hav/Int GD Sukumar Ghosh (No. 7431037X now JC-
811353F), 01 Nov 2009

Hav/Int GD Sankarjeet Nayak (No. 7431048K now JC-
811354K), 01 Nov 2009

Hav/Int GD Durg Singh Tomar (No. 2885198M now JC-
811355M), 05 Nov 2009

(Gtd ante-date seniority in the rank of Nb Sub wef
01 Nov 2009 without effect on pay and allowances)

Hav/Int GD Khedkar Bhagwat Bhim Rao (No. 7431049M
now JC-811356P), 04 Nov 2009

(Gtd ante-date seniority in the rank of Nb Sub wef
01 Nov 2009 without effect on pay and allowances)

Hav/Int GD Ravendra Singh Jantwal (No. 4181726N now
JC-811357X), 01 Dec 2009

(Gtd ante-date seniority in the rank of Nb Sub wef
01 Nov 2009 without effect on pay and allowances)

Hav/Int GD Navin Chandra Singh (No. 4181736X now JC-
811358A), 14 Nov 2009

(Gtd ante-date seniority in the rank of Nb Sub wef
01 Nov 2009 without effect on pay and allowances)

Hav/Int GD Mado Singh (No. 4181747K now JC-811359H),
05 Nov 2009

(Gtd ante-date seniority in the rank of Nb Sub wef
01 Nov 2009 without effect on pay and allowances)

Hav/Int GD Brijesh Kumar Singh (No. 13616125Y now JC-
811360X), 22 Jan 2010

(Gtd ante-date seniority in the rank of Nb Sub wef
01 Dec 2008 without effect on pay and allowances)

Hav/Int GD Gagan Bihari Sahu (No. 7431050F now JC-
811361A), 26 Dec 2009

(Gtd ante-date seniority in the rank of Nb Sub wef
01 Dec 2009 without effect on pay and allowances)

Hav/Int GD Hari Om Sharma (No. 14399343L now JC-
811362H), 01 Dec 2009

Hav/Int GD Eswarappa (No. 13898680A now JC-811363L),
25 Dec 2009

(Gtd ante-date seniority in the rank of Nb Sub wef
01 Dec 2009 without effect on pay and allowances)

Hav/Int GD Shyam Narayan Jha (No. 4267473N now JC-
811364N), 01 Dec 2009

Hav/Int GD Gurdip Singh (No. 7431017K now JC-
811365W), 01 Jan 2010

(Gtd ante-date seniority in the rank of Nb Sub wef
01 Dec 2009 without effect on pay and allowances)

Hav/Int GD Chiman Lal (No. 7431029Y now JC-811370F),
01 Jan 2010

Hav/Int GD Raghav Ram Yadav (No. 7431030N now JC-
811371K), 14 Jan 2010

(Gtd ante-date seniority in the rank of Nb Sub wef
01 Jan 2010 without effect on pay and allowances)

Hav/Int GD Ghanwat Machhindra Kashinath
(No. 7431040X now JC-811372M), 01 Jan 2010

Hav/Int GD Laxmi Datt Suyal (No. 4181844F now JC-
811373P), 13 Jan 2010

(Gtd ante-date seniority in the rank of Nb Sub wef
01 Jan 2010 without effect on pay and allowances)

Hav/Int GD Lok Pal Singh (No. 4181857Y now JC-
811374X), 01 Jan 2010

Hav/Int GD Ashok Karagi (No. 7431055A now JC-
811375A), 01 Jan 2010

Hav/Int GD Tila Ram (No. 4181952L now JC-811376H),
01 Jan 2010

Hav/Int GD Gagan Singh (No. 4181963X now JC-811377L),
01 Jan 2010

Hav/Int GD Kharak Singh (No. 4181959P now JC-811378N),
02 Jan 2010

(Gtd ante-date seniority in the rank of Nb Sub wef
01 Jan 2010 without effect on pay and allowances)

Hav/Int GD Vijay Kumar (No. 2480498W now JC-
811379W), 01 Jan 2010

Hav/Int GD Ramu Ram Rewar (No. 14399527K now JC-
811380L), 01 Jan 2010

Hav/Int GD Satish Kumar (No. 2480573P now JC-811381N),
01 Jan 2010

Hav/Int GD Surinder Kumar (No. 7431059W now JC-
811382W), 01 Jan 2010

Hav/Int GD Biswanath Lenka (No. 7431062W now JC-
811383Y), 01 Jan 2010

Hav/Int GD S K Forhad Ali (No. 7431063Y now JC-
811384F), 01 Jan 2010

Hav/Int GD Devendra Prasad Singh (No. 7431065K now
JC-811385K), 01 Jan 2010

Hav/Int GD Md Fakhre Alam (No. 7431066M now JC-
811386M), 01 Feb 2010

Hav/Int GD Amrit Lal (No. 1481790F now JC-811387P),
04 Feb 2010

(Gtd ante-date seniority in the rank of Nb Sub wef
01 Feb 2010 without effect on pay and allowances)

Hav/Int GD Ved Prakash Chauhan (No. 7431069A now
JC-811388X), 01 Feb 2010

Hav/Int GD Jeet Kumar (No. 2480723A now JC-811389A),
01 Feb 2010

Hav/Int GD Sunil Kumar Patial (No. 2480730W now JC-811390P), 02 Feb 2010

(Gtd ante-date seniority in the rank of Nb Sub wef
01 Feb 2010 without effect on pay and allowances)

Hav/Int GD Satish Kumar (No. 7431072A now JC-811391X),
01 Feb 2010

Hav/Int GD Bishnu Dutt (No. 7431073H now JC-811392A),
01 Feb 2010

To be Nb Sub Clk GD

Hav/Clk SD Sunder Singh (No. 4357838Y now JC-811121H),
23 Oct 2007

(Gtd ante-date seniority in the rank of Nb Sub wef
01 Oct 2007 without effect on pay and allowances)

Hav/Clk SD Dev Singh (No. 7430424A now JC-811122L),
15 Oct 2007

(Gtd ante-date seniority in the rank of Nb Sub wef
01 Oct 2007 without effect on pay and allowances)

Hav/Clk SD Chavan Singh Lamba (No. 14575942W now
JC-811131M), 01 Nov 2007

Hav/Clk SD Om Prakash Mishra (No. 7430453P now JC-811137N), 23 Jan 2008

(Gtd ante-date seniority in the rank of Nb Sub wef
01 Dec 2007 without effect on pay and allowances)

Hav/Clk SD Harpal Singh (No. 7430454X now JC-811159M), 01 Apr 2008

Hav/Clk SD Ram Jati Chaudhary (No. 7430455A now JC-811175K), 01 May 2008

Hav/Clk SD Pankaj Kumar Roy (No. 7430447F now JC-811176M), 01 May 2008

Hav/Clk SD Thomas Kutty G (No. 7430460L now JC-811187Y), 01 Jun 2008

Hav/Clk SD Santhosh Kumar R S (No. 7430461N now JC-811188F), 10 Jul 2008

(Gtd ante-date seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jul
2008 without effect on pay and allowances)

Hav/Clk SD Bhaiyalal Yadav (No. 7430462W now JC-811217L), 18 Aug 2008

(Gtd ante-date seniority in the rank of Nb Sub wef 17 Jul
2008 without effect on pay and allowances)

Hav/Clk SD Anil Kumar Yadav (No. 7430463Y now JC-811218N),

(Gtd ante-date seniority in the rank of Nb Sub wef 17 Jul
2008 without effect on pay and allowances)

Hav/Clk SD Janardan Singh (No. 7430464F now JC-811219W), 16 Aug 2008

(Gtd ante-date seniority in the rank of Nb Sub wef 17 Jul
2008 without effect on pay and allowances)

Hav/Clk SD Krishna Prasad Gupta (No. 7430465K now
JC-811220L), 15 Aug 2008

(Gtd ante-date seniority in the rank of Nb Sub wef 17 Jul
2008 without effect on pay and allowances)

Hav/Clk SD Arup Kumar Ghosh (No. 14254807W now JC-811221N), 16 Aug 2008

(Gtd ante-date seniority in the rank of Nb Sub wef 17 Jul
2008 without effect on pay and allowances)

Hav/Clk SD Hira Lal Das (No. 14586556K now JC-811222W), 15 Aug 2008

(Gtd ante-date seniority in the rank of Nb Sub wef 17 Jul
2008 without effect on pay and allowances)

Hav/Clk SD Vijay Kumar Upadhyay (No. 7430468X now
JC-811223Y), 15 Aug 2008

(Gtd ante-date seniority in the rank of Nb Sub wef 17 Jul
2008 without effect on pay and allowances)

Hav/Clk SD Subash Chanda Singh (No. 7430469A now
JC-811224P), 16 Aug 2008

(Gtd ante-date seniority in the rank of Nb Sub wef 17 Jul
2008 without effect on pay and allowances)

Hav/Clk SD Surjaram Mahla (No. 7430472A now JC-811225K), 15 Aug 2008

(Gtd ante-date seniority in the rank of Nb Sub wef 17 Jul
2008 without effect on pay and allowances)

Hav/Clk SD Satyendra Singh (No. 7430473H now JC-811226M), 18 Aug 2008

(Gtd ante-date seniority in the rank of Nb Sub wef 17 Jul
2008 without effect on pay and allowances)

Hav/Clk SD Vishnu Singh Jadaun (No. 2982952M now
JC-811241F), 23 Oct 2008

(Gtd ante-date seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct
2008 without effect on pay and allowances)

Hav/Clk SD Ramesh M (No. 7430477Y now JC-811259X),
01 Dec 2008

Hav/Clk SD Gopala Krishna Pillai (No. 7430475N now JC-811271Y), 11 Feb 2009

(Gtd ante-date seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Dec
2008 without effect on pay and allowances)

Hav/Clk SD Sohan Lal (No. 7430482K now JC-811279L),
20 Mar 2009

(Gtd ante-date seniority in the rank of Nb Sub wef 20 Jan
2009 without effect on pay and allowances)

Hav/Clk SD Vijai Bahadur (No. 14587384M now JC-811280A), 04 Mar 2009

(Gtd ante-date seniority in the rank of Nb Sub wef 20 Jan 2009 without effect on pay and allowances)

Hav/Clk SD Thirumalai Mohan S (No. 14258681Y now JC-811281H), 04 Mar 2009

(Gtd ante-date seniority in the rank of Nb Sub wef 20 Jan 2009 without effect on pay and allowances)

Hav/Clk SD Prakash Chander (No. 14260469A now JC-811282L), 04 Mar 2009

(Gtd ante-date seniority in the rank of Nb Sub wef 20 Jan 2009 without effect on pay and allowances)

Hav/Clk SD Bhenpa Ram (No. 2882666W now JC-811283N), 05 Mar 2009

(Gtd ante-date seniority in the rank of Nb Sub wef 20 Jan 2009 without effect on pay and allowances)

Hav/Clk SD Ram Datt Yadav (No. 14255374W now JC-811284W), 17 Apr 2009

(Gtd ante-date seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Feb 2009 without effect on pay and allowances)

Hav/Clk SD Pawan Singh Pathania (No. 7431174W now JC-811313A), 01 Jun 2009

Hav/Clk SD Prem Prasad Sharma (No. 7431175Y now JC-811314H), 01 Jun 2009

Hav/Clk SD Satyavrat Singh (No. 7430471X now JC-811327A), 01 Aug 2009

Hav/Clk SD Desh Mukh Suresh Hanmant Rao (No. 7430486A now JC-811328H), 01 Aug 2009

Hav/Clk SD Raghunath Singh Gujar (No. 7431203A now JC-811352Y), 15 Oct 2009

(Gtd ante-date seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct 2009 without effect on pay and allowances)

Hav/Clk SD Anil Kumar (No. 7431202X now JC-811366Y), 01 Jan 2010

Hav/Clk SD Dhagla Ram Tandi (No. 4266363M now JC-811367F), 01 Jan 2010

Hav/Clk SD Md Ruhul Amin (No. 2589206Y now JC-811368K), 01 Jan 2010

Hav/Clk SD Mohite Manik Rao Hari Das (No. 14263571N now JC-811369M), 01 Jan 2010

To be Nb Sub/TCL

Hav/TRL Brajendra Kumar Tripathi (No. 14261456P now JC-811123N) 19 Oct 2007

(Gtd ante-date seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct 2007 without effect on pay and allowances)

Hav/TCL Ravindra Kumar (No. 1479770P now JC-811177P), 01 May 2008

Hav/TCL Lalit Pandey (No. 15367289L now JC-811178X), 01 May 2008

Hav/TRL Sandip Koley (No. 15389495P now JC-811238F), 25 Jan 2008

(Gtd ante-date seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2008 without effect on pay and allowances)

To be Nb Sub/TRL

Hav/TRL Parmar Manji Khana (No. 15373942K now JC-811237Y), 24 Jan 2008

(Gtd ante-date seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2008 without effect on pay and allowances)

Hav/TRL Sunil Kumar (No. 13694589H now JC-811239K), 24 Jan 2008

(Gtd ante-date seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2008 without effect on pay and allowances)

Hav/TRL K Arunan (No. 7431258K now JC-811240Y), 03 Oct 2008

(Gtd ante-date seniority in the rank of Nb Sub wef 13 Aug 2008 without effect on pay and allowances)

MAHESH KUMAR KASHYAP
Desk Officer

ARMY BRANCH

No. 717, dated 29th November 2010—The President is pleased to make the following promotions :—

REGULAR ARMY

ARMY MEDICAL CORPS

To be Subs Naib Sub (AMB Asst)

Hav Kamal Singh (No. 13955763M now JC-697144F), 15 Oct 2009*

Hav Raja Bhiya Yadav (No. 13958147X now JC-697145K), 23 Oct 2009*

Hav Basanta Kumar Das (No. 13959291Y now JC-697146Y), 20 Oct 2009*

Hav Gopal Singh Negi (No. 13959508X now JC-697147P), 29 Oct 2009*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct 2009 without effect on pay and allces)

Hav Hari Om (No. 13959558H now JC-697217H), 21 Nov 2009*

Hav Bhikari Ray (No. 13959600W now JC-697218L), 05 Nov 2009*

Hav Babu PT (No. 13959611H now JC-697219N), 19 Nov 2009*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Nov 2009 without effect on pay and allces)

Hav Nawnit Kumar Singh (No. 13958363L now JC-697455P), 09 Dec 2009*

Hav Ramanuj Sharma (No. 13956623M now JC-697296H), 01 Dec 2009*

Hav Rakesh Tiwari (No. 13959595W now JC-697297L), 2008 Dec 2009*

Hav Madan Lal (No. 13959616F now JC-697298N), 07 Dec 2009*

Hav Bashist Singh (No. 13959645W now JC-697299W), 01 Dec 2009*

Hav Golap Kalita (No. 13959652M now JC-697300A), 01 Dec 2009*

Hav Arun Kumar Mondal (No. 13959648K now JC-697301H), 07 Dec 2009*

Hav Nagendra Chandra Ray (No. 13959651K now JC-697381L), 01 Feb 2009*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Dec 2009 without effect on pay and allces)

Hav Surender Ray (No. 13959639H now JC-697377H), 27 Jan 2010*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 06 Dec 2009 without effect on pay and allces)

Hav Niranjana Das (No. 13959904N now JC-697456X), 25 Jan 2010*

Hav Laxman Nath (No. 13959995H now JC-697378L), 18 Jan 2010*

Hav Raj Kumar Shakyia (No. 13960069K now JC-697317F), 11 Jan 2010*

Hav Abhimanyu Sahoo (No. 13960092X now JC-697457A), 07 Feb 2010*

Hav V Sithan Balraj (No. 13960121F now JC-697379N), 25 Jan 2010*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2010 without effect on pay and allces)

Hav Amar Nath Singh (No. 13960246Y now JC-697380H), 01 Feb 2010*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Feb 2010 without effect on pay and allces)

Hav Mabud Mondal (No. 13960291L now JC-697482Y), 03 Mar 2010*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Mar 2010 without effect on pay and allces)

Hav Rajendra Singh (No. 13960314F now JC-697540X), 01 Apr 2010*

Hav Amar Singh (No. 13960505W now JC-697506X), 01 Apr 2010*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Apr 2010 without effect on pay and allces)

Hav Nawal Kishore Singh (No. 13960517L now JC-697683X), 01 Jan 2010*

Hav Surudharma Rao (No. 13960651W now JC-697565K), 03 Jun 2010*

Hav Satya Prakash Upadhaya (No. 13960670F now JC-697566M), 02 Jun 2010*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jun 2010 without effect on pay and allces)

Hav Binoy Bonoary (No. 13960659H now JC-697684A), 01 Jul 2010*

Hav Rakesh (No. 13960717F now JC-697568X), 03 Jul 2010*

Hav Dabbal Singh (No. 13960796F now JC-697567P), 01 Jul 2010*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jul 2010 without effect on pay and allces)

To be Subs Naib Sub (AMB Asst)

Hav Mahesh Kinagi (No. 13960986N now JC-697691W), 05 Aug 2010*

Hav Shankareppa Hulikatti (No. 13961020A now JC-697685H), 02 Aug 2010*

Hav Babu Jamadar (No. 13961021H now JC-697686L), 02 Aug 2010*

Hav Chena Ram Rahar (No. 13961107F now JC-697687N), 01 Aug 2010*

Hav Ajay Kumar Singh (No. 13961305M now JC-697688W), 02 Aug 2010*

Hav Harish Chandra Paul (No. 13961415F now JC-697689Y), 02 Aug 2010*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Aug 2010 without effect on pay and allces)

Hav Tek Singh (No. 13961426N now JC-697719L), 01 Sep 2010*

Hav Suresh Singh (No. 13961829N now JC-697720A), 01 Sep 2010*

Hav Chanakya Thakuria (No. 13961904M now JC-697721H), 01 Sep 2010*

Hav K V Sreenivasa (No. 13961948K now JC-697722L), 03 Sep 2010*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Sep 2010 without effect on pay and allces)

K. S. RANA
Under Secy

ARMY BRANCH

No. 718, dated 29th November 2010—The President is pleased to make the following promotions :—

REGULAR ARMY

ARMoured CORPS

To be Subs Risaldar

Nb Ris Suresh Chand Sharma (JC-241804N), 04 Apr 2010*

*(Gtd seniority in the rank of Ris wef 01 Apr 2010 without effect on pay and allowances)

Nb Ris Kulwant (JC-241278A), 02 May 2010*

*(Gtd seniority in the rank of Ris wef 01 Apr 2010 without effect on pay and allowances)

Nb Ris Karan Singh Kushwah (JC-241871Y), 01 Apr 2010

Nb Ris Sher Singh (JC-242036K), 01 Apr 2010

Nb Ris Ram Balak Yadav (JC-241677K), 07 Apr 2010*

*(Gtd seniority in the rank of Ris wef 01 Apr 2010 without effect on pay and allowances)

Nb Ris Phool Kunwar (JC-242118M), 01 Apr 2010

Nb Ris Dhir Singh (JC-242557X), 01 Jan 2010

Nb Ris Jai Bhagawan Singh (JC-242787L), 20 May 2010*

*(Gtd seniority in the rank of Ris wef 01 Apr 2010 without effect on pay and allowances)

Nb Ris Jasbir Singh (JC-241575N), 30 Mar 2010*

*(Gtd seniority in the rank of Ris wef 01 Feb 2010 without effect on pay and allowances)

Nb Ris Shiv Singh (JC-242992M), 04 May 2010*

*(Gtd seniority in the rank of Ris wef 01 Apr 2010 without effect on pay and allowances)

Nb Ris Guljhari Lal (JC-241557L), 01 May 2010

Nb Ris Suresh Pal (JC-242265P), 03 Jul 2010*

*(Gtd seniority in the rank of Ris wef 06 Jun 2010 without effect on pay and allowances)

Nb Ris Mithalesh Kumar (JC-242452N), 01 Jan 2010

Nb Ris Arvind Babu (JC-242416H), 01 Jan 2010

Nb Ris Ashok Kumar Singh (JC-242991K), 14 Jan 2010*

*(Gtd seniority in the rank of Ris wef 01 Jan 2010 without effect on pay and allowances)

Nb Ris Ramesh Singh (JC-242349H), 28 Jun 2010*

*(Gtd seniority in the rank of Ris wef 04 Apr 2010 without effect on pay and allowances)

Nb Ris Bhinya Ram Bhinchar (JC-241796A), 01 Apr 2010

Nb Ris Rajendra Prasad Singh (JC-242401A), 14 Jan 2010*

*(Gtd seniority in the rank of Ris wef 01 Jan 2010 without effect on pay and allowances)

Nb Ris Jai Prakash (JC-242804A), 15 Apr 2010*

*(Gtd seniority in the rank of Ris wef 01 Jan 2010 without effect on pay and allowances)

Nb Ris Sarup Singh (JC-242602Y), 28 Apr 2010*

*(Gtd seniority in the rank of Ris wef 01 Apr 2010 without effect on pay and allowances)

Nb Ris Daljit Singh (JC-242815M), 18 May 2010*

*(Gtd seniority in the rank of Ris wef 01 Apr 2010 without effect on pay and allowances)

Nb Ris Jasdev Singh (JC-242571K), 16 May 2010*

*(Gtd seniority in the rank of Ris wef 01 Apr 2010 without effect on pay and allowances)

Nb Ris Jagdish Ram (JC-242277K), 03 Jul 2010*

*(Gtd seniority in the rank of Ris wef 01 Jul 2010 without effect on pay and allowances)

Nb Ris Shyam Kumar Ogha (JC-242803X), 10 May 2010*

*(Gtd seniority in the rank of Ris wef 11 Mar 2010 without effect on pay and allowances)

Nb Ris Balbir Singh (JC-241350L), 01 Apr 2010

Nb Ris Mohinder Singh (JC-241929L), 05 Apr 2010*

*(Gtd seniority in the rank of Ris wef 01 Apr 2010 without effect on pay and allowances)

Nb Ris Rajendra Singh Dagur (JC-242651F), 01 Apr 2010

Nb Ris Jugdish Chander (JC-242308Y), 03 Aug 2009*

*(Gtd seniority in the rank of Ris wef 01 Jun 2009 without effect on pay and allowances)

Nb Ris Raghubir Singh (JC-242892F), 29 Mar 2010*

*(Gtd seniority in the rank of Ris wef 17 Feb 2010 without effect on pay and allowances)

Nb Ris Naresh Kumar (JC-242650Y), 07 Apr 2010*

*(Gtd seniority in the rank of Ris wef 01 Apr 2010 without effect on pay and allowances)

Nb Ris Gopal Singh (JC-242049F), 07 Apr 2010*

*(Gtd seniority in the rank of Ris wef 01 Apr 2010 without effect on pay and allowances)

Nb Ris Baljit Singh (JC-242399N), 17 Oct 2010*

*(Gtd seniority in the rank of Ris wef 01 Jul 2010 without effect on pay and allowances)

Nb Ris Sita Ram (JC-242421N), 06 May 2010*

*(Gtd seniority in the rank of Ris wef 01 May 2010 without effect on pay and allowances)

- Nb Ris Dalbir Singh (JC-242336L), 01 Apr 2010
- Nb Ris Ramesh Kumar Poonia (JC-242056X), 09 Feb 2010*
- *(Gtd seniority in the rank of Ris wef 01 Feb 2010 without effect on pay and allowances)
- Nb Ris Man Phool Singh (JC-243282F), 05 Apr 2010*
- *(Gtd seniority in the rank of Ris wef 01 Apr 2010 without effect on pay and allowances)
- Nb Ris Balwinder Singh (JC-242819H), 14 Jun 2010*
- *(Gtd seniority in the rank of Ris wef 01 Apr 2010 without effect on pay and allowances)
- Nb Ris Daljit Singh (JC-242820X), 14 Jun 2010*
- *(Gtd seniority in the rank of Ris wef 01 Apr 2010 without effect on pay and allowances)
- Nb Ris Harender Singh (JC-242578N), 01 Apr 2010
- Nb Ris Narpal Singh Rathore (JC-242847P), 22 May 2010*
- *(Gtd seniority in the rank of Ris wef 01 Apr 2010 without effect on pay and allowances)
- Nb Ris Sukhvinder Singh (JC-242599K), 01 Jan 2010
- Nb Ris Harbans Lal (JC-242120K), 22 Apr 2010*
- *(Gtd seniority in the rank of Ris wef 24 Mar 2010 without effect on pay and allowances)
- Nb Ris Mahavir Singh (JC-242685P), 09 Jan 2010*
- *(Gtd seniority in the rank of Ris wef 01 Jan 2010 without effect on pay and allowances)
- Nb Ris Malkit Singh (JC-242848X), 30 Apr 2010*
- *(Gtd seniority in the rank of Ris wef 01 Apr 2010 without effect on pay and allowances)
- Nb Ris Kulwinder Singh (JC-242849A), 03 May 2010*
- *(Gtd seniority in the rank of Ris wef 01 Apr 2010 without effect on pay and allowances)
- Nb Ris Rakesh Singh (JC-242923W), 14 Jun 2010*
- *(Gtd seniority in the rank of Ris wef 01 Apr 2010 without effect on pay and allowances)
- Nb Ris Jagatter Singh (JC-242589A), 01 Apr 2010
- Nb Ris Jasbir Singh (JC-242860Y), 11 May 2010*
- *(Gtd seniority in the rank of Ris wef 01 Apr 2010 without effect on pay and allowances)
- Nb Ris Chanan Singh (JC-241495W), 02 Jan 2010*
- *(Gtd seniority in the rank of Ris wef 01 Nov 2010 without effect on pay and allowances)
- Nb Ris Naresh Kumar (JC-242814K), 18 May 2010*
- *(Gtd seniority in the rank of Ris wef 01 Apr 2010 without effect on pay and allowances)
- Nb Ris Bhawani Singh (JC-242034Y), 18 Aug 2009*
- *(Gtd seniority in the rank of Ris wef 01 Jul 2009 without effect on pay and allowances)
- Nb Ris Ajaya Kumar S (JC-242369W), 08 Jul 2009
- Nb Ris Azad Singh (JC-242364X), 24 Apr 2010*
- *(Gtd seniority in the rank of Ris wef 01 Apr 2010 without effect on pay and allowances)
- Nb Ris Charan Singh (JC-242303A), 14 Jul 2009*
- *(Gtd seniority in the rank of Ris wef 01 May 2009 without effect on pay and allowances)
- Nb Ris Manjit Singh (JC-242306N), 12 May 2010*
- *(Gtd seniority in the rank of Ris wef 01 May 2010 without effect on pay and allowances)
- Nb Ris Balbir Singh (JC-242087X), 20 May 2010*
- *(Gtd seniority in the rank of Ris wef 01 May 2010 without effect on pay and allowances)
- Nb Ris Vinod Kumar (JC-242458P), 06 Jan 2010*
- *(Gtd seniority in the rank of Ris wef 01 Jan 2010 without effect on pay and allowances)
- Nb Ris Om Prakash (JC-242516N), 10 Jun 2010*
- *(Gtd seniority in the rank of Ris wef 01 Jun 2010 without effect on pay and allowances)
- Nb Ris Bahadur Singh (JC-242854L), 10 Jul 2010*
- *(Gtd seniority in the rank of Ris wef 01 Apr 2010 without effect on pay and allowances)
- Nb Ris Baljit Singh (JC-242598F), 26 Nov 2010*
- *(Gtd seniority in the rank of Ris wef 13 Nov 2009 without effect on pay and allowances)
- Nb Ris Ashok Kumar (JC-242738H), 11 Mar 2010*
- *(Gtd seniority in the rank of Ris wef 08 Feb 2010 without effect on pay and allowances)
- Nb Ris Mahipal Singh (JC-242812Y), 15 Apr 2010*
- *(Gtd seniority in the rank of Ris wef 01 Jan 2010 without effect on pay and allowances)
- Nb Ris Tulsi Ram Yadav (JC-242692L), 10 May 2010*
- *(Gtd seniority in the rank of Ris wef 01 Apr 2010 without effect on pay and allowances)
- Nb Ris Rajeevan Pillai (JC-243291H), 20 May 2010*

*(Gtd seniority in the rank of Ris wef 01 Apr 2010 without effect on pay and allowances)

Nb Ris Dinkar Salve (JC-242852A), 20 May 2010*

*(Gtd seniority in the rank of Ris wef 01 Apr 2010 without effect on pay and allowances)

Nb Ris Paramjit Singh (JC-243187P), 08 Jul 2010*

*(Gtd seniority in the rank of Ris wef 01 Jun 2010 without effect on pay and allowances)

Nb Ris Bakhshish Singh (JC-242816P), 28 Apr 2010*

*(Gtd seniority in the rank of Ris wef 01 Apr 2010 without effect on pay and allowances)

Nb Ris Raghuveer Singh Rathore (JC-242489P), 19 Jun 2010*

*(Gtd seniority in the rank of Ris wef 01 May 2010 without effect on pay and allowances)

Nb Ris Mahaveer Singh (JC-242870H), 03 May 2010*

*(Gtd seniority in the rank of Ris wef 01 Apr 2010 without effect on pay and allowances)

Nb Ris Mohinder Singh (JC-242921L), 01 May 2010*

*(Gtd seniority in the rank of Ris wef 17 Mar 2010 without effect on pay and allowances)

Nb Ris Narayan Ganpat Kanse (JC-242935L), 20 May 2010*

*(Gtd seniority in the rank of Ris wef 01 Apr 2010 without effect on pay and allowances)

Nb Ris Gautam Singh (JC-242900P), 03 Jul 2010*

*(Gtd seniority in the rank of Ris wef 01 Apr 2010 without effect on pay and allowances)

Nb Ris Laxmi Chand (JC-242993P), 03 Jun 2010*

*(Gtd seniority in the rank of Ris wef 01 Apr 2010 without effect on pay and allowances)

Nb Ris Ramash Chand (JC-242829M), 13 Mar 2010*

*(Gtd seniority in the rank of Ris wef 01 Oct 2009 without effect on pay and allowances)

Nb Ris Raj Singh (JC-242797P), 24 Apr 2010*

*(Gtd seniority in the rank of Ris wef 01 Apr 2010 without effect on pay and allowances)

Nb Ris Jai Singh Yadav (JC-243001A), 04 Jun 2010*

*(Gtd seniority in the rank of Ris wef 01 Apr 2010 without effect on pay and allowances)

Nb Ris Hari Ram (JC-242906W), 24 May 2010*

*(Gtd seniority in the rank of Ris wef 03 Apr 2010 without effect on pay and allowances)

Nb Ris Rabinder (JC-242894M), 29 Mar 2010*

*(Gtd seniority in the rank of Ris wef 17 Feb 2010 without effect on pay and allowances)

Nb Ris Surender Singh (JC-243119F), 13 Mar 2010*

*(Gtd seniority in the rank of Ris wef 01 Oct 2009 without effect on pay and allowances)

Nb Ris Sukhdev Singh (JC-242947A), 05 Jun 2010*

*(Gtd seniority in the rank of Ris wef 01 Jun 2010 without effect on pay and allowances)

Nb Ris Balwinder Singh (JC-243025K), 26 Apr 2010*

*(Gtd seniority in the rank of Ris wef 01 Apr 2010 without effect on pay and allowances)

Nb Ris Karam Vir (JC-243006Y), 20 May 2010*

*(Gtd seniority in the rank of Ris wef 01 May 2010 without effect on pay and allowances)

Nb Ris Sukh Dev Singh (JC-242895P), 29 Mar 2010*

*(Gtd seniority in the rank of Ris wef 17 Feb 2010 without effect on pay and allowances)

Nb Ris Ajit Singh (JC-242689L), 01 May 2010

Nb Ris Raman Kumar (JC-243458F), 20 Apr 2010*

*(Gtd seniority in the rank of Ris wef 01 Jan 2010 without effect on pay and allowances)

Nb Ris Mithlesh Kumar Jha (JC-243100H), 14 Jun 2010*

*(Gtd seniority in the rank of Ris wef 01 Apr 2010 without effect on pay and allowances)

Nb Ris Sukh Pal (JC-243102N), 14 Jun 2010*

*(Gtd seniority in the rank of Ris wef 01 Apr 2010 without effect on pay and allowances)

Nb Ris Surinder Singh (JC-242951H), 02 Jul 2010*

*(Gtd seniority in the rank of Ris wef 01 Apr 2010 without effect on pay and allowances)

Nb Ris Patil Rajaram Bandu (JC-243077A), 04 Jun 2010*

*(Gtd seniority in the rank of Ris wef 01 May 2010 without effect on pay and allowances)

Nb Ris Joginder Singh (JC-242501L), 20 Jul 2009*

*(Gtd seniority in the rank of Ris wef 01 Jun 2009 without effect on pay and allowances)

Nb Ris Ram Kumar (JC-243191X), 15 Jan 2010*

*(Gtd seniority in the rank of Ris wef 01 Oct 2009 without effect on pay and allowances)

Nb Ris K Lakshmanan (JC-242734M), 25 Nov 2009*

*(Gtd seniority in the rank of Ris wef 01 Nov 2009 without effect on pay and allowances)

- Nb Ris Arbind Kumar Singh (JC-242708L), 01 Jan 2010
- Nb Ris Dev Raj Sharma (JC-243166Y), 17 Mar 2010*
- *(Gtd seniority in the rank of Ris wef 01 Oct 2009 without effect on pay and allowances)
- Nb Ris Rajvir Singh (JC-242798X), 19 May 2010*
- *(Gtd seniority in the rank of Ris wef 01 Apr 2010 without effect on pay and allowances)
- Nb Ris Roshan Lal (JC-242853H), 26 May 2010*
- *(Gtd seniority in the rank of Ris wef 01 Apr 2010 without effect on pay and allowances)
- Nb Ris Devender Kumar (JC-242380P), 01 Apr 2010
- Nb Ris Govind Singh Choudhary (JC-242881P), 26 Apr 2010*
- *(Gtd seniority in the rank of Ris wef 01 Jan 2010 without effect on pay and allowances)
- Nb Ris Harinder Singh (JC-242822H), 05 May 2010*
- *(Gtd seniority in the rank of Ris wef 01 Apr 2010 without effect on pay and allowances)
- Nb Ris Krishna Kant Rathor (JC-242491M), 01 May 2010
- Nb Ris V Chandra Babu Naidu (JC-242930M), 31 May 2010*
- *(Gtd seniority in the rank of Ris wef 01 Apr 2010 without effect on pay and allowances)
- Nb Ris Dinesh Singh (JC-242843Y), 01 Jun 2010*
- *(Gtd seniority in the rank of Ris wef 01 Apr 2010 without effect on pay and allowances)
- Nb Ris Som Dutt (JC-242936N), 03 Jun 2010*
- *(Gtd seniority in the rank of Ris wef 01 Apr 2010 without effect on pay and allowances)
- Nb Ris Kishan Singh Hq Sott (JC-242436W), 14 Sep 2009*
- *(Gtd seniority in the rank of Ris wef 01 Sep 2009 without effect on pay and allowances)
- Nb Ris Pardeep Kumar Hq 14 Indep Armd BDE (JC-242920H), 20 May 2010*
- *(Gtd seniority in the rank of Ris wef 01 May 2010 without effect on pay and allowances)
- Nb Ris Rajwant Singh 46 Armd Regt (JC-242926K), 28 Jan 2010*
- *(Gtd seniority in the rank of Ris wef 01 Apr 2010 without effect on pay and allowances)
- Nb Ris Ashwani Kumar 41 Armd Regt (JC-242967N), 01 May 2010
- Nb Ris Bodu Ram 65 Armd Regt (JC-242942F), 25 Apr 2010*
- *(Gtd seniority in the rank of Ris wef 01 Apr 2010 without effect on pay and allowances)
- Nb Ris Virender Singh 3 CAV (JC-243211A), 05 Jul 2010*
- *(Gtd seniority in the rank of Ris wef 01 Jul 2010 without effect on pay and allowances)
- Nb Ris Ramvir Singh 66 Armd Regt (JC-243076X), 03 Jun 2010*
- *(Gtd seniority in the rank of Ris wef 01 May 2010 without effect on pay and allowances)
- Nb Ris Kuldeep Singh Hq 23 Inderp Armd Bde (JC-242662N), 22 Jul 2009*
- *(Gtd seniority in the rank of Ris wef 01 Jul 2009 without effect on pay and allowances)
- Nb Ris Kashmir Singh 63 CAV (JC-243152Y), 20 May 2010*
- *(Gtd seniority in the rank of Ris wef 01 Apr 2010 without effect on pay and allowances)
- Nb Ris Ravinder Singh 46 Armd Regt (JC-243101L), 14 Jun 2010*
- *(Gtd seniority in the rank of Ris wef 01 Apr 2010 without effect on pay and allowances)
- Nb Ris Nardeshwar Singh (JC-243030P), 17 Jun 2010*
- *(Gtd seniority in the rank of Ris wef 01 Apr 2010 without effect on pay and allowances)
- Nb Ris Veer Singh (JC-242945P), 20 Apr 2010*
- *(Gtd seniority in the rank of Ris wef 17 Mar 2010 without effect on pay and allowances)
- Nb Ris Seraman Iramboraik (JC-242809Y), 15 May 2010*
- *(Gtd seniority in the rank of Ris wef 01 Apr 2010 without effect on pay and allowances)
- Nb Ris Annapu Reddy Brahma Reddy (JC-242834X), 11 May 2010*
- *(Gtd seniority in the rank of Ris wef 01 Apr 2010 without effect on pay and allowances)
- Nb Ris Sarbjit Singh (JC-243192A), 24 May 2010*
- *(Gtd seniority in the rank of Ris wef 01 Apr 2010 without effect on pay and allowances)
- Nb Ris Ram Kumar (JC-243040Y), 28 May 2010*
- *(Gtd seniority in the rank of Ris wef 01 May 2010 without effect on pay and allowances)
- Nb Ris Inder Singh (JC-242896X), 03 Apr 2010*
- *(Gtd seniority in the rank of Ris wef 01 Apr 2010 without effect on pay and allowances)

Nb Ris Subhash K V (JC-243375W), 14 May 2010*

*(Gtd seniority in the rank of Ris wef 01 Apr 2010 without effect on pay and allowances)

Nb Ris Jaibir (JC-243325L), 14 Jun 2010*

*(Gtd seniority in the rank of Ris wef 01 Apr 2010 without effect on pay and allowances)

Nb Ris Mal Singh Rathore (JC-243381K), 06 May 2010*

*(Gtd seniority in the rank of Ris wef 01 Apr 2010 without effect on pay and allowances)

Nb Ris Virender Kumar Yadav (JC-243406L), 07 May 2010*

*(Gtd seniority in the rank of Ris wef 01 Apr 2010 without effect on pay and allowances)

Nb Ris Pratap Singh Yadav (JC-243326N), 14 Jun 2010*

*(Gtd seniority in the rank of Ris wef 01 Apr 2010 without effect on pay and allowances)

Nb Ris Hardev Singh Thakur (JC-242883A), 01 Jan 2010*

*(Gtd seniority in the rank of Ris wef 01 Oct 2009 without effect on pay and allowances)

Nb Ris Kuldeep Singh (JC-243338H), 14 Jun 2010*

*(Gtd seniority in the rank of Ris wef 01 Apr 2010 without effect on pay and allowances)

Nb Ris Megh Singh Rajput (JC-242983I), 20 Apr 2010*

*(Gtd seniority in the rank of Ris wef 17 Mar 2010 without effect on pay and allowances)

Nb Ris Ajit Singh (JC-243275L), 22 May 2010*

*(Gtd seniority in the rank of Ris wef 01 Apr 2010 without effect on pay and allowances)

Nb Ris Rameshwer Singh (JC-242913M), 01 Jan 2010*

*(Gtd seniority in the rank of Ris wef 01 Oct 2009 without effect on pay and allowances)

Nb Ris Kamlesh Singh (JC-243451X), 20 May 2010*

*(Gtd seniority in the rank of Ris wef 01 May 2010 without effect on pay and allowances)

Nb Ris Babu Lal Jat (JC-243169M), 21 May 2010*

*(Gtd seniority in the rank of Ris wef 01 May 2010 without effect on pay and allowances)

Nb Ris Bhana Ram (JC-242663W), 01 Aug 2009

Nb Ris Gopa Kumar K (JC-242808W), 03 Apr 2010*

*(Gtd seniority in the rank of Ris wef 02 Mar 2010 without effect on pay and allowances)

Nb Ris Ranbir Singh (JC-243044P), 01 May 2010

Nb Ris Suresh Kumar V (JC-243374N), 06 May 2010*

*(Gtd seniority in the rank of Ris wef 01 Apr 2010 without effect on pay and allowances)

Nb Ris Lakhvinder Singh (JC-243373L), 06 May 2010*

*(Gtd seniority in the rank of Ris wef 01 Apr 2010 without effect on pay and allowances)

Nb Ris Rajendran Pillai J (JC-242625A), 21 May 2010*

*(Gtd seniority in the rank of Ris wef 01 May 2010 without effect on pay and allowances)

Nb Ris Maman Chand (JC-243407N), 07 May 2010*

*(Gtd seniority in the rank of Ris wef 01 Apr 2010 without effect on pay and allowances)

Nb Ris Kulwant Singh (JC-242937W), 03 Apr 2010*

*(Gtd seniority in the rank of Ris wef 01 Apr 2010 without effect on pay and allowances)

Nb Ris Mane Ashok Narayan (JC-243068Y), 03 Apr 2010*

*(Gtd seniority in the rank of Ris wef 01 Apr 2010 without effect on pay and allowances)

Nb Ris Raju S (JC-242633Y), 21 May 2010*

*(Gtd seniority in the rank of Ris wef 01 May 2010 without effect on pay and allowances)

Nb Ris Kinder Pal Singh (JC-243496X), 06 May 2010*

*(Gtd seniority in the rank of Ris wef 01 Apr 2010 without effect on pay and allowances)

Nb Ris Chaman Lal (JC-242917H), 16 Mar 2010*

*(Gtd seniority in the rank of Ris wef 15 Nov 2009 without effect on pay and allowances)

Nb Ris Abdul Sattar (JC-242289Y), 03 Apr 2010*

*(Gtd seniority in the rank of Ris wef 01 Apr 2010 without effect on pay and allowances)

Nb Ris Dharmendra Singh (JC-243094A), 06 Apr 2010*

*(Gtd seniority in the rank of Ris wef 01 Apr 2010 without effect on pay and allowances)

Nb Ris Mahendra Singh Khadga (JC-242912K), 20 Apr 2010*

*(Gtd seniority in the rank of Ris wef 01 Apr 2010 without effect on pay and allowances)

J ROY CHOWDHARY
Under Secy

AIR HEADQUARTERS

No. 719, dated 30th November 2010—The Competent Authority is pleased to promote Sh. Virender Kumar, D Man Gde 1 in AFHQ/ISOs as Chief Drawing Officer (Group 'B' Gazetted in PB-2, Rs. 9,300—34,800/- + Rs. 4,600/- Grade Pay) with effect from 09 Aug 2010.

A K LAROIYA
Dy CAO (A)

ARMY BRANCH

No. 720, dated 30th November 2010—The President is pleased to permit the undermentioned officer relinquish his/her short service commission in the Army Medical Corps wef 05 Dec 2008 and to grant him/her permanent commission in the Army Medical Corps wef the same date under AI 74/76 as amended :—

REGULAR ARMY

PERMANENT COMMISSION

To be Capt

Pankaj Kumar Gogoi (MS-15242A) (MR-08769M), AMC, 21 Apr 2006 with seniority for pay and promotion from 21 Oct 2002 this includes 42 months antedate for PG Degree, Master of Surgery (General Surgery) and hospital appointment which will not count for gratuity

(MoD Notification published in Gazetted of India dated 17 Oct 2009 in so far as it relates to the officer is hereby cancelled)

The President is pleased to permit the undermentioned officer relinquish his/her short service commission in the Army Medical Corps wef 30 Dec 2009 and to grant him/her permanent commission in the Army Medical Corps wef the same date under AI 74/76 as amended :—

REGULAR ARMY

PERMANENT COMMISSION

To be Capt

Kedar Pradeep Mahadeo (MS-15385A) (MR-08968A), AMC, 22 Sep 2006 with seniority for pay and promotion from 22 Sep 2004 (this includes 24 months antedate for PG Diploma in Anesthesiology which will not count for gratuity

(MoD Notification published in Gazetted of India dated 17 May 2008 in so far as it relates to the officer is hereby cancelled)

Arun Yadav (MS-15350K) (MR-08975W), AMC, 22 Sep 2006

(MoD Notification published in Gazetted of India dated 22 Sep 2007 in so far as it relates to the officer is hereby cancelled)

Baljeet Singh Poonia (MS-15487W) (MR-08981K), AMC, 20 Mar 2007

(MoD Notification published in Gazetted of India dated 12 Jan 2008 in so far as it relates to the officer is hereby cancelled)

Saloni Mittal (MS-15275L) (MR-08980F), AMC, 13 Mar 2006

(MoD Notification published in Gazetted of India dated 17 Feb 2007 in so far as it relates to the officer is hereby cancelled)

The President is pleased to permit the undermentioned officer relinquish his/her short service commission in the Army Medical Corps wef 05 Dec 2008 and to grant him/her permanent commission in the Army Medical Corps wef the same date under AI 74/76 as amended :—

REGULAR ARMY

PERMANENT COMMISSION

To be Lt

Dharmendra Kumar (MS-15291H) (MR-08978K), AMC, 13 Mar 2006

(MoD Notification published in Gazetted of India dated 17 Feb 2007 in so far as it relates to the officer is hereby cancelled)

The President is pleased to permit the undermentioned officer relinquish his/her short service commission in the Army Medical Corps wef 01 Jul 2009 and to grant him/her permanent commission in the Army Medical Corps wef the same date under AI 74/76 as amended :—

REGULAR ARMY

PERMANENT COMMISSION

To be Flt Lt

Manish Kumar Sondhi (MS-15480M) (AF-28885R) (MR-08976Y), AMC, 22 Jan 2007

(MoD Notification published in Gazetted of India dated 24 Nov 2007 in so far as it relates to the officer is hereby cancelled)

YASH PANDE
Brig
Dy DG AFMS (HR)

FINANCE DIVISION

No. 721, dated 1st December 2010—The President is pleased to retire Shri T Joseph, DFA, Ministry of Defence (Finance) from Government Service with effect from 31 Oct 2010 (AN) on attaining the age of superannuation.

The President is pleased to retire Shri V K Sharma, Section Officer, Ministry of Defence (Finance) from Government Service with effect from 31 Oct 2010 (AN) on attaining the age of superannuation.

The President is pleased to retire Smt Nirmala Chhabra, Section Officer, Ministry of Defence (Finance) from Government Service with effect from 31 Oct 2010 (AN) on attaining the age of superannuation.

R C MEENA
Asstt Financial Adviser (E)

ARMY BRANCH

No. 722, dated 1st December 2010—The President is pleased to make the following amendment :—

REGULAR ARMY

PERMANENT COMMISSION

Army Medical Coprs (Non Tech)

CORRIGENDUM

The personal number in respect of NTR-16734L Lt Chaman Singh Shishodia published in the Gazette Notification No. 19 of May 12—May 18, 2007 is amended as follows :—

FOR — NTR-17734L
READ — NTR-16734L

YASH PANDE
Brig
Dy DG AFMS (HR)

ARMY BRANCH

No. 723, dated 1st December 2010—The President is pleased to make the following promotions :—

REGULAR ARMY

INFANTRY

The Mech Inf Regt

In the Ministry of Defence Notification No. 429 dated 15 Jun 2009 published in the Gazetted of India serial No. 32

dated 2008 Aug 2009 under heading "Regular Army" sub heading "Infantry and The Mechanised Infantry Regiment" below :—

To be Subs Sub

FOR

Nb Sub (OWAFV) Purshotam Singh P (JC-4200365K),
23 Apr 2009*

*(Granted Seniority in the rank of Subs Sub wef 01 Mar 2009 without effect on pay and allowances)

READ

Nb Sub (OWAFV) Purshotam Singh P (JC-420365K),
23 Apr 2009*

*(Granted Seniority in the rank of Subs Sub wef 01 Mar 2009 without effect on pay and allowances)

FOR

Nb Sub (GNR PT) Rajender (JC-4200622W), 18 Apr 2009*

*(Granted Seniority in the rank of Subs Sub wef 01 Mar 2009 without effect on pay and allowances)

READ

Nb Sub (GNR PT) Rajender (JC-420622W), 18 Apr 2009*

*(Granted Seniority in the rank of Subs Sub wef 01 Mar 2009 without effect on pay and allowances)

J ROY CHOWDHARY
Under Secy